



ॐ

परमार्थ प्रन्यमालाका ११ चौं पुस्तक

# परमार्थ-पत्रावली

## [ द्वितीय भाग ]



लेखक—  
जयदयाल गोयन्दका



ॐ

परमार्थ-ग्रन्थमालाका ११ वाँ पुस्तक

# परमार्थ-पत्रावली

## [ द्वितीय भाग ]



लेनका—  
जयदयाल गोयन्दका

मुद्रक तथा प्रकाशक

घनश्यामदास जालान

गीताप्रेस, गोरखपुर



संवत् १९९७ विं प्रथम बार ५२५०

मूल्य चार आनामात्र

मिलनेका पता—

गी ता प्रे स, गो र ख पु र


श्रीहरि

## प्रकाशकका निवेदन

आज परमार्थ-पत्रामधीन का द्वितीय भाग प्रेमी पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें बड़ा आनन्द हो रहा है। सन्तोषफली वात है कि प्रथम भागको जनताने वडे प्रेम और उत्साहसे अपनाया तथा आदर किया है। कुछ ही वर्षोंमें उसके तीन सत्कारैक्स-प्रकाशित हो गये। श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्रोंमें सक्षेपत उपादेय विषयोंका किनाना सरल और सुन्दर प्रिवेचन रहता है—यह वतानेकी आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासुओंकी परमार्थगियक रुचि एव सत्सग-प्रेमको बढ़ाने तथा आन्तरिक जिज्ञासाकी पूर्ति करनेमें इन पत्रोंद्वारा बहुत सहायता मिलती है, इसलिये परमार्थ-प्रेमियोंका इसकी ओर झुकान होना स्वाभाविक है। लोगोंके इस परम लाभकी ओर दृष्टि रखकर ही यह द्वितीय भाग प्रकाशित किया गया है। इसमें ८० पत्रोंका सम्रह हुआ है।

वर्षप्रेमी बन्धुओंसे प्रार्थना है कि वे इस नवीन संग्रहसे लाभ उठावें।

—प्रकाशक



आहार

## विषय-सूची

पद नं०	पृष्ठ-संख्या
१—सत्रह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर	१
२—श्रद्धा, भक्ति एव प्रेमकी उत्पत्तिके उपाय	१२
३—चौमीस प्रबोक्ता उत्तर	१७
४—गीतासम्बन्धी प्रश्नोत्तर	२५
५—विभिन्न प्रश्नोत्तर	३१
६—वीमारीमें साधनाकी प्रेरणा	३९
७—जपकी उत्तम प्रियि	४२
८—लीवात्मासम्बन्धी प्रबोक्ता	४५
९—विकारोंके नाशके उपाय	४९
१०—भगवद्प्रातिमें पुरुषार्थकी प्रधानता	५३
११—निरन्तर भजन ध्यान होनेके उपाय	५४
१२—भगवदर्थ व्यवहार	५५
१३—चेतावनी	५६
१४—ग्रहा प्रकृति भेद	५७
१५—सच्ची सलाह	५९
१६—ध्यान	६०



पंक्ति-नं०	पृष्ठ-संख्या
४३—रास्ता सुधरनेका उत्तम उपाय	१०३
४४—नाममें प्रेम कैसे हो ?	१०५
४५—भगवान्‌में मन लगनेके उपाय	१०६
४६—सतत भगवत्स्मरणका उपाय	१०८
४७—सत्सङ्ग-प्राप्ति	१०९
४८—भगवत्यातिकी सुलभता	११०
४९—निरन्तर ध्यान और महापुरुषोंके दर्शनका फल	१११
५०—भजनसे पापनाश	११२
५१—नामजपकी प्रधानता	११३
५२—धनकी तुच्छता	११५
५३—मनको स्थिर करनेके उपाय	११९
५४—नाम-जप ही सार है	१२१
५५—प्रेमका आविर्भाव कैसे हो ?	१२२
५६—ममत्वरहित समर्पण	१२५
५७—सकल्य-न्याग	१२८
५८—भगवत्स्मृतिमें भूल न होनेका उपाय	१३१
५९—योग और योगी	१३५
६०—सत्सङ्गकी आवश्यकता	१३८
६१—मनुष्य-जन्मका कर्तव्य	१३९
६२—नाम-जपसे भगवत्याति	१४१
६३—चेतावनी	१४४
६४—मूर्खकी परिभाषा	१४६
६५—आत्म-कल्याणके विचार	१४७
६६—सत्सङ्गका प्रभाव	१४९
६७—विरोपके नाशका उपाय	१५१
६८—भगवान् प्रेमके वशीभूत हैं	१५४







श्रीपरमात्मने नमः

# परमार्थ-पत्रावली

## द्वितीय भाग

[ १ ]

आपका ३० तारीखको १८-१-१९३४ सनका रूपापत्र मिला था, कई प्रकारके कार्योंकी भीट पर्व अस्वस्थता आदि कारणोंसे पत्र लिखनेमें विलम्ब हो गया, इसके लिये क्षमा करें। आपने प्रश्नोंके सम्बन्धमें कुछ घातें पूछीं सो बड़े आनन्द-की घात है, इसके लिये क्षमा नहीं माँगनी चाहिये और न उत्तरके लिये टिकट ही भेजना चाहिये। आपका शङ्कानिवारणार्थ पूछना उचित ही है, इसमें नास्तिक माननेकी कौन-सी घात है। किसीको भी नास्तिक समझ लेना समझदार मनुष्यके लिये उचित नहीं है। आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः निम्नलिखित है-

१-नाम-जप और ध्यानके सम्बन्धमें पूछा सो मेरी समझसे नाम-जप और ध्यानसे अवश्य ही आत्माका उत्थान होता है। मनुष्य जिसका नाम उच्चारण करता है, उसीका स्वरूप उसे याद आता है और वह जैसी घम्तु होती है, वेसा ही उसका असर पढ़ता है। जब कामी पुरुष खोरों याद करता है, तो उसके मनमें यामका विकार प्रत्यक्ष उत्पन्न होता

## परमार्थ-पत्रावली

देखा जाता है, तब विज्ञानानन्दघन परमात्माके चिन्तनसे ज्ञान और आनन्दकी वृद्धि होनेमें क्यों शङ्का करनी चाहिये ? भगवान्‌के नाम-जप और ध्यानसे समस्त पापोंका नाश होकर परमपदकी प्राप्ति होती है ऐसा विश्वास करना ही चाहिये । प्रत्यक्षमें भी ध्यान और नाम-जप करते समय स्फुरणाका अभाव और आनन्दकी प्राप्ति होती ही है । शास्त्रप्रमाण तो बहुत हैं । पातञ्जलयोगदर्शनमें सूत्र हैं—

‘तस्य वाचकः प्रणवः ।’

‘तज्जपस्तदर्थभावनम् ।’

उस परमात्माका वाचक अर्थात् नाम ॐ है, उस ॐ का जप और उसके अर्थकी भावना अर्थात् परमात्माके खस्त्रका चिन्तन करना ।

‘ततः प्रत्यक्चेतनाविगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ।’

इससे विघ्नोंका अभाव और परमात्माकी प्राप्ति भी हो जाती है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् कहते हैं—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥

जो पुरुष ‘ॐ’ इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ और ( उसके अर्थस्वरूप ) मुखको चिन्तन करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है वह परमगतिको प्राप्त होता है ।

गोस्वामी तुलसीदास, ज्ञानदेव, समर्थ रामदास आदि अनुभवी सन्त भी अपने अनुभवसे नाम-महिमाकी धोषणा करते

हैं। आधुनिक कालके भी अच्छे-अच्छे पुस्तकोंने नामसे लाभ होना अपने अनुभवसे घतलाया है। मैं अपने अनुभवके सम्बन्धमें क्या लिखूँ, इतना हो काफी है कि मुझको तो इससे शान्ति मिली है।

२-सगुण परमात्माके दो भेद हैं, एक सगुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंका कार्य यह दृश्यप्रपञ्च जब कारणमें लय हो जाता है तब वह गुणमयी प्रकृति विद्वानानन्दधनं परमात्माके जिस अंशमें स्थित रहती है वही निराकार सगुण ब्रह्म है। इस निराकार सगुण ब्रह्मका संसारके नाश होनेपर भी नाश नहीं होता। इसीको गीता (८।२०) में सनातन अव्यक्त कहा है—

परस्तस्मात् भागोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनं ।

य स सर्वेषु भूतेषु न नश्यत्सु न विनश्यति ॥

उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात् विलक्षण जो सनातन अव्यक्तभाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता।

यह कोई नियमकी चात नहीं है कि सगुण वस्तु साकार हो श्वे। आकाश निराकार है और सर्वत्र व्याप्त है परन्तु उसमें शब्द-गुण वर्तमान है।

आकाशमें स्थित जल निराकार रहता है, वही घादलके रूपमें आता है और वही जल, वर्फ इत्यादिके रूपमें आ जाता है। निराकार रूपमें भी जलके गुण रहते हैं, परन्तु उसका आकार नहीं दीखता। तथापि वहाँ जलका अस्तित्व मानना

ही होता है। अतएव सगुण अद्यक्ष ब्रह्मको सर्वत्र व्याप कहनेमें और समस्त संसार उसमें लोन होता है यह कहनेमें कोई 'वदतो व्याधात' दोष नहीं आता।

३-भगवान् पुरुषविशेष हैं, पर वे अल्प नहीं हैं। योगदर्शनमें कहा है—

'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' ( १।२४ )

क्लेश ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और मरणभय ), कर्म ( शुभ, अशुभ और मिथ्रित ), विपाक ( सुख-दुःख ) और आशय ( वासना ) के संसर्गसे रहित पुरुषविशेष ( पुरुषोत्तम ) का नाम ईश्वर है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें स्वयं भगवान् कहते हैं—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिनः पुरुषोत्तमः ॥

यो मामेवमसंमृदो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्वज्ञति मां सर्वभावेन भारत ॥

( १५। १८-१९ )

मैं नाशवान् जडवर्गसे तो सर्वथा अतीत हूँ और ( मायामें स्थित ) अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ। इसलिये मैं लोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम ( नामसे ) प्रसिद्ध हूँ। हे भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझको ही भजता है।

४-भगवान् कोई उत्पन्न नहीं करता, वे स्वयं प्रकट

होते हैं। यद्यपि लोकटटिसे मनुष्याकारमें भगवान् श्रीराम एवं श्रीकृष्ण माता-पितासे प्रकट होते-से दीपते हैं परन्तु वास्तवमें वे अपने आप ही अवतीर्ण होते हैं। गीतामें कहा है—  
 अजोऽपि सञ्चन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।  
 प्रकृतिं स्तामविष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥  
 (४।६)

मैं अविनाशीस्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ।

५—समस्त संसार उस सगुण अव्यक्त परमेश्वरके सकाश-से प्रकृतिसे ही प्रकट होता है तथा अपने कारण प्रकृतिमें ही लीन हो जाता है और प्रकृति परमेश्वरमें स्थित रहती है।

६—आपने लिया कि परमेश्वर यदि अवतीर्ण हो गया तो किर प्रकृतिके कार्यको कोन सँभालता है। सो, प्रकृतिका कार्य सदा सँभालनेवाले प्रभु ही सँभालते हैं। वे समस्त भूतोंके ईश्वर रहते हुए ही देशविशेषमें अवतीर्ण होते हैं और साकार-निराकार दोनों रूपोंमें स्थित रहते हुए ही सब कार्य सँभालते हैं। एक देशमें प्रकट होनेपर अन्य देशोंमें उनका अभाव नहीं होता। जैसे अग्नि अग्न्यकरूपसे सभी जगह व्याप्त है परन्तु वही व्यक्तरूपसे एक जगह या एक ही साथ अनेक जगह प्रकट हो सकता है। इससे न तो उसकी व्यापकतामें कोई वाधा आती है न शक्तिहीमें न्यूनाधिकता होती है। जब प्राकृत अग्नि-के लिये ही ऐसा सम्भव है, तब सर्वत्र व्यापक, सर्वशक्तिमान् परमात्माके लिये तो शंकाकी वात ही कौन-सी है?

## परमार्थ-पत्रावली

७-भगवान्‌के अवतारका एक उद्देश्य, ‘दुष्टोंका विनाश’ ‘विनाशाय च दुष्कृताम्’ भी है। इसीलिये भगवान्‌ने जरासन्ध-को पहली ही बारमें न मारकर उसे बार-बार आक्रमण करनेका मौका दिया, जिससे बार-बार दुष्टोंका नाश हो ! इसमें और भी अनेक हेतु हो सकते हैं। ईश्वरकी क्रियाका सम्पूर्ण उद्देश्य साधारण मनुष्योंकी समझमें नहीं आ सकता ।

८-श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिकी वातें श्रद्धा-पूर्वक माननी चाहिये। इनमें जहाँ परस्पर मतभेद दीख पड़े, वहाँ इतिहास, पुराण आदिकी अपेक्षा स्मृतिको और स्मृतिकी अपेक्षा श्रुतिको अधिक बलवान् समझना चाहिये। जहाँ श्रुतियोंमें भी विरोध हो, वहाँ दोनोंको ही प्रमाण मानना उचित है। हाँ, रहस्य समझनेके लिये विचारपूर्वक विरोधका निराकरण करके दोनों-का समन्वय करना चाहिये। नहीं तो, जितनी वात समझमें आवे उतनी ही काममें लानी चाहिये। सभी वातें प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं हो सकतीं। भौतिक विज्ञानमें भी अनुमान और आस्तवाक्योंको स्थान है। शास्त्रोंके न माननेसे हम महापुरुषोंद्वारा उपदेश किये गये ज्ञानसे वञ्चित रह जाते हैं और मानकर तदनुसार आचरण करनेसे परमपदकी प्राप्ति होती है ।

९-मैं नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वरको देखा है, परन्तु मेरा पूर्ण और दृढ़ विश्वास है कि परम श्रद्धा और अनन्य प्रेमसे परमेश्वरकी उपासना करनेपर उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। गीतामें भगवान्‌ने कहा है—

भक्त्या त्वन्या अस्य अहमेवपि रोदरुन् ।

ज्ञानुं ग्रुच तत्त्वेन प्रोष्टुच परत्प ॥

(११।६५)

ऐ श्रेष्ठ नपवाले जरुन ! अनन्यमत्किरे छारा इस प्रकार  
प्रत्यक्ष देमनेरे लिये, तत्त्वमे ज्ञानेनेके लिये नथा प्रवेश करनेरे  
लिये भी जस्त्य है ।

१०-परमेश्वरका साक्षात् दर्शन द्वेनेपर थुनि न्मृतियोग्यै  
जो लक्षण यत्त्वाये हैं, ते उस दर्शकमें था जाने हैं । यथा—

मिथो एव्यपनिश्चिद्यन्ते मर्मित्या ।

क्षीणन्ते चात्य कर्मणि तसिन्द्रेषे पगारे ॥

(म० उ० २।२।८)

उस पगार (कारण-कार्यस्प) भाषा साक्षात्कार कर  
नेनेपर इस जीवकी हृदयप्रनिय टूट जाती है, सारे संशय नष्ट  
हो जाने हैं और इसके कर्म दर्शन हो जाते हैं ।

जिस दर्शनमें हमारे अन्दर ये उपर्युक्त लक्षण घट जाय,  
उन्हींको परमेश्वर मानना चाहिये । भगवान्का निराकार रूपस्प  
तो बहुमयन्ते ही समारम्भे आता है, वह एक ही है । परन्तु  
माकार न्यस्प भनकी इन्हाँमें बहुमार प्रकट हो सकता है ।  
भन् तिस रूपमें भगवान्ना दर्शन करना चाहता है, भगवान्  
उसा कामे प्रश्न द्वेष्वर उसे दर्शन देंगे हैं ।

११-भागवान्ते माम जपावा ग्राम्यात् शीर्ग परतितमं रा  
मद्वर निष्पाम संया वरना—ये शीर्गो ही परमामार्षी  
प्राप्तिर्मापन हैं, इन्हिरे शीर्गो ही वरने चाहिए । भगवान्का

## परमार्थ-पत्रावली

नाम-जपको तोतेकी रटन्तके समान समझनेमें तो भगवान्‌के नाम-जपके रहस्यको न समझना ही हेतु है ।

१२-जिसके पालनसे इस लोक और परलोकमें परमहित हो, वही परमहित है, उसीका नाम परमधर्म है, वही शास्त्रका विधिवाक्य है और वही ईश्वरकी आज्ञा और इच्छा है। ईश्वरकी इच्छा जाननेके तीन साधन हैं—

( क ) श्रुति-स्मृतिके विधिवाक्य, ( ख ) महापुरुषोंके वचन और आचरण, ( ग ) शुद्ध हृदयकी स्फुरणा ।

सबसे पहले मनुष्यको ईश्वरकी आज्ञासुप शास्त्रोंके विधि वचनोंको ईश्वरकी इच्छा समझकर तदनुकूल आचरण करना चाहिये। शास्त्रोंमें विरोधाभास प्रतीत हो थोर उनका रहस्य समझमें न आवे तो महापुरुषोंसे पूछकर शंकाथोंका समाधान करना चाहिये और उनके आशानुसार चलना चाहिये। महापुरुष वे ही हैं, जिनमें गीता अ० १२ श्लोक १३ से १९ तकके और गीता अ० १४ श्लोक २२ से २५ तकके लक्षण मिलते हों। महापुरुषोंके वचनोंमें भी शंका होनेपर या ऐसे महापुरुषोंके न मिलनेपर एकान्तमें बैठकर पक्षपातरहित हो, शुद्ध, श्रद्धामय हृदयसे भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये और उन्होंसे मार्ग पूछना चाहिये। इस प्रकार हृदयस्य ईश्वरसे प्रश्न करनेपर हृदयमें जिस भावका उदय हो, उसीको ईश्वरकी इच्छा समझकर तदनुसार आचरण करना चाहिये ।

१३-परमात्मा परमदयालु होनेके साथ ही परमकठोर भी हैं। परन्तु उनकी कठोरतामें भी दया भरी है। जैसे दयालु

[ ]

न्यायकारी राजा अपनी प्रजाके हितके लिये दण्डका विधान करता है, इसी प्रकार परमेश्वर भी जीवोंको पापके फलस्वरूप दण्ड देते हैं। इसमें ऊपरसे निष्ठुरता प्रतीत होती है परन्तु वास्तवमें परमहित भरा है। अथवा जैसे स्नेहमयी माता अपने प्यारे बच्चोंको घुरे आचरणसे हटानेके लिये मारती है, इसी प्रकार भगवान् भी जीवोंके साथ दयापूर्ण कठोर वर्ताव करते हैं। राजा और माताके द्वारा तो असावधानी, घुस्तिकी मन्दता एवं स्वार्थसे कहाँ भूल भी हो सकती है, परन्तु परमदयालु, न्यायकारी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली भगवान्‌के द्वारा तो जो कुछ होता है सो सब हमारे हितके लिये ही होता है। शाखा भी इसमें प्रमाण हैं। शाखोंमें जगह-जगह भगवान्‌को परमदयालु और सर्वशक्तिमान् बतलाया है। (गीता ५। २९) युक्तिसे भी यही सिद्ध होता है।

१४-'परमोद्यशिपर' मनगढन्त वान नहीं है। सर्वोद्य स्थिति और सर्वोत्तम परमधामका नाम ही 'परमोद्यशिपर' है। जिसको मनुष्य सबसे उद्ध ध्येय समझते हैं, जिसको मोक्ष या कल्याण कहते हैं, वही परमोद्यशिपर है। गीतामें भगवान्‌ने कहा है—

अप्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमा गतिम् ।

य प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्वाम परम मम ॥

(८। २१)

'जो अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन

## परमार्थ-पत्रावली

अव्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटते हैं वह  
मेरा परमधाम है ।'

साधन करनेपर ही इसका प्रत्यक्ष होता है इसमें कोई  
सन्देह नहीं है ।

१५—‘देव’ शब्दसे शान्तोक्त ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य,  
प्रजापति और इन्द्र ये ३३ देवता प्रधान माने जाते हैं । इनके  
अतिरिक्त अन्य भी अनेकों देवता हैं । इनकी पूजा या इनके  
निमित्त होम आदि करना चाहिये । भगवान् ने यज्ञ करनेकी  
आज्ञा देते हुए कहा है—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवास्त्वय ॥

(गीता ३ + ११)

तुमलोग इस यज्ञारा देवताओंकी उन्नति करो और वे  
देवतालोग तुमलोगोंकी उन्नति करें । इस प्रकार आपसमें उन्नति  
करते हुए परमकल्याणको प्राप्त होओगे ।

१६—‘पितृ’ शब्दसे जीवित या परलोकगत पिता, पितामह,  
प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही आदि हैं । इसलिये  
जीवित पितरोंकी सेवा-शुश्रूपा करनी चाहिये और परलोकगत  
पितरोंके हितार्थ उनकी आत्माको शान्तिके लिये ब्राह्मण-भोजन,  
आद्व, तर्पण, व्रत, जप, दान, होम, ईश्वरप्रार्थना आदि करने  
चाहिये ।

१७—परमेश्वरके सर्वव्यापी, निराकार, विज्ञानानन्दघन

स्वरूपको ही आदि घतलाया गया है। इनका विस्तारसे वर्णन देखना हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित 'भगवान् क्या है?' नामक पुस्तिकामें देख सकते हैं। अद्वा और प्रेमसे होनेवाले मनोवाच्चित शास्त्रानुकूल साकारदर्शन भी अप्रास्तुतिक नहीं हैं।

आपने लिखा कि मेरे लिखनेमें धुरा नहीं मानना चाहिये। सो इसमें धुरा माननेकी कोई भी वात नहीं है। जैचे जेसी वात अपद्य हों पूछनी चाहिये। आपके प्रश्नोंके उत्तर अपनी साधारण धुड़िके अनुसार मध्येष्टमें दिये गये हैं।

अन्यथद्वाके मम्बन्धमें मेरा यह निरेदन है कि यद्यपि विषेषयुक्त अद्वा ही उत्तम है, परन्तु किनना हीं विषेषक फर्यों न हो आग्निर विद्याम करना हीं पढ़ता है। विद्याम किंवि विना न तो संसारमें आजनक काम चला और न आगे चल ही सकता है।

आपने लिखा कि 'जो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा-विज्ञानद्वारा सिद्ध नहीं घट लाय है—ऐसा हमारा सिद्धान्त है।' मेरी साधारण मम्बन्धके अनुसार ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं है। प्रत्यक्षे अतिरिक्त युक्ति और शास्त्रप्रमाण भी अच्छे पुनर्पौद्वारा माने गये हैं और उन्हें मानना ही चाहिये। पूर्वमें होनेवाले प्राय नभी मद्दामार्गोंने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगामादि प्रमाणोंको माना है।

प्राणद्वान्नानामहर्त्तुं प्रापागाति ।

(पांग० १)

—१—

[ २ ]

आप सरकारी नौकरी छोड़कर व्यापार-श्वेत्रमें आ गये हैं सो बहुत उत्तम है। आपने खामीजी श्रीयोगानन्दजीसे शिव-मन्त्रकी दीक्षा ली सो बहुत अच्छा किया। उनकी बहुभाषा होनेके कारण उनके उपदेशोंसे आप विशेष लाभ नहीं उठा सके एवं उनकी आज्ञाका समीचीनरूपसे पालन नहीं कर सके, इसमें प्रधानतया श्रद्धा और प्रेमकी कमी ही कारण है। इसलिये उनको असन्तुष्ट रहना उचित ही है। अब उनका शरीर शान्त हो गया यह शोककी बात है, किन्तु कोई उपाय नहीं। उनके बताये हुए उपदेशको काममें लानेकी कोशिश करनी चाहिये।

आपने लिखा कि गुरु-मन्त्र, इष्ट-मन्त्र तथा गायत्री-मन्त्र-का जप करता रहता हूँ किन्तु श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमकी कमी होनेके कारण काम-क्रोधादि पड़रिपु चित्तको चञ्चल करते रहते हैं। इनकी निवृत्ति और श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमकी उत्पत्तिके लिये उपाय पूछा सो ठीक है। वास्तवमें तो भगवान्‌का सच्चा भक्त ही इनका उपाय बतला सकता है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ तथापि आपके प्रेमके कारण अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ लिखता हूँ, त्रुटियोंके लिये क्षमा करेंगे।

भगवान्‌के गुण, प्रेम, रहस्य और प्रभावकी बातें भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंसे सुनकर मनन करनेसे, भगवान्‌का प्रभाव जाननेसे

१२ ]

भगवान्‌में श्रद्धा उत्पन्न होती है और उस श्रद्धासे प्रेम नदा भक्तिकी वृद्धि होती है ।

भगवान्‌के नामका जप और स्वरूपका ध्यान एवं स्थार्थको त्याग कर दुखी जीवोंकी सेवा करनेसे एवं न्यायोपार्जित इच्छासे सगृहीत बाहार करनेसे अन्त करण पवित्र होता है, तब श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमकी वृद्धि होती है । इनकी वृद्धि होनेसे पिप्या-सक्तिका नाश हो जाता है और विषयासक्तिके नाश हो जानेपर काम-क्रोधादि पड़रिषु कभी उत्पन्न नहीं होते । गोस्वामी तुलसीदासजीने उत्तरकाण्टमें कहा है—

खल कामादि निकट नहिं जाहों । बसड भगवि जाके उर माहीं ॥  
रामभगवि मनि उर बस जाके । दुख लग्लेम न मपनेहुँ ताके ॥  
गरल सुधासम आरे हित होई । तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई ॥

न पश्चोप जाकर श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके मन्दिरमें भजन-कीर्तन करनेकी इच्छा प्रकट की सो उच्चम वात है ।

भगवान्‌के प्रेमी भक्त जहाँ हॉ, वहाँ सब तीर्थ वास करते हैं और जहाँ उनके प्रेमी भक्त भगवान्‌के गुणोंका कीर्तन करते हैं वहाँ तो भगवान् स्वयं विराजमान रहते हैं । भगवान्‌ने कहा है—

नाह वमामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न च ।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

इसलिये सत्पुरुषोंका सग अवश्यमेव करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । सत्पुरुषोंकी महिमा श्रीमद्भागवत, रामायणादि अन्योंमें जगह-जगह गायी है ।

भवद्विवा भगवतास्तीर्थीभूताः स्यं विमो ।

तीर्थकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभूता ॥

( श्रीमद्भा० १ । १३ । १० )

‘हे स्वामिन् ! आप-सरीखे भगवद्भक्त स्यं तीर्थस्प हैं । ( पापियोंके द्वारा कल्पित हुए ) तीर्थोंको आपलोग अपने हृदयमें स्थित भगवान् श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्थत्व प्राप्त करा देते हैं ।’ तुलसीदासजीने कहा है—

विनु सतसंग न हरिकथा तेहि विनु मोह न भाग ।

मोह गँ विनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥

तात स्वर्ग अपर्वर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग ।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लब सतसंग ॥

आपने लिखा कि प्रेममें मग्न होकर अश्रुपात करते हुए भक्तोंको देखकर भी प्रेम एवं अश्रुपात नहीं होते इसके लिये भगवान्-से प्रार्थना भी की गयी परन्तु कुछ नहीं हुआ सो ठीक है । आपको अपने दोष और अपराधोंका ख्याल करके भगवान्-के शरण होकर करुणाभावयुक्त गद्दद वाणीसे पुनः-पुनः भगवान्-की स्तुति और प्रार्थना वैसे ही करनी चाहिये जैसे उत्तरकाण्डमें विरहके समय भरतजीने की है—

जौ करनी समझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्प सत कोरी ॥

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥

मोरे जियँ भरोस दृढ़ सोई । मिलिहिं राम सगुन सुभ होई ॥

बीतें अवधि रहहिं जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥

इस घोर कलिकालमें सबसे उत्तम भगवान्‌के भजनकी महिमा शाखोंमें गायो गयी है इसलिये ध्यानसहित भगवान्‌के नामका अद्वा और प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर जप करनेकी कटिपद्ध होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये ।  
कलिजुग केवल नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि भव उत्तरहु पारा ॥

कलिजुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर विस्वास ।  
गाड राम गुन गन विमल भव तर विनहिं प्रयास ॥  
हरेनाम हरेनाम हरेनामय केवउम् ।  
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥  
दो बातनको भूल मन, जो चाहत कन्यान ।  
'नारायन' एक मोतको, दूजे श्रीभगवान् ॥  
'कविरा' सूता क्या करै, जागो जपो मुरारि ।  
एक दिना है सोपना, उम्बे पोप पसारि ॥  
'कवीर' नौवत आपनी, दिन दस लेहु बजाय ।  
यह पुरपङ्क यह गली, बहुरि न देखो आय ॥  
जब ही नाम हृदय वर्यो, भयो पापको नास ।  
मानो चिनगी अग्निकी, परी पुराने धास ॥  
रामनाम मनिदीप वह, जीह देहरी द्वार ।  
'तुलसी' भीतर बाहेहुँ, जीं चाहसि उजिआर ॥  
भगवान्‌ने गीतामें कहा है—  
अनन्यचेता सतत यो मा सरति नित्यश ।  
तस्याह सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन ॥

## परमार्थ-पत्रावली

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ  
सदा ही निरन्तर मुझको स्वरण करता है, उस निरन्तर मुझमें  
युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात् सहज ही प्राप्त हो  
जाता हूँ ।’

मध्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥

( १२ । २ )

‘मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें  
लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ  
संगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें भी अति  
उत्तम योगी मान्य हैं । अर्थात् उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ ।’

‘अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥ .

( ९ । ३० )

‘यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त  
हुआ मुझको निरन्तर भजता है वह साधु ही मानने योग्य है  
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है ।’

सुन्दरदासजी कहते हैं—

सन्त सदा उपदेस बतावत, केस सबै सिर सेत भये हैं ।  
तू ममता अजहूँ नहिं छाँड़त, मौतहु आय संदेश दये है ॥  
आज कि काल चलै उठि मूरख, तेरे ही देखत केते गये है ।  
‘सुन्दर’ क्यो नहिं राम सम्भारत, या जगमें कहु कौन रये हैं ॥

[ ३ ]

१—‘कल्याण’ देखकर आपने ‘ॐ नमो भगवते चासुदेवाय’ मन्त्रका जप आरम्भ किया, दैनिक चार-पाँच हजारतक करने लग गये थे और अब दस हजार करते हैं सो अच्छी बात है। जहाँतक हो सके संख्या यढ़ानेकी कोशिश करनी चाहिये। आजतक पचास लाख मन्त्र-जप आप कर चुके सो यहुत आनन्दकी बात है।

जप करते समय साथमें श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान करनेकी कोशिश आप करते हैं, किन्तु ध्यान न लगकर विषयोंका

## परमार्थ-पत्रावली

ही चिन्तन होता है। विषयोंका चिन्तन न होकर भगवान्‌का ध्यान होनेका उपाय पूछा सो टीक है। भगवान्‌के ध्यानको सर्वोच्चम समझकर निष्काम-भावसे विशेषतत्पर होकर करनेसे विषयोंका चिन्तन छूट सकता है। विषयोंमें दोष, दुःख एवं घृणा-दृष्टि करनेसे और वैराग्यवान् पुरुषोंका सङ्क करनेसे भी विषयोंका चिन्तन छूट सकता है। उपर्युक्त अभ्यास करनेसे ही सब पापोंका एवं क्लेशोंका नाश होकर परमानन्द और परमशान्तिकी प्राप्ति हो सकती है। मुझे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु न समझकर अपना एक साधारण मित्र समझना चाहिये।

२-भगवान्‌की प्राप्तिके लिये भजनका टेका करनेवाला सच्चा भक्त इसलिये नहीं है कि वह भगवत्-प्रेम और भजनके रहस्यको नहीं समझता। जो समझता है उसे टेका करनेकी क्या आवश्यकता है? भजन तो केवल भगवान्‌में अनन्यप्रेम होनेके लिये ही करना चाहिये। अनन्य-प्रेम हो जानेपर भगवान् स्वयं ही मिले विना नहीं रह सकते। इसीसे अनन्यप्रेम भगवान्‌के मिलापसे भी बढ़कर है। इस रहस्यको समझनेवालेका भजन, साधन, श्रद्धा, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है।

३-विषयोंकी अभिलाषा एवं मोह और अन्तःकरणकी अशुद्धि आदि दोषोंकी वृद्धिमें मन्त्र-जपका परिणाम समझना बहुत ही अनुचित एवं भूल है। उपर्युक्त दोष तो मनमें सदा ही रहते हैं। कभी छिपे हुए रहते हैं और कभी प्रकट होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। यदि उस समय आप भजन न करते तो सम्भव है उनका प्रकोप और भी अधिक होता।

४-ईश्वरके भजन विना जो समय गया उसके लिये पश्चात्ताप करना और व्यर्थ गया समझना तो उचित ही है। किन्तु उसके लिये प्राणत्याग करना उचित नहीं, प्राण-त्यागकी तो कभी इच्छा ही नहीं करनी चाहिये। भविष्यमें व्यर्थ समय न पिताना ही सच्चा पश्चात्ताप है। समयको अमूल्य समझकर कटिरद्ध होकर भजन-ध्यान करनेसे मूलसद्वित विषयासक्तिका नाश हो जाता है।

५-भगवान्‌के भक्तोंमें प्रेम होनेका और सासारिक लोगोंसे प्रेम हटनेका उपाय पूछा सो इसके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये।

६-पुस्तक पढ़ते समय मन दूसरी तरफ जाता हो तो पुस्तकमें लिखी हुई वातको समझनेमें मन लगाना चाहिये। जिस विषयकी पुस्तक हो यदि उसको समझनेकी लगन हो तो मन उसमें जहर लग जाना चाहिये। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण, अन्त करण जैसे जैसे शुद्ध होगा, वैसे-वैसे हटते जायेंगे, इसके लिये भी भगवान्‌से प्रार्थना करते रहना चाहिये।

७-जपका महत्व नहीं समझनेके कारण और साधनमें शान्ति और आनन्दका अनुभव नहीं होनेके कारण पर्वं पापोंकी अधिकृताके कारण भजन करनेमें थालस्य और भजनमें अस्त्रिय उत्पन्न होती है, अत अच्छे पुरुषोंका सङ्ग करके जपका महत्व समझना चाहिये। श्वासके साथ जप करनेका अभ्यास करनेसे चित्तको शान्ति मिल सकती है। जपका अभ्यास करते-करते

अन्तःकरण शुद्ध होनेसे जपमें रुचि बढ़ सकती है। जवतक रुचि न हो तबतक विश्वास करके ही जप करते जाना चाहिये।

८-आसन लगाकर ईश्वरका ध्यान करनेकी चेष्टा करें, उस समय जप नहीं छोड़ना चाहिये। जप करते-करते ही ध्यान करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। जप होता रहनेमें मनमें दूसरी फुरना कम होगी। फिर भी अगर मन दूसरी जगह जाय तो बार-बार वहाँसे हटाकर भगवान्‌में लगानेका अभ्यास करना चाहिये।

९-भगवान्‌के भजन-ध्यानके रहस्यको समझनेका उपाय पूछा सो रहस्य जाननेवाले सज्जन पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये और इस विपर्यकी पुस्तकोंको पढ़नेका अभ्यास करना चाहिये, फिर अभ्यास करते-करते अन्तःकरण शुद्ध होनेसे रहस्य समझमें आ सकता है।

१०-कर्मोंका अनुष्ठान करते समय भगवान्‌को याद रखनेका उपाय पूछा सो हरेक कार्य करते समय भगवान्‌को अपने साथ समझकर उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये कर्म करनेका अभ्यास करनेसे ही ऐसा हो सकता है। ऐसा अभ्यास करना बहुत ही अच्छा है। अभ्यास करते-करते ही भगवान्‌की कृपासे ऐसा स्वभाव बन सकता है कि फिर अनायास भगवान्-का स्मरण रह सके।

११-मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाको कलङ्कके समान समझनेका उपाय पूछा सो इनसे होनेवाली हानिका विचार करनेसे,

भगवान्‌के भजन साधनमें इनको वाधक समझनेसे और वार-वार इस तरहका विचार रखनेसे ऐसा हो सकता है ।

१३-जो वात प्रकाशित की जाती है, उसका क्य हो जाता है । इस तत्त्वको समझ लेनेसे अच्छे कामोंको प्रकाशित करनेकी प्रवृत्ति हट सकती है और बुरे कामोंको प्रकट करनेकी इच्छा हो सकती है ।

१४-संसारी नाच-गानमें प्रेम होनेके कारण उनमें नौंद नहीं आती परन्तु उससे स्वास्थ्यमें बहुत हानि होती है और भजन-सत्सङ्घमें प्रेम होनेपर उनमें भी नौंद नहीं सलताती और स्वास्थ्यमें हानि भी नहीं होती ।

भगवान्‌के प्रेमी पुरुषोंका सङ्ग करनेसे, अन्त करण शुद्ध होनेसे और भगवान्‌की शरण लेकर भजनका अभ्यास करनेसे भगवान्‌में प्रेम हो सकता है ।

१५-अपना विगाड़ करनेवालेपर भी क्रोध नहीं करना चाहिये । मनको समझाना चाहिये कि बुरा या विगाड़ दूसरेके करनेसे नहीं होता । यह तो प्रारब्धसे होता है, फिर किसीका क्या दोष है ? सब भगवान्‌के अवृप्त है, फिर मैं क्रोध किसपर करूँ ? अपना अद्वित करनेवालेसे घदला लेनेकी इच्छासे उसका बुरा करनेकी चेष्टामें अपना ही तुकसान होता है । मनमें बुरो भावना करनेसे अन्तःकरण मैला होता है, इसलिये ऐसा नहीं करना चाहिये ।

१५-जुवा खेलना बहुत बुरा है; इससे भजनमें वाधा

## परमार्थ-पत्रावली

पढ़ती है, पाप बढ़ता है, इज्जत चली जाती है, कोई विश्वास नहीं करता, भगवान् भी नाराज होते हैं। जुआ खेलकर नल और युधिष्ठिर-जैसे बड़े-बड़े राजालोगोंको भी पश्चात्ताप करना पड़ा है। अतः अपने मनमें दृढ़ नियम करना चाहिये कि जुआ कभी भूलकर भी नहीं खेलूँगा।

१६-सत्य बोलनेका नियम एक दफे दृट गया तो फिर वैसा ही नियम लेना चाहिये और भगवान्से उसको सुरक्षित रखनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। मनमें ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिये कि भगवान्की कृपासे अब मैं इस नियमका ठीक-ठीक पालन कर सकूँगा।

१७-जुपमें जीतकर उस धनको धर्मके काममें लगानेकी इच्छा करना वैसा ही है जैसे पहले शरीरमें कीचड़ लगाना और फिर उसको धो डालनेकी इच्छा करना। ऐसे धनसे कभी धर्म नहीं बढ़ता, वह तो पापको ही बढ़ानेवाला होता है।

१८-समयका विभाग पूछा सो दिन-रात चौबीस घण्टेमें रात्रिमें छः घण्टे सोना चाहिये। सवेरे और सन्ध्या शौच, स्नान, भोजनादि शरीर-निर्वाहकी क्रियामें छः घण्टे लगाने चाहिये। जीविका चलानेके लिये न्यायसे द्रव्योपार्जनमें छः घण्टे लगाने चाहिये और एकान्त भजन-ध्यानमें छः घण्टे-ऐसा करना ठीक है। दूसरे काम करते समय भी भजन-ध्यान करनेकी कोशिश रहनी चाहिये।

सात्त्विक पदार्थ खानेका अभ्यास करना चाहिये और  
२२ ]

राजस, तामस पदार्थोंका त्याग करना चाहिये। इसका विस्तार शास्त्रोंमें लिखा है।

१९-ईश्वरमे प्रार्थना करनेसे भगवान् स्वयं ही सद्गुरुकी प्राप्ति करा सकते हैं। यही विश्वास करके प्रार्थना करते रहना चाहिये।

२०-सोलह नामवाले मन्त्रके साड़े तीन करोड़ मन्त्रका जप करनेसे भगवान् नि सन्देह मिल जाते हैं—ऐसा शास्त्रोंमें लिखा है और विश्वासपूर्वक निष्कामभावसे करनेसे ऐसा होना सम्भव भी है, पर मैंने करके नहीं देखा है।


२१-माता-पितार्ही आज्ञाकी घावत पूछा सो और सब कामोंमें तो माता पिताका हुम्म पूरा-पूरा मानना चाहिये, परन्तु वे यदि भजन-ध्यानके लिये मना करते हैं तो यह घावत नहीं माननी चाहिये। ऊर्योंकि यह माननेमें उनका भी नुकसान है। उनको शान्तिपूर्वक समझाना चाहिये, सेवा करके प्रसन्न करना चाहिये। उनका सामना नहीं करना चाहिये और कड़ा जवाब भी नहीं देना चाहिये। उनका भी भजन-ध्यानमें प्रेम हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिये। स्वयं जो भजन-ध्यान करे यह उनसे छिपाकर गुप्तभावसे करनेका अभ्यास डालना चाहिये, परन्तु भजन-ध्यान नहीं छोड़ना चाहिये। यदि वे इसके लिये गाली दें या शाप दें तो उन्मे शान्तिसे सुन लेना चाहिये। उससे कुछ भी हानि नहीं हो सकती। इसमें प्रह्लादका उदाहरण याद कर लेना चाहिये। परन्तु स्वयाल रहे कहीं अभिमानमें

आकर या झूटा प्रह्लाद बनकर उनका अपमान न कर चैंट । माता-पिताका अपमान करना और उनको कही जवान कहना बहुत बुरा है । बहुत सकृद पृथ्वेपर भी भजन-च्यात नहीं छोड़ना चाहिये । यही नो पर्माणुका मौका है, अगर इसमें फेल हो जये तो फिर क्या है ?

२२-शाश्वत देवते समय मानके पृथ्वेपर झूट नहीं बोलना चाहिये, वल्कि चुप रह सकते हैं या किनी दूसरे समय पुनरक देवत सकते हैं । झूट बोलनेकी कोई जरूरत नहीं । झूट बोलनेसे पाप जरूर होता है और कोई फायदा भी नहीं होता । यान्, तो सच्ची ही कहनी चाहिये । उसके लिये गाली सुननी पढ़े या नुकसान सहना पढ़े नो कुछ हर्ज नहीं । आपने मांस-भक्षण छोड़ दिया, यह बहुत ही अच्छा काम किया । इस नियमका इहतापूर्वक पालन करना चाहिये ।

२३-कभी भूलकर या दूनरेकी आपसे भी मांस-भक्षणके कार्यमें किसी प्रकारसे भी सहायता नहीं देनेका ही खयाल रखना चाहिये ।

२४-आपके मनमें जो शङ्का उठे आप खुशीसे पूछ सकते हैं, परन्तु अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता है । इसलिये, उत्तर देनेमें विलम्ब हो सकता है । जवाब बहुत जल्दीमें लिखा गया है ।



[ ४ ]

गीता-शास्त्र वहाँ ही गहन है, वहें रहस्यका विषय है। इसका अभ्यास करते-करते नये-नये भाव पैदा होते रहते हैं, इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं। ऐसा होना इस ग्रन्थके अनुरूप ही है। आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे लिखा जाता है।

१-भगवदर्पण-बुद्धिमें मोहयुक कर्तापनका अभिमान नहीं रहता, अभिमानशून्य निर्दोष कर्तापनमात्र रहता है, वह भी साधन करते-करते अन्तमें समाप्त हो जाता है। ‘अहङ्कार-विमूढात्मा’ में जो कर्तापनका अभिमान बताया गया है यह मोहपूर्ण है और यहाँ विषय भी अज्ञानका ही है। अर्पण अपनी वस्तु की जाती है। यदी क्यों, भूलसे अपनी मानी हुई दूसरेकी वस्तुको, जिसकी है उसे दे देना क्या अर्पण नहीं है? क्या

[ २५ ]

## परमार्थ-पत्रावली

न मिटनेवाले कर्मजन्य वीमारियोंका भोग करते दिखलायी पड़ रहे हैं। कर्मजन्य रोग पूर्वकर्मोंके ही फल हैं और वे सभी अवश्यामें हो सकते हैं। अतः सेवा या ओषधि-उपचारकी कमी मृत्युका कारण नहीं हो सकती। सेवा और ओषधिका पूर्ण प्रबन्ध रहते हुए भी मनुष्योंकी मृत्यु होती है। वास्तवमें तो मृत्यु किसी रोगके बहानेसे ही आती है यह ठीक नहीं है क्योंकि विना वीमारीके भी बहुत-से मनुष्योंकी मृत्यु होती देखी जाती है। मृत्युका कारण तो पूर्वके भारी पाप ही हैं। अज्ञानीजन वाहरी कारणोंको ही अपनी मृत्युके निमित्त मान लेते हैं।

प्र०-ईश्वरने अन्य शारीरिक अवयवोंके अनुसार आत्माको भी दृश्य वस्तु क्यों नहीं बनाया? इससे जिनको आत्माके अस्तित्वमें प्रमाणकी आवश्यकता थी, उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता?

उ०-आत्मा अनादि, चेतन, नित्य, सनातन और ईश्वरका अंश है। इसको किसीने बनाया नहीं है। यह स्वतःसिद्ध सदासे बना हुआ ही है। यदि ईश्वरके द्वारा आत्मा बनाया जाता तो यह प्रश्न हो सकता था, अमूर्त आत्माके लिये यह प्रश्न ही युक्तियुक्त नहीं है।

आत्माके अस्तित्वमें तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जीवित और मृत मनुष्यका अन्तर ही आत्माका स्पष्ट दोतक है। दूसरे शारीरिक अवयवोंकी तरह आत्मा दृश्य वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि शारीरिक अवयव अनित्य, नाशवान्, जड़ एवं विकारी हैं, पर अव्यक्त आत्मा इनसे अत्यन्त विलक्षण, नित्य, चेतन [३४]

ओर निर्विकार है। इसलिये वह इस अनित्य चर्म-चक्रुओंसे दियलायी पठनेयोग्य नहीं हो सकती।

प्र०-चिल्ही, चूहे, कौवे और कुत्ताको क्या अधिकार है कि वे आकर चुपचाप हमारे दूध, धी और अन्य साद्य-पदार्थोंको खा या पी जायें? क्या यह चोरी नहीं है? वे इन चीजोंको अलमारी आदिमें रखनेका व्यर्थ परिश्रम मनुष्योंसे करताते हैं। मच्छर और सॉप जिनको हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, हमें क्यों डेसते हैं? और हमारी धीमारी और मृत्युके कारण क्यों बनते हैं? प्राय देसा जाता है कि सॉप चारपाईपर चढ जाते हैं और वेचारे निर्दोष मनुष्यको काट जाते हैं। यदि सॉपोंको भगवान् भेजते हैं, तो क्या यह भगवान्के हाथों अचानक घात नहीं है? और क्या भगवान्के लिये यह लज्जाका कारण नहीं है?

यह तो सभी जानते हैं कि मन्त्रियों बहुत-से संकामक रोगोंकी कारण हैं, उन्हें हमारी सुन्दर कटोरियों और आरामकी चस्तुओंपर बेठने एवं उन्हें संक्रमण करनेका क्या अधिकार है? यदि भगवान् ने उनको रचा है तो उन्हें इनके भोजनका प्रबन्ध भी करना चाहिये, यह तो दिन-दहाड़े डैकैती है कि वे मनुष्योंका भोजन खा जायें?

उ०-गिल्ही, चूहे, कौवे, कुत्ते आदि जीवोंको भी दूध, धी, अन्न आदिके खाने-पीनेका अधिकार है। इनके लिये व्यवस्था करना मनुष्यका ही कर्तव्य है, पर मनुष्योंने अपने कर्तव्यका त्याग कर दिया है। इसीलिये वेचारे इन जीवोंको इस प्रकारकी किया करनी पड़ती है। मनुष्यकी भाँति ये जीव स्वयं साद्य-पदार्थोंका उपार्जन नहीं कर सकते, न इनके पास वैसे साधन

## परमार्थ-पत्रावली

ही हैं, ये धर्मज्ञानहीन हैं, इसीलिये इनके यह कर्म चोरीमें शामिल नहीं किये जा सकते। इनके पालनरूप अपने इस कर्तव्य-च्युत होनेके कारण ही मनुष्योंको अलमारी आदिमें वस्तुओंकी रक्षा करनेके लिये परिश्रम उठानेकी आवश्यकता पड़ती है।

परम दयालु, न्यायकारी ईश्वरकी प्रेरणासे ही प्रायः मच्छर और साँप हमारे पूर्व-पापोंके कारण हमलोगोंको ढँसते हैं तथा बीमारियोंकी उत्पत्ति और मौत आदिके हेतु भी हमारे पूर्वके पाप ही हैं। इसमें किसीका दोष नहीं है। जैसे न्यायकारी राजा अपराधीको उसके हितके लिये दोषानुसार ही अपने कर्म-चारियोंद्वारा जेल या फाँसी देता है; किन्तु राग-द्वेषसे रहित होनेके कारण राजा दोषी नहीं है। वैसे ही ईश्वर मनुष्योंको उनके हितके लिये अर्थात् उन्हें पापमुक्त करनेके लिये पूर्वकृत पापोंके अनुसार साँपादिके द्वारा दण्ड भुगताते हैं, परन्तु दोषी नहीं हैं।

चोरी, डकैती, खून आदि करनेवाले अपराधीके किये हुए अपराधोंको तो हमलोग प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिये न्यायकारी राजा एवं राजकर्मचारियोंपर हमारे मनमें दोषकी आशङ्का नहीं होती। किन्तु साँप आदिसे डँसे जानेवाले मनुष्यको निर्दोषी समझकर साँप आदि एवं ईश्वरपर जो दोष लगाया जाता है यह हमारा भ्रम है। क्योंकि हम उसके पूर्वकृत पाप-कर्मोंसे अनभिज्ञ हैं। अतएव निश्चय समझना चाहिये कि ईश्वरके द्वारा निर्दोषीको कभी दण्ड नहीं दिया जा सकता।

पर यहाँके न्यायालयोंकी भाँति, ईश्वरके न्यायालयसे दण्डकी सूचना पहले नहीं दी जाती और ईश्वर अन्तर्यामी हैं

इसलिये वहाँका न्याय निर्भ्रान्त होता है । राग छेपरहित नि स्वार्थ ईश्वरके किये हुए प्रत्येक विधानमें पद पदपर परम दया भरी हुई है । इसलिये उसके कृत्यमें अचानक घात या लज्जाकी कोई आशङ्का ही नहीं हो सकती । मन्त्रियोंके प्रश्नका तो इसी उपर्युक्त उत्तरसे अपने आप ही समाधान हो जाता है तथा कुत्ता, प्रिली और मञ्जुरादि जीवोंके दृग्रान्तसे भी समझ लेना चाहिये ।

प्र०—क्या भगवान् हमें अहिसा सिखलाते हैं? यदि हॉ, तो उन्होंने सिंह, चीता, वाघ, मगरमच्छ आदि हिंसक जीवोंको क्यों बनाया? और अब तो यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक चन्द्रस्पतिमें प्राण है । अतएव यदि हम गेहूँ, जौ और चावल इत्यादि खाते हैं तो हम भी उसी प्रकार हत्या करते हैं जिस प्रकार वे मांसाहारी जीव करते हैं । क्या आप मुझसे सहमत हैं?

उ०—ईश्वर सर्वदा अहिंसाका ही उपदेश देते हैं । जीवोंके पापोंका दण्ड देनेके लिये ईश्वरने हिंसक जीवोंकी रचना की है । अत ये जीव दोपी नहीं होते । पशु होनेके कारण इन्हें ज्ञान भी नहीं है इसलिये भी इनको पाप नहीं लगता । परन्तु मनुष्योंके लिये यह नियम लागू नहीं हो सकता, उन्हें मासाहार करनेसे पाप लगता है । क्योंकि मनुष्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान है और मनुष्य-जाति मासाहारके लिये नहीं बनायी गयी । यद्यपि गेहूँ, चावल आदि खाद्य पदार्थोंमें भी हिसा है पर मासाहारीकी अपेक्षा बहुत ही कम है । क्योंकि पशु आदि जीवोंकी हत्यामें गेहूँ, चावल आदि पौधोंके नाशकी अपेक्षा बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है । इसीलिये हमारे शास्त्रकारने इस हिसाकी

## परमार्थ-पत्रावली

निवृत्तिके लिये पञ्चमहायज्ञादि प्रायश्चित्त बतलाये हैं ( गीता ३। १३ ) । इन प्रायश्चित्तोंको न करनेवालोंके लिये ही यह हिंसा लागू पड़ती है ।

प्र०-क्या मनुष्यकी आयु एक निश्चित वस्तु है या यह स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमोंपर चलनेसे बढ़ायी जा सकती है ?

उ०-पूर्वकृत कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धके अनुसार मनुष्यकी आयु निश्चित की हुई ही होती है । परन्तु नये बलवान् कर्मोंसे आयु घट-घट भी सकती है । योगी योगके साधनोंद्वारा इच्छा-सृन्युतककी सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और अज्ञानीजन क्रोधके वश होकर अकालमें भी मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । किन्तु ब्रह्मचर्यादि नियमोंका पालन करनेवाला अकालमृत्युको नहीं प्राप्त होता ।

प्र०-क्या कोई ऐसा ( अनुभवपूर्ण ) प्रमाण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि स्वर्ग और नरक भी हमारी पृथिवी या अन्य किसी ग्रहके अनुसार ही भौतिक लोक हैं ?

उ०-स्वर्ग और नरक इस पृथिवीकी भाँति ही भौतिक लोक हैं । इसके लिये शास्त्र प्रमाण हैं और वह श्रद्धापर ही निर्भर है । प्रत्यक्ष एवं अनुभवपूर्ण बलवान् सुक्षि नहीं है जिसके द्वारा यह सब प्रत्यक्षकी भाँति दिखलाये जायँ ।

अतएव शास्त्र-प्रमाणको ही प्रमाण मानना चाहिये; क्योंकि शास्त्रके रचयिता ऋषि-मुनि प्रायः सभी त्रिकालज्ञ अनुभवी थे ।

प्र०-पत्रावली

[ ६ ]

पत्र मिला, आप क्षयग्रधान रोगोंसे ग्रसित हैं, इसके लिये पथ्य और ओपघिर्सी और विशेष ध्यान देना चाहिये। शरीरके असमर्थ होनेके कारण आपको दूसरोंसे सेवा करवानी पड़ती है, इसके लिये मनमें दुख एवं ग्लानि नहीं रखनी चाहिये। ऐसी अवस्थामें इसका कोई उपाय न रहनेके कारण मनमें चिन्ता रखनेसे क्या फायदा है? अब आपको ईश्वर-स्मरण नहीं भुलाना चाहिये। पूर्वकी ईश्वर-विस्मृतिका पश्चात्ताप न कर अब विशेष चेष्टासे भगवत्-स्मरणमें रात-दिन लग जाना चाहिये। यही उसका असली पश्चात्ताप है। आपने लिया, रोगने मेरी आँखें घोल दीं सो अच्छी यात है पर जबतक साधनमें ढीलापन है तबतक आँखें नहीं खुली ही समझनी चाहिये। येर, अब तो जोरसे साधनमें लगना चाहिये। न्यौकि एक तो आप कष्टसाध्य शारीरिक रोगमें फँसे हैं और दूसरे मानसिक रोग तो लगे ही हुए हैं, इस दालतमें शरीरका कोई भरोसा नहीं है। अत जबतक प्राण है, आत्म-हितके लिये कटिगद्द होकर लग जाना चाहिये।

रोगसे ग्रसित होनेकी घजहसे आप दोनों चक्क सन्द्या नहीं कर सकते, एक चक्क ही करते हैं, सो भी ठीक दें। इस

[ ३९ ]

[ ७ ]

पहले आपका दो वर्ष पूर्व एक पत्र आया था, कदाचित् हमने उसका जवाब भी दिया था। वह आपको मिला या नहीं, मालूम नहीं। आप प्रसन्न होंगे। आपका साधन कैसे चल रहा है? कल्याण आप दरावर पढ़ते होंगे।

आप श्रीसियारामजीका जप करते होंगे। जपकी विधि आपके गुरुजीने जो आपको बतलायी है उसीके अनुसार करना चाहिये। मैं गुरु होनेके योग्य अधिकारी नहीं हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। आपके प्रेमके कारण मैं आपको मित्रकी

४२ ]

दैसियतसे राय देता हूँ कि सबसे उत्तम विधि 'प्रेम' है। इसलिये स्वार्थको त्याग कर, श्रद्धापूर्वक, प्रेममें मुग्ध होकर सियारामका जाप करना चाहिये। यहीं सबसे उत्तम विधि है। यदि प्रेम न हो तो प्रेमके लिये निष्कामभावसे सियारामका जप नित्य-निरन्तर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इससे अन्त करण शुद्ध होकर भगवान्‌का प्रभाव जाना जा सकता है। प्रभाव जाननेसे भगवान्‌में श्रद्धा और श्रद्धासे प्रेम होना स्वाभाविक ही है।

आपके मिलनेकी इच्छा यी पर मिलना हुआ नहीं, इसमें प्रारब्ध ही प्रधान हेतु है।

इस कार्यमें सद्गुरुकी अवश्य ही आवश्यकता है, पर वे मिलते हैं भगवान्‌की दयासे। यों तो भगवान्‌की दया सबपर है ही, परन्तु उनकी वह दया भगवान्‌के शरण होनेसे ही फलती है। अत सद्गुरुकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌से एकान्तमें प्रेमभरी हुई गद्दद वाणीद्वारा सविनय प्रार्थना करनी चाहिये।

सद्गुरुकी प्राप्तिके अभावमें शास्त्र भी गुरु ही है। अतएव सत् शास्त्रोंका विचार नित्यप्रति करना चाहिये, क्योंकि इस समय इसके अभ्यासमें सब प्रकारकी सुगमता है।

आपने जपसे सियारामका जप करना आरम्भ किया तभ्ये आपका सियाराममें प्रेम बढ़ा होगा, अध्यात्मविषयक उच्चति हुई होगी।

भगवान्‌के जिस नाम-रूपमें रुचि होती है, उसके लिये उस समय उसके नामका जप और उसके स्वरूपका ध्यान

आपको ज्ञानी मान लेना भी भूल है, क्योंकि ज्ञान होनेके बाद उसमें माननेवाला कोई नहीं रहता। अतएव आपका जिज्ञासु-भाव ही गुक्कियुक्त सिद्ध होता है।

### प्रश्नोंका उत्तर

प्र०—अज्ञानसे उत्पन्न हुई स्वार्थ-चुद्धिका नाश होकर परमात्माकी प्राप्ति होनेके लिये क्या उपाय हैं?

उ०—निष्कामभावसे किये जानेवाले भगवत्तामके जप और भगवत्-स्वरूपके ध्यानरूपी उपासनासे मल-विक्षेपका नाश होकर भगवान् एवं भगवान्के भक्तोंकी परम दयासे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है और उस तत्त्वज्ञानसे अविद्यासहित राग-द्रेपादि सम्पूर्ण क्लेशोंका एवं सम्पूर्ण कर्मोंमें स्वार्थ-चुद्धिका अत्यन्त अभाव हो जाता है और परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति भी हो जाती है। योगदर्शनके सूत्र हैं—

तस्य वाचकः प्रणवः ।

तज्जपस्तदर्थभावनम् ।

ततः प्रत्यक्चेतनाविगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ।

प्र०—क्या जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों परमेश्वरके\* सकाशसे बने हैं?

उ०—ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जीवात्मा और प्रकृति दोनों अनादि माने गये हैं।

\* उस परमेश्वरका नाम ओकार है। उस परमेश्वरके नामका जप और उसके स्वरूपका मनन करना चाहिये। उस परमेश्वरके नाम-जप और स्वरूप-मननसे सम्पूर्ण विनोंका नाश और परमात्माकी प्राप्ति भी हो जाती है।

प्रवृत्तिं पुरुषे चैत्रं पिद्यनादीं उभावपि ।

(गीता १३ । ११)

अर्थात् प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अनादि जानो ।

ये ईश्वरके सकाशसे भी बने नहीं, इसीलिये ईश्वर इनसे विल्कुल निरपेक्ष है। ईश्वर फल भोगतेके लिये गुण और कर्मकि अनुसार अच्छी ओर बुरी योनियोंके साथ जीवात्माका सम्बन्ध जोड़ देता है। किन्तु निरपेक्ष होने परं कर्तापनके दोषसे रहित होनेके कारण ईश्वर करता हुआ भी अकर्ता समझा गया है।

चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागः ।

तस्य कर्तारमपि मा पिद्यकर्त्तारमत्ययम् ॥

(४ । १३)

प्राह्ण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र—इन चार वर्णोंका समूह, गुण और कर्मकि विभागपूर्वक मेरेढारा रखा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्त्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अकर्ता ही जान।

प्र०—जीवात्माके साथ अनादिजालसे अज्ञानका जो यह सम्बन्ध है इसको विज्ञानानन्दधन परमान्मा जानते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। अद्वैत-सिद्धान्तसे क्या यह बात ठीक है?

उ०—नहीं। अद्वैत-सिद्धान्तसे विज्ञानानन्दधन परमात्मा-की दृष्टिमें तो अज्ञान है ही नहीं। जिनको अज्ञानका सम्बन्ध भासता है उन्हींकी दृष्टिमें अज्ञान है और उन्हींकि लिये वह अनादि-सान्त है। अद्वैत-सिद्धान्तसे तो जीवान्माके साथ

## परमार्थ-पत्रावली

अज्ञानका सम्बन्ध वास्तवमें है ही नहीं। अध्यारोप माना गया है।

प्र०-जीवात्मा और परमात्मा जब विजातीय वस्तु हैं तो फिर एक कैसे हो जाते हैं?

उ०-जीवात्मा, परमात्मा विजातीय नहीं हैं। इसीलिये परमात्माको प्राप्त होनेके बाद यानी परमात्मामें तद्रूप होनेके बाद जीवात्मा पुनः वापस नहीं आता। जीवात्मामें जबतक अज्ञान है तभीतक वह परमात्मामें तद्रूप नहीं हो सकता। किन्तु ईश्वरकी भक्ति करनेसे अन्तःकरण पवित्र होकर ईश्वर-की दयासे जब उसे परमात्मतत्त्वका साक्षात् ज्ञान हो जाता है तब उस ज्ञानके प्रतापसे अज्ञानका नाश होकर परमात्मामें तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है यानी परमात्मामें मिल जाता है। फिर इस जीवात्माकी परमात्मासे अलग सत्ता ही नहीं रहती।

अज्ञानके कारण अनादिकालसे जीवात्मा उस परमात्मासे पृथक्-सा हो रहा है। इसीलिये इसकी जीव संज्ञा है। कारणरूप अविद्याके नाश होनेपर इसकी जीव-संज्ञाका भी नाश हो जाता है इसलिये अविद्या यानी मायाको अनादि-सान्त बतलाया गया है। जैसे सिन्दूरसे निकाला हुआ पारा पारेमें मिलकर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है फिर वह सिन्दूर नहीं बनता, वैसे ही मायासे छूटकर पवित्र हुआ जीव, शुद्धज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त होकर पुनः जीव-भावको नहीं प्राप्त होता।

[ ९ ]

पत्र दो आपके मिले, जगाव देनेमें मेरे प्राय ही देरी हो जाया करती है ।

### प्रश्नोंका उत्तर

प्र०-काम-क्रोधके कारण साधन प्राय बहुत कम होता है । इसलिये इनके नाशका उपाय लियें ।

उ०-विश्वासपूर्वक कटिवद्ध होकर भजन, ध्यानका साधन करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । फिर काम क्रोधका आप ही नाश हो सकता है ।

प्र०-धर्म भक्त्य अधिक वाधक हो रहे हैं ? क्या किया जाय ?

उ०-अभ्यासके द्वारा उन संकर्त्पोंके त्याग करनेकी कोशिश करनी चाहिये ।

प्र०-धर्म-प्रचार, समाज सुधार, धनोपार्जन—इन तीन कारणोंसे विद्याका अभ्यास करनेकी रुचि प्रबल हो रही है ।

उ०-यह उचित ही है । तीनों हेतुओंसे विद्या सीखनेकी वृत्ति नीतिकी दृष्टिसे अनुचित नहीं है ।

प्र०-प्रभुसे क्या माँगना चाहिये ?

उ०-प्रभुका ग्रेमसहित अनन्यचिन्तन माँगना चाहिये ।

प्र०-साधनके प्रिपयमें घरागर पूछ ताछ करनी चाहिये ।

उ०-समय कम मिलनेके कारण एवं स्वभावकी ढिलाईसे पत्र देनेमें विलम्ब हो जाता है, नहीं तो पूछनेमें कोई सकोच नहीं है ।

[ ४२ ]

प्र०-साधनके लिये कड़ाई करनी चाहिये ।

उ०-स्वभावकी नरमी एवं अनधिकार समझकर आपपर कड़ाई नहीं की जा सकती अतएव आपको ही अपने ऊपर कड़ाई करनी चाहिये ।

प्र०-जीवकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह प्रमाद छोड़कर यिना किसी प्रकारकी उत्तेजना पाये ही अपने लक्ष्य-पथपर अग्रसर होता जाय ।

उ०-इसके लिये सत्य-कर्वारकी साखीमें वर्णित कर्वारदासजीकी चेतावनीकी तरफ खयाल करनेसे बहुत मदद मिल सकती है ।

प्र०-अध्यात्म-जगत्‌में इसीलिये एक मार्ग-प्रदर्शकके संकेत और तत्त्वावधानकी आवश्यकता और उपयोगिता भी एक विशेष स्थान रखती है ।

उ०-मार्गदर्शक बहुत पुरुष हो चुके हैं और हैं भी । जिनमें जिनकी श्रद्धा है उनके लिये वही मार्ग-प्रदर्शक बन सकता है । मार्गदर्शकोंकी कमी नहीं है किन्तु श्रद्धा और प्रेमकी आवश्यकता है ।

प्र०-भगवान्‌की विस्मृति और भोगोंकी अनवरत उपासना-ने इस अभिमानी ब्राह्मणको बहुत दूर ला गिराया है ।

उ०-कोई चिन्ता नहीं इसके लिये विचारपूर्वक परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान और उनके नामका जप करनेके लिये कोशिश करनी चाहिये । अथवा हठसे ही कोशिश करनी चाहिये, ऐसा करनेसे सब कुछ हो सकता है ।

प्र०-शिश्वोदरपरायण प्रमादीका उद्धार अपने बलपर होना परम कठिन है ।

उ०-इसके लिये ईश्वरको शरण लेनी चाहिये । ईश्वरके नामका जप, स्वरूपका व्यान और उनकी आङ्खाका पालन करना तथा उनके विधानपर खुश रहना ईश्वरको शरण है ।

प्र०-विषयोंके संग और सेवनसे अन्तरण मलिन होता जा रहा है ।

उ०-यदि यह बात आपको समझमें आ गयी हो तो विचार-पूर्वक विषयसंग और सेवनका त्याग करना चाहिये । विचारसे त्याग न हो तो हठसे भी त्याग करना उत्तम है ।

प्र०-सत्सगकी अभिरुचि पूर्वापेक्षा न्यून प्रतीत हो रही है ।

उ०-इसके लिये श्रद्धालु पुरुषोंका संग एवं महापुरुषोंके प्रेम, रहस्य, गुण ओर प्रभावकी वातोंका श्रवण और विवेचन करना उत्तम है ।

प्र०-देहाध्यास अधिक बढ़ा हुआ है ।

उ०-इसके लिये दो ही उत्तम उपाय हैं—

( १ ) अभिमानको छोड़कर निष्काम प्रेमभावसे ईश्वरकी अनन्य शरण होना ।

( २ ) गीता अ० १३ । १९ के अनुसार इष्टा ( साक्षी ) होकर इस शरीर ओर शरीरके कर्मको आत्मासे पृथक् देखनेका अभ्यास करना ।

प्र०-मान-बड़ाईके प्रदीप दीपकमें मन पतंग होकर उत्साह-से जलना चाहता है ऐसी परिस्थितिमें आपको और सुहृद् भगवान्‌को छोड़कर किसके सामने पुकार करें ?

## परमार्थ-यत्रावलो

उ०-मान-वद्वाईको प्रदीप समझनेमें ही अभी कमी है अनएव इसको प्रदीप दीपके सहश अच्छी तरह समझनेकी कोशिश करनी चाहिये, फिर मन जलकर मरना नहीं चाहेगा। इसको समझनेके लिये एकान्तमें करुणभावमें रोकर ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिये।

प्र०-महापुरुषोंमें आरम्भमें लो अद्वा दीखती थी वह इस समय उस रूपमें नहीं दीखती, इसका कारण भी शायद साधनकी कमी और विषय-सेवनकी अधिकता ही होगी।

उ०-सबसे बढ़कर महापुरुष तो परमेश्वर ही हैं। उनमें निष्कामभावसे प्राप्त हुई सद्वी श्रद्धाका क्षय नहीं होना चाहिये। यदि कमी नजर आनी हो तो उसके मूलमें कोई कामनाका होना सम्भव है। भगवान्‌के भक्तोंमें श्रद्धाकी कमी होनेमें कारण भगवान्‌के भक्तोंमें गुणोंकी तारतम्यताका देखना एवं विषयासक और नास्तिक पुरुषोंका संग तथा पूर्वकृत पापकी वासनाएँ, साधनकी कमी और विषय-भोगोंका सेवन इत्यादि अनेक हेतु हो सकते हैं।

प्र०-दूसरोंके दोष पहाड़ बनकर मेरी घाणोंके आलोच्य विषय हो रहे हैं, उनकी निन्दामें रस मालूम देता है।

उ०-दूसरोंके दोष और अपने गुणोंकी आलोचनासे जो आनन्द होता है उसको मृत्युके समान समझकर उसका विषके तुल्य त्याग करना चाहिये, नहीं तो भारी पतन होना सम्भव है।

आपका पत्र मिला, श्रीनारायणकी प्राप्तिमें पुरुषार्थ ही प्रधान है; परन्तु लोगोंको इस घातका विद्वास न होनेके कारण वे धनके लिये तो पुरुषार्थ करते हैं, परन्तु भगवान्‌के लिये नहीं करते। मनुष्य जितनी चेष्टा धनके लिये करता है उतनी यदि भगवान्‌के लिये करे तो अवश्य भगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है। धन तो प्रारब्ध होनेपर ही मिल सकता है, पुरुषार्थसे मिलता तो अवश्यक सभी धनवान् हो गये होते, क्योंकि धनवान् घननेके लिये तो प्रायः सभी लोग जी-तोड़ चेष्टा करते हैं।

ससारमें वहुतेरे मूर्खोंकि पास भी धन देखा जाता है और शुद्धिमान् धनके अभावमें दुष्य उठाते देखे जाते हैं। किसीको वहुत चेष्टा करनेपर भी धन नहीं मिलता और किसीको विना ही चेष्टाके धनकी प्राप्ति हो जाती है। इससे यह मालूम होता है कि धनकी प्राप्ति प्रारब्धके अधीन है।

परन्तु भगवान्‌की प्राप्ति तो पुरुषार्थके ही अधीन है। इतनेपर भी लोग भगवान्‌के लिये पुरुषार्थ न करके धनके लिये करते हैं। इससे बढ़कर क्या मूर्खता हो सकती है? इस घातपर विचार करके श्रीभगवान्‌की प्राप्तिके लिये भजन, ध्यान, सेवा, सत्संगरूपों पुरुषार्थमें निष्काम भावसे अधिक-से-अधिक समय लगाना चाहिये। यदि दूकानका काम भी निष्कामभावसे, प्रभुका ही समझकर किया जाय तो वह भी भगवत्त्राप्तिके लिये किया जानेवाला पुरुषार्थ ही समझा जायगा। हाँ, लोभसे किया जाय तो दूसरी घात है।



आपका पत्र मिला, भगवान्‌की प्राप्तिके लिये श्रीगीताजीका अर्थसहित अभ्यास करना चाहिये । निष्कामभावसे सब भाइयोंकी सेवा करनेसे भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर बहुत ही शीघ्र श्रीभगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है । मनसे सबका हित बाहना भी सेवा है और सबको श्रीभगवान्‌की भक्तिमें लगानेकी चेष्टा करना तो परम सेवा है । इन बातोंसे भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं, अतएव निष्कामभावसे इस विषयकी दलाली करनी चाहिये, अर्थात् ठोगोंको भगवान्‌के भजन-ध्यानमें लगाना चाहिये । आपको विचार करना चाहिये । समय बहुत थोड़ा रह गया है । अब भी नहीं चेतेंगे तो फिर कब चेतेंगे ? फिर कौन-सी वस्तु आपके काम आवेगी ? जब शरीर ही आपका नहीं है तब खो, पुत्र, घर और धनकी तो बात ही क्या है ? वहाँ तो केवल भगवान्‌का प्रेम ही काम आता है, और कोई भी चीज काम नहीं आती । संसारके लोग सब अपने मतलबमें लगे हैं । यों समझकर उस परमप्रेमी, दीनदयालु भगवान्‌के शरण होकर केवल उसीसे प्रेम करना चाहिये । अपने प्राणोंसे भी व्यधिक उससे प्रेम करना चाहिये । प्राण भले ही चले जायें, परन्तु उसके प्रेममें कभी कलङ्क न लगने पावे । आपको बारम्बार विचार करना चाहिये, आप किसलिये आये थे, यहाँ क्या करना चाहिये और आप क्या कर रहे हैं ।

—४४४—

[ १४ ]

आपका पत्र मिला, वेदान्तके सिद्धान्तसे ब्रह्म सच्चिदानन्द-धन अनादि और अनन्त है। निर्मल आकाशके किसी एक अंशमें बादलकी भौति उसी ब्रह्मके एक अंशमें प्रकृति यानी माया है, वह माया जड़ एवं विकारी है इसीलिये अनित्य है।

ब्रह्मके जिस अंशमें माया है उसको मायाविदिष्ट ईश्वर कहते हैं। उसीका संकेत सर्वद्वा, सर्वेश, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी आदि नामोंसे किया गया है। उस ईश्वरका जो अंश है उसकी जीव संदा है। ये जीव नाना ओर अनन्त हैं।

उस परमेश्वरका अंश होनेपर भी मायाके साथ सम्बन्ध रहनेके कारण जीव-संज्ञा मानी जाती है। यह मायाका सम्बन्ध अनादि और सान्त है। उस मायाके अविद्या यानी अज्ञान-अंशसे जीव मोहित हो रहे हैं। उस अविद्याके अंशको ही कारण-शारीर कहते हैं। उसका धाध विद्या यानी ज्ञानसे होता है। अज्ञानके विष्वंस होनेपर बुद्धिजित वह ज्ञान भी स्वतः ही जान्त हो जाता है। जैसे ईधनको जलाकर अग्नि स्वतः ज्ञान्त हो जाती है वैसे ही ज्ञान भी अज्ञानका नाश करके स्वतः ज्ञान्त हो जाता है। फिर यह जीव मायामे रहित हुआ कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। अर्थात् सच्चिदानन्द परमात्मामें तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है। वह ज्ञान निष्काम कर्म और ईश्वरकी भक्तिसे होता है।

[ १७ ]

वह सर्वव्यापी ईश्वर इस चराचर संसारका ज्ञाता, नियन्ता और मालिक है। इस संसारकी रचना उस चेतन ईश्वर और जड़ प्रकृतिके संयोगसे हुई है।

मयाव्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥

(गीता ९।१०)

अर्थात् हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे (यह मेरी) माया चराचरसहित सर्व जगत्को रचती है और इस (उपर्युक्त) हेतुसे ही यह संसार आवागमनरूप चक्रमें धूमता है। जडवर्ग यानी जीवोंके शरीर तो प्रकृतिका विकार है। उस शरीरमें जो चेतनता है वह ईश्वरका अंश है।

मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

(गीता १५।७)

अर्थात् इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥


वह परमेश्वर जिसमें व्यापक, जिसका ज्ञाता, स्वामी और अन्तर्यामी है उसका नाम चराचर संसार है। चर उन प्राणियोंके नाम हैं जो चल-फिर सकते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गादि। अचर उन प्राणियोंके नाम हैं जो स्थिर रहते हैं—वनस्पत्यादि।



[ १५ ]

तुमको मेरी अपेक्षा भी श्रीभगवान्‌में बहुत अधिक प्रेम करनेकी आवश्यकता है। उसके लिये तो प्राणपर्यन्त चेष्टा होनी चाहिये। मुझसे अधिक प्रेम न भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। परन्तु जिनका श्रीनारायणदेवमें प्रेम नहीं है, उनके लिये महान् द्वानिर्णी वात है। अतएव श्रीभगवान्‌में पूर्ण प्रेम होनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करना तुम्हारा काम है। पेसी चेष्टा करनेपर भी प्रेम न हो, सो नहीं। पहले तुम्हारा सत्संगमें ऐसा प्रेम था, उस समय तुम सत्संगके सामने रूपयेको कुछ भी नहीं समझते थे, न शरीरकी तफलीफकी ही परवा करते थे। अब तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रेम सत्संगमें होना चाहिये और सत्संगसे भी बहुत ज्यादा प्रेम भगवान्‌में होना चाहिये। सत्संगमें जो प्रेम है सो भगवान्‌के लिये ही है, इससे उसको भी भगवान्‌में ही समझना चाहिये।

प्राण भले ही चले जायें, परन्तु भगवान्‌के मिलनेका उपाय करनेमें देर नहीं होनी चाहिये। भगवान्‌के विछोदमें यीतनेवाला एक पल भी युगके समान लगना चाहिये। ध्रुव, प्रह्लाद और गोपियोंकी जैसी चेष्टा थी, वैसी ही हो, तब श्रीभगवान्‌के मिलनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा समझी जा सकती है।



[ १६ ]

आपका पत्र मिला, भगवान्‌में अनन्यप्रेम होनेके लिये अभ्यास ही प्रधान है। इसलिये ध्यानका अभ्यास खूब मन लगाकर करना चाहिये। ध्यानके समान इस संसारमें कुछ भी नहीं है। ध्यान श्रीप्रेमभक्ति-प्रकाश नामक पुस्तकमें देखना चाहिये। ध्यान तेज होनेके लिये सत्संग, भजन और अर्धसहित श्रीगीताजीका अभ्यास करना चाहिये। निष्कामभावसे लोकसेवा करनेसे भी पापोंका नाश होकर भगवान्‌में प्रेम हो सकता है।

निराकारके ध्यानकी बात भी समझनी चाहिये। जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ सच्चिदानन्दघन परमात्माको परिपूर्ण-रूपसे व्याप्त देखना चाहिये। ऐसा समझना चाहिये कि एक नित्य-शुद्ध-वोधस्वरूप परमात्मा सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हैं। उस परमात्माके सिवा अन्य जो कुछ भी भासता है, वह समस्त उस सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही सङ्कल्प है। वास्तवमें उस नित्य, चेतन, स्वके अधिष्ठानरूप परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सदा-सर्वदा एक परमात्मा वासुदेव-भगवान्‌को ही, सर्वत्र समानभावसे, व्याप्त देखते रहना चाहिये। ऐसा करते-करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब उस साधक पुरुषकी निरन्तर सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही एकीभावसे स्थिर स्थिति हो जाती है।

— \* —

[ १७ ]

तुमने लिखा कि दूकानका काम अधिक देखना पड़ता है जिससे भजनमें और भी अधिक भूल हो जाती है सो ठीक है । भजन-ध्यानकी स्थितिमें सावधान रहते हुए जितना काम हो सके, करना चाहिये । कामसे डरना नहीं चाहिये । न कामको छोड़ना ही चाहिये । भजन-शनमें प्रेम होनेपर उस मनुष्यको काम स्वयं ही छोड़ देता है । संसारके कामसे प्रेम छोड़कर भगवान्‌में प्रेम करना चाहिये । फिर संसारका काम चाहे

[ ६१ ]

## परमार्थ-पत्रावली

जितना हो, कुछ हर्ज नहीं । फलासक्तिको छोड़कर निष्काम-भावसे भगवान्‌के नामका जप और स्वरूपका ध्यान करते हुए ही प्रसन्न मनसे भगवान्‌के लिये काम करना चाहिये । जो कुछ संसार प्रतीत होता है वह भी भगवान्‌की लीला है । भगवान् ही लीला कर रहे हैं । उनकी रुचिके अनुसार ही लीलावत् ही काम करना चाहिये । मालिककी इच्छासे ही सब काम होते हैं । अतः मालिक जैसा करें, उसीमें प्रसन्न रहना चाहिये । उसके विपरीत इच्छा ही नहीं करनी चाहिये । और काम करते समय भी मनमें अप्रसन्न होना ठीक नहीं । इससे मालिक अकर्मण्य समझता है, शरणागतिमें दोष आता है और वह निष्काम कर्म भी नहीं समझा जाता । अपने मनके अनुसार इच्छा करना ही शरणागतिमें दोष लगाना है । इसलिये अपनी इच्छाको सर्वधा छोड़कर जिससे स्वामी प्रसन्न हों वही काम स्वामीके लिये लीलामात्र मानकर करना चाहिये । जो मनुष्य कामको लीलामात्र समझ लेगा वह कामसे कभी घबरायेगा नहीं । जो मनुष्य स्वामीके कामको इंद्रिय समझकर उससे जी चुराता है वह अकर्मण्य समझा जाता है । जो लीलामात्र कामको सच्चा समझता है, स्वामी उसे मूर्ख मानता है और जो कामको वास्तवमें ही स्वप्नवत् (लीलामात्र) समझता है, मालिक उसीको अपना ज्ञानी भक्त समझता है और तुमने लिखा कि मैंने अभी समयको अमूल्य नहीं समझा; सो ठीक है । समयको अमूल्य जान लेनेपर निरन्तर भजन, ध्यान होते रहनेमें संसारके काम कुछ भी अड़चन नहीं डाल सकते ।

जिन मनुष्योंकी शरीरमें आसकि हो, यदि उनके जेल या फॉस्टिके योग्य कोई मुकद्दमा लग जाय तो संसारके सब काम करते हुए भी वे उसके चिन्तनको नहीं भूल सकते। जिस किसी उपायसे उस मुकद्दमेसे छुटकारा हो उसीको वे सर्वोत्तम मानते हैं। इसीलिये उसको भूलते नहीं। इसी प्रकार जो यमराजके छारा दी जानेगाली फॉसी (मृत्यु) के मुकद्दमेको समझ लेता है, वह भी जवतक उससे छुटकारा नहीं पा लेता, तबतक छुटकारेके लिये प्रयत्न करता रहता है। जिसे यह विश्वास है कि मुझपर चौरासी लाख वार शूली चढ़ानेका मुकद्दमा चल रहा है, अर्थात् चौरासी लाख योनियोंमें जन्म लेकर मरना पड़ेगा, जबतक इस मुकद्दमेसे छुटकारा न हो जाय, तबतक क्षणभरके लिये भी उसे चेन नहीं पड़ता।

जैसे धनका लोभी चलते फिरते सब काम करते हुए भी निरन्तर इसी चिन्तामें रहता है कि कैसे धन मिले। जैसे दुष्ट स्वभावके कारण नीच परपुरुषमें आसक दुराचारिणी श्रीका चित्त सावधानीके साथ घरका काम-काज करते हुए भी निरन्तर परपुरुषके चिन्तनमें लगा रहता है और वह अपना भेद भी किसी प्रकार प्रकट नहीं होने देती है। इसी प्रकार निरन्तर गुप्तरूपसे तथा लगनके साथ श्रीनारायण-का प्रेमपूर्यक स्मरण करना चाहिये। जो नारायणको छोड़कर ससारसे प्रीति करता है, वह तो अपने ही हाथों अपना गला काटता है।

तुमने लिखा कि 'निरन्तर भगवान्‌का चिन्तनसहित जप हो सके ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये' सो ठीक है। यदि तुम्हारे मनमें ऐसी चाह होती है तो वहाँ उत्तम बात है। फिर देर क्यों हो रही है? जिसको किसी वस्तुकी इतनी प्रवल चाह होगी, वह तो उसीके परायण हो जायगा! फिर ऐसा होनेमें देर क्या है? परन्तु अभी पूरी चाह नहीं हुई है। इस चाहके साथ जो सांसारिक वस्तुओंकी चाह भी लगी हुई है वही इसमें बाधक है। जो भगवान्‌को सर्वोत्तम समझ लेगा, वह सभी समय एकमात्र भगवान्‌की ही चाह करेगा। अन्य वस्तुकी चाहको मनमें स्थान ही न देगा। सर्वोत्तम वस्तुके बदले कोई दुरी चीज कैसे ले सकता है?

भगवान्‌का भजन-ध्यान अमूल्य हीरे-माणिक्य है और सांसारिक भोग-पदार्थ काँच-पत्थर! इस बातको जो समझ लेगा वह भजन-ध्यानरूप हीरे-माणिक्यको छोड़कर काँच-पत्थर-रूप विषय-भोगका व्यवहार कैसे करेगा? जो ऐसा करेगा, वह तो महा मूर्ख ही समझा जायगा!

भजन अधिक होनेका उपाय पूछा—सो भगवान्‌के नाम-जपको सर्वोत्तम समझ लेनेपर भजन अधिक हो सकता है। भगवान्‌के नामकी महिमा तथा प्रभाव जानेपर भी भजन अधिक हो सकता है और वह जाना जाता है सत्संगसे। अतः सब लोग एकत्र होकर भगवान्‌की चर्चा करें तो वहाँ उत्तम है। सत्संग ही सार है।

[ १९ ]

आपने लिखा—‘मुझसे नाम-जपमें बहुत भूले होती हैं, यह मेरे पुरुषार्थकी ही त्रुटि है।’ सो पुरुषार्थकी त्रुटि नहीं रखनी चाहिये। भजनका रहस्य और प्रभाव जान लेनेपर तो त्रुटि रहती ही नहीं। परन्तु अभी तो विश्वास करके ही नाम-जपका तीव्र अभ्यास करना चाहिये।

आपने लिपा कि—‘समय धीत रहा है।’ सो समय तो धीतेगा ही, जिसका समय भगवान्के भजन-ध्यानके विना धीत रहा है वही शोचनीय है। जो समय भजन-ध्यानमें धीता, वह तो धीता नहीं, वह तो वना रह गया। जो समय विना भजनके जाता है उसके लिये पछताना पड़ता है। इसलिये सर्वकालमें निरन्तर भगवान्का स्मरण वना रहे इसके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक चेष्टा होगी तो अवश्य कम भूलें होंगी।

इस प्रकार प्रगल चेष्टा करनेपर भगवान्में प्रेम होगा ही। बहुत दिनोंतक प्रसन्न मनसे भजनका तीव्र अभ्यास करनेपर ही भगवान्म-जपमें प्रेम हो सकता है।

भजन प्रेमपूर्वक न भी हो तो भी निरन्तर हो, ऐसी चेष्टा दृढ़ताके साथ करनी चाहिये। समय अमूल्य है, उसे अमूल्य काममें ही विताना चाहिये। फिर कोई हानि नहीं। बहुत साध्यान रहना चाहिये। मृत्यु पहलेसे किसीको सूचना नहीं देती। ऐसा जानकर सब समय एकमात्र नारायणके भजनका आश्रय लेना चाहिये। सच्चिदानन्द भगवान्का चिन्तन होते हुए जिसकी मृत्यु होगी, उसके लिये कोई हानि नहीं है। फिर एक पलके लिये भी आप कालका विश्वास करके भजन क्यों छोड़ते हैं?

\*\*\*\*\*

[ ६५ ]

[ २० ]

आपने लिखा कि 'दूकानका काम देखनेमें तथा लोगोंसे बात-चीत करनेमें भगवत्-विस्मृति हुए विना नहीं रहती ।' सो ठीक है । निरन्तर अटल स्थिर स्थिति न हो जाय तबतक ऐसा हो सकता है । इसके लिये उपाय पूछा, सो भजन-ध्यान करते हुए काम करनेका अभ्यास ही उपाय है । और सत्संग तथा ग्रन्थोंके द्वारा भगवद्विपयका विचार करते रहना चाहिये ।

भगवान्की स्मृति तथा सत्संग और सद्ग्रन्थोंके द्वारा भगवान्के भजन, ध्यान, वैराग्य तथा ज्ञानकी और भगवान्के प्रेम, प्रभावकी बातें, उनके गुणानुवाद तथा सुहृद-खभावकी कथाएँ सुनने एवं पढ़नेसे भगवान्‌में प्रेमसहित श्रद्धा हो सकती है । तब भगवान्का यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है; और तभी निरन्तर सर्वकालमें ध्यानसहित नामका जप हो सकता है ।



[ २१ ]

तुमने लिखा कि 'मेरा आना नहीं हुआ, इसमें मेरे प्रेमका ही अभाव समझना चाहिये ।' सो ऐसा मानना उचित नहीं, का तो मुझसे बहुत ही कम मिलना होता हे, तो क्या उनका प्रेम कम समझना चाहिये । पूर्वकालमें भी जिनका-जिनका परस्पर मिलना कम होता था तो इससे उनका प्रेम कम थोड़े ही समझा जाता था । अपनेतो साधारण मनुष्य है, साश्वात् श्रीभगवान्‌के साथ अर्जुनका यहुत ही अधिक प्रेम था । लोगोंके देखनेमें भगवान्से अर्जुनका मिलना यहुत ही कम होता था, परन्तु क्या इससे उनका प्रेम कम समझा जा सकता हे ? न मिलनेमें केवल प्रेमका अभाव हो सो बात नहीं है, और भी कई कारण हो सकते हैं ।

[ ६७ ]

तुमने लिखा—‘ऐसा क्या प्रतिबन्ध है जिससे तुम्हारे पास रहना नहीं होता।’ सो प्रतिबन्ध हो तो क्या हर्ज है। मेरे पास रहनेकी तुम्हारी इतनी जिद क्यों है? मेरे पास रहनेसे ही लाभ होता तो मेरे पास रहनेवाले सभीको ही लाभ होना चाहिये था।

पहले तुम कहा करते थे कि, ‘लगातार छः मास यदि तुम्हारे पास रहना हो जाय तो भगवान्की प्राप्ति हो जाय।’ परन्तु तुम तो इससे भी अधिक मेरे पास रह चुके! अतः भाई! भगवत्प्राप्ति तो भगवान्के भजन, ध्यानके तीव्र अभ्यास करनेसे ही हो सकती है। और वह नारायणके आश्रयपर पुरुषार्थ करनेसे सभी जगह हो सकती है।

हर समय भगवान्के समीप रहनेकी उत्कण्ठा रखनी चाहिये। भगवान्के पास नित्य रहनेमें उत्कण्ठा ही प्रधान हेतु है। उत्कण्ठा तीव्र होनेपर कोई भी प्रतिबन्धक नहीं रह सकता।

‘निरन्तर मेरे पास रहनेके लिये क्या पुरुषार्थ करना चाहिये’ इसका उपाय पूछा, सो मैं यह नहीं लिख सकता।

भगवान्की कृपासे ही सब वातोंका सुयोग लगा करता है। सुयोग प्राप्त हो जानेपर भी जो नहीं चेतते वे तो निरे पश्चु ही समझे जाते हैं। मनुष्य होकर कुछ तो विचार करना चाहिये कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ!



[ २२ ]

आपने लिखा कि—‘एक पल या एक श्वास भी भगवान्‌के स्मरण किये विना न जाने पावे, इसके लिये क्या चेष्टा करनी चाहिये ?’ सो इसके लिये भगवान्‌के गुणानुबाद, प्रभाव, सरूप, भक्ति और वैराग्यकी बातें सुननी और पढ़नी चाहिये। इसके सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। ऊपर लिये अनुसार करनेसे भगवान्‌में प्रेम होनेपर निरन्तर ध्यानसहित निष्काम स्मरण रह सकता है।

जो समयकी कीमत जान लेता है, उसका एक पल या एक भी श्वास व्यर्थ कैसे जा सकता है ? जो समय विना भगवचिन्तनके जाता है वह तो धूलमें ही जाता है। ( व्यर्थ ही नष्ट होता है ) इस प्रकार समझनेवालेके छारा एक पल या एक श्वास भी धूलमें कैसे मिलाया जा सकता है ?

भगवान्‌की कृपा, दया हम सभीपर सदा ही पूर्ण घनी हुई है। इस बातको जो जान लेगा, वह भगवान्‌को कभी न भूल सकेगा।



[ २३ ]

आपका पत्र मिला । जो समयके महत्त्वको जानता है, वह कभी कालके द्वारा नहीं मारा जाता । क्योंकि वह कभी कालका विश्वास ही नहीं करेगा । उसको काल धोखा कैसे दे सकता है ? जो कालको अच्छी तरह नहीं जानता, वही कालके धोखेमें आता है । उसीको काल नाश कर देता है । काल अचानक आता है । जैसे चूहेको विही पकड़ती है, मौत भी उसी प्रकार अचानक आ पकड़ती है, ऐसा जानना चाहिये ।

अतः जो सब समय भगवान् नारायणके चिन्तनकी शरण रखेगा, एक पल भी उसे नहीं छोड़ेगा और भगवान् के नाम-रूपका चिन्तन करते हुए ही मरेगा वह तो भगवान् को ही प्राप्त होगा । वह मृत्युरूपी संसारसागरमें कभी न डूबेगा । उसको मृत्यु कभी नहीं मार सकेगी । वही पुरुष धन्ववादका पात्र है जिसका अनन्य प्रेम होनेके कारण हर समय एकमात्र भगवान् में ही ध्यान रहता है यानी जिसको निरन्तर भगवान् का ही स्मरण रहता है, उसको फिर जीवन्मुक्तिसे भी क्या प्रयोजन है ? वह तो दर्शन करने योग्य है । उसके दर्शनसे तो पापी भी पापमुक्त हो जाता है । उसके जरिये कितने ही पुरुष जीवन्मुक्त हो जाते हैं, फिर उसके अपने जीवन्मुक्त होनेकी तो आवश्यकता ही नहीं रहती । उसे तो सर्वकालमें निरन्तर एकमात्र भगवान् का प्रेमपूर्वक चिन्तन होता रहे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी चाह नहीं होनी चाहिये ।

~\*~

‘आपने लिया कि ‘समय बहुत व्यर्थ जाता है, भजन बहुत ही कम होता है’ सो व्यर्थ समय किसलिये जाता है? विषयों पुरुषोंका सग और विषयोंका चिन्तन अधिक होता होगा। भगवान्‌में प्रेम कम होनेके कारण ही भजन कम होता है। भगवान्‌में प्रेम होनेके लिये भगवान्‌के गुणानुवादकी वातें सत्संग तथा शाखोंद्वारा सुननी तथा पढ़नी चाहिये। इस प्रकार अभ्यास करनेसे भगवान्‌का प्रभाव जाना जा सकता है, जिससे संसारसे वैराग्य होकर भगवान्‌में प्रेम हो सकता है। तब ऐसा होनेपर अपने-आप ही भजन अधिक होगा।

दिन चीत रहे हैं, गया हुआ समय पीछा नहीं आता। शरीर एक दिन अवश्य मिठीमें मिल जायगा, इसका कोई उपाय नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है, फिर औरकी तो चात ही क्या है? जो कुछ भी पदार्थ है, सबका नाश होनेगाला है। श्रीनारायणदेव ही सब्दे आनन्दरूप है, उन्हींकी शरण लेनी चाहिये। श्रीभगवान्‌के दर्शन हुए चिना संसारके जालसे कभी नुटकारा नहीं होगा। श्रीनारायणका मिलन प्रेमके अधीन है। इसलिये जैसे भी हो शोध श्रीनारायणमें पूर्ण प्रेम हो, बहुत जल्दी वैसी चेष्टा करनी चाहिये। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ नारायणदेवकी प्राप्तिके लिये लगा देना चाहिये, फिर तो नारायण हाजिर ही है।

[ २५ ]

आपका पत्र मिला । आपसे अपने पिताजीकी आवाका पालन और उनकी सेवा भलीभाँति बनती है या नहीं ? नारायणके नामका जप और उनके स्वरूपका ध्यान हर समय काम करते हुए भी बना रहे ऐसा उपाय करना चाहिये । करीब दो या तीन घटेका समय भजन-ध्यानके लिये अलग नियत रखना चाहिये । इस कामके लिये अवकाश अवश्य निकालना चाहिये । सत्सङ्गकी चेष्टा करनी चाहिये । शास्त्र तथा भगवद्गति-सम्बन्धी ग्रन्थोंको पढ़ना भी सत्सङ्ग ही समझा जाता है । भजन-ध्यानमें आनन्द आनेपर तो विना ही चेष्टाके हो सकता है, अभी तो एक बार बुद्धिके निश्चयसे और जबर्दस्तीसे ही भजन करना चाहिये । भजन करते-करते ही आनन्द आता है और तभी भजनका मर्म जाना जा सकता है ।

—४३०—

[ २६ ]

आपने लिखा—‘निरन्तर भजन ध्यान हो, ऐसी कही वात  
लिखनी चाहिये।’ सो ठीक है। परन्तु वातोंसे भजन ध्यान  
होता तो कभीका हो जाता। संसारसे वैराग्य होनेपर निरन्तर  
भजन-ध्यान हो सकता है। परमात्मामें प्रेम होनेपर संसारसे  
आप ही वैराग्य हो जाता है। भगवान्‌के गुणानुवाद, उनके  
स्वभाव, सामर्थ्य और प्रेमकी वातें पढ़ने सुननेसे भगवान्‌का  
मर्म जानकर भगवान्‌में प्रेम होता है, तब संसारके भोग अच्छे  
नहीं लगते। एकमात्र भगवान्‌के मिलनेकी ही वारम्घार  
उत्तेजना होती है। तभी निरन्तर भजन ध्यान होता है।

समय बीता जा रहा है, गया हुथा समय किसी प्रकार  
भी लौटकर नहीं आता। ऐसा जानकर समयको अमूल्य  
काममें ही विताना चाहिये। ऊचे से-ऊचे काममें ही समय  
लगाना चाहिये। आप जिस कामके लिये संसारमें आये थे,  
उस कामको पहले पूरा करके ही फिर दूसरे कामको देखना  
चाहिये। एक भगवान्‌के दिना आपका सच्चा सुहृद् और कोई  
नहीं है, ऐसा जानकर निरन्तर भजन-ध्यान करना चाहिये।

८५३

[ ७३ ]

[ २७ ]

तुमने लिखा कि 'परमात्मामें मन लगे ऐसा उपाय होना चाहिये' सो मेरा भी यही लिखना है कि इसीके लिये जल्दी होनी चाहिये। परन्तु आप उपाय न करें तब क्या उपाय हो? जिसे परमात्मामें मन लगानेकी चिन्ता होगी, वह उसके लिये बड़ी तत्परताके साथ उपाय करेगा और उसीका उपाय भी सफल होगा।



७४ ]

[ २८ ]

भजन, ध्यान, सत्सङ्गके लिये सचेष्ट रहनेसे, थोड़ा बहुत भजन-ध्यान हो सकता है। अधिक भजन तो बहुत दिनोंतक प्रियोग तत्परताके साथ हर समय अभ्यास करनेपर ही होता है। अत मनुष्यको विचार करना चाहिये, कि मैं किसलिये आशा हूँ, मैं कौन हूँ? मेरा क्या कर्तव्य है और मैं करन्या रहा हूँ? मैं जो कुछ करता हूँ वह सब ठीक है या नहीं? जिससे हमारा परम कल्याण हो, हमें वही करना चाहिये। मैं जो कुछ करता हूँ वह यदि ठीक नहीं है, तो फिर वही करना चाहिये जो ठीक हो। मूल्यवान्-से-मूल्यवान् काममें ही समय लगाना चाहिये। भजन, ध्यान और सत्सङ्गके समान सासारमें कोई भी मूल्यवान् पदार्थ नहीं है।



[ ३० ]

भगवान्‌स्त्री स्मृति अधिक रहनेका उपाय पूजा, सो वह संसारसे वैराग्य और भगवान्‌में प्रेम होनेसे रह सकती है। केवल वातें लिख देनेमें कुछ नहीं हो सकता; धारण करनेसे ही होगा ।

सत्संग एवं सद्ग्रन्थोंद्वारा भगवद्भजन, भक्ति, ध्यान, वैराग्य तथा शानकी वातें एवं भगवान्‌के प्रभाव और गुणानुवादकी वातें प्रेमसहित सुनने-पढ़नेसे भगवान्‌में ७८ ]

श्रद्धा-प्रेम होनेपर भगवानकी स्मृति बहुत ही अधिक रह सकती है।

इस प्रकार साधन करनेसे अन्त करण शुद्ध होकर प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे निरन्तर भगवानका स्मरण हो सकता है। फिर भगवानकी प्राप्ति तो हुई ही पढ़ी है। उनको फिर भगवान्के मिलनेकी गर्ज भी नहीं रहती, भगवान् ही उनके पीछे-पीछे फिरते हैं।

सच्चिदानन्दमय सगुणरूप भगवान् श्रीकृष्णकी मनमोहिनी मूर्तिको अपने हृदयसे कभी विसारना नहीं चाहिये, पर उसके रहस्यको जाने चिना इस प्रकार वन नहीं पड़ता। और जब श्रीनारायणके परम रहस्यको कोई जान लेता है तो फिर उसके लिये भगवान्के स्वरूपको भुलाना सम्भव नहीं। फिर उसको सब जगह वासुदेव भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ही भासित होते हैं जैसे गोपियाँको होते थे।

उस मोरमुकुटधारी, वशीविहारीकी माधुरी मूर्ति और मीठी वाणीमें जब एक बार सुरति समा जाती है तो फिर वह लोटकर नहीं आती। चित्त उसीमें फैस जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त उसे किसी औरका ज्ञान ही नहीं रहता। तब वह प्रेमी भक्त वानन्दमय हो जाता है। उसके लिये नारायणके सिवा और कुछ भी नहीं रहता।



[ ३१ ]

आपने लिखा कि 'भगवान्‌की स्मृति बहुत ही कम रहती है,' सो भगवान्‌की स्मृति रहनेके विषयमें '.....' के पत्रमें लिखा है। इधर आपका समय ठीक नहीं वीतता, इसका कारण आप ही जान सकते हैं। मैं इतनी दूरसे कैसे अनुमान लगा सकता हूँ? या तो आपके सांसारिक ब्रॅंजट अधिक रहते होंगे अथवा भगवद्गुरुओंका संग कम होता होगा। प्रधान तो ये दो ही कारण अनुमान किये जाते हैं। आपसे बहुत पीछे जो लोग साधनमें लगे थे वे भी आपसे आगे बढ़ गये। शुरू-शुरूमें आपकी बड़ाई अधिक हो गयी थी, उसे सुनकर आपको कहीं कुछ अभिमान ८० ]

तो नहीं हो गया ? क्योंकि आपके भजनकी बहुत ही प्रशंसा किया करता था । जो हुथा सो हुथा, अब भी चेत जायें तो कुछ नहीं विगड़ा है । अब भी सब वात धन सकती है !

बहुत-से पुरुषोंका बहुत उच्चम और तेज साधन देखकर भी आपको उत्साह क्यों नहीं होता ? यदि कहें कि ‘कुछ तो होता है’ परन्तु वह कुछ नहीं, जब कि आप उस उत्साहके अनुसार कार्य नहीं करते तब फिर नाममात्रके उत्साहसे क्या होता है ? फिर भी न होनेसे तो उच्चम ही है, परन्तु यह उन लोगोंसे आगे बढ़ा देनेशाला उत्साह नहीं है । आपको यदि भगवद्विषयपर पूरा विश्वास है तो फिर एक पलकी भी देर आप ऊँकर रहे हैं ? संसारको यदि स्पृतुल्य मिथ्या समझते हैं, तो फिर इस मिथ्या जगत्‌के लिये अपना अमूल्य समय क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं ? संसार पूर्णरूपसे मिथ्या न समझमें आवे तो भी यह क्षणभगुर तो प्रत्यक्ष ही देखनेमें आता है । एक श्रीनारायणको छोड़कर कोई भी ऐसी वस्तु ससारमें नहीं है, जो नित्य हो । फिर शरीरकी तो वात ही स्या है । एक दिन इस शरीरका अपद्य ही नाश होना है । अत इस शरीरके भस्म होनेसे पहले-पहले ही जो कुछ करना हो, कर लेना चाहिये । एक पलका भी विलम्ब क्यों करते हैं ? आपको किस वस्तुकी आवश्यकता है ? जिसके लिये आप जीवनके अमूल्य समयका अमूल्य काममें उपयोग नहीं करते ।



सच्चिदानन्दधन परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी भासता है, वह है नहीं। इस प्रकार समझकर, जो कुछ भी चिन्तन में आता है उसका खयाल छोड़कर जो वच रहे उसको अचिन्त्य सच्चिदानन्द समझकर उसीमें स्थित होना चाहिये। इस प्रकार अधिक अभ्यास करनेपर अचिन्त्यके ध्यानकी स्थिति हो सकती है।

जलमें वर्फकी तरह अपने शरीरको आनन्दमें डुबोकर शरीरको ढहा दे। फिर आनन्द-ही-आनन्द रह जाता है। इस प्रकार ध्यान करनेसे सच्चिदानन्दके स्वरूपमें स्थिति हो सकती है।

श्रीसच्चिदानन्दधनका भाव अर्थात् होनापना और शरीर तथा जो कुछ भी चिन्तनमें आ जाता है उन सबका अत्यन्त अभाव अर्थात् दृश्यमात्र कुछ है ही नहीं इस प्रकारका दृढ़ निश्चय, ऐसा होनेसे एक सच्चिदानन्दके अतिरिक्त सबका अभाव होकर परम आनन्दमय एक सच्चिदानन्दधन ही सर्वत्र अभिवृत्तरूपसे रह जाता है, वही परमपद है; वही परब्रह्म है और वही अमृत है।

जो मनुष्य ध्यानके मर्मको जान लेता है, विना ही चेष्टके उसका ध्यान हर समय बना रहता है। जबतक ध्यान करनेमें कोई परिश्रम मालूम होता है तबतक ध्यानका मर्म ही नहीं जाना गया। ध्यानका मर्म जान लेनेपर तो फिर ध्यानमें आनन्द-ही-आनन्द है। उस आनन्दमयका ध्यान अपने-ही-आप होता रहता है। वह तो फिर कुछ भी नहीं चाहता।

आपका पत्र मिला । कृपा, दया तो भगवान्‌की सबपर सदा ही बनी है । उन्हींकी कृपासे सब कुछ बनता है । परन्तु उनकी वह कृपा भजन किये विना समझमें नहीं आती । और कृपाका प्रभाय जाने विना कृपाको प्रतीति नहीं होती, तप उद्धार भी कैसे हो ? विश्वास ही सार है । विना विश्वासके नारायणमें प्रेम नहीं होता, विना प्रेमके नारायण मिलते नहीं और नारायणके मिले विना संसारसे उड़ार होनेका और कोई भी उपाय नहीं है ।

जिस रातसे एक-दो दिन भी भगवानमें कुछ प्रेम होता हो, उसी यातको निरन्तर सुनने, पढ़नेकी चेष्टा करनी चाहिये । जब दिन-रात निष्काम प्रेमभावसे जप होने लगे फिर तो मनुष्य किसी प्रकारसे भी संसारके लोभमें नहीं फँस सकता । क्योंकि जब भगवान्‌के प्रेमका सच्चा लाभ प्रत्यक्ष दीर्घने लगता है तब भजन अपने-ही-आप होने लगता है । फिर विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती । उस ओरका आनन्द नहीं जाना जाय तभीतक भजन करना कठिन हो रहा है ।

पिछले पाप तो सभीके बहुत ही किये हुए होते हैं, परन्तु भगवान्‌के नाम-जपके प्रतापसे वे सभी पाप भस्म हो जाते हैं; फिर कुछ भय नहीं रहता । भजन होता रहे तो कोई चिन्ताको यात नहीं ।

जब ही नाम उद्य धरयो, भयो पापको नास ।

जैमे चिनगी अग्निकी, परी पुराने धास ॥

पिछले पापोंकी कौन जाने और जाननेकी आवश्यकता भी नहीं। भगवद्गामजपसे वे सभी नाश हो जाते हैं। इसलिये बहुत तत्परतासे नाम-जप ही करना चाहिये। कलियुगमें नामजपके समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र भगवद्गामजप ही सार है। इसलिये जिस उपायसे नामजप हो सके पूरी चेष्टासे उसीमें लग जाना चाहिये। रामायणमें कहा है—

कलियुग केवल नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा ॥

यदि भगवद्गामका जप नहीं होता है तो आपका भगवान्‌में विश्वास ही नहीं है। यही समझना चाहिये। नहीं तो और क्या कारण समझा जाय? अतः एक बारं विश्वास करके भगवान्‌के नामका जप और ध्यान करना चाहिये। फिर सांसारिक लोभ नहीं रह सकेगा। आप सांसारिक आनन्दको आनन्द मान रहे हैं, इसीसे आप उसमें फँस रहे हैं। आपको विचार करना चाहिये कि संसारमें आकर मैंने क्या किया? पशुमें और मुझमें क्या अन्तर है? खाना, सोना और विषयभोग तो पशु भी करते हैं, फिर पशुसे अधिक आपको क्या आनन्द मिला? इस प्रकार विचारकर देखनेसे मालूम होगा कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ ही हुआ; केवल दस महीने माताको बोझ ही ढोना पड़ा। अब भी चेत जायँ। नहीं तो पीछे पछतानेसे कुछ भी नहीं बनेगा। अन्तमें भगवान्‌के भजन विना कोई भी काम नहीं आवेगा। सब यहीं रह जायगा, शरीर भी साथ नहीं जायगा, फिर औरकी तो बात ही क्या है?



[ ३४ ]

तुमने लिखा कि 'भाईजी ! मेरा तो कुछ जोर नहीं है' सो ऐसा नहीं लियना चाहिये । जहाँ प्रेम है वहाँ बहुत जोर है ।

तुमने लिखा कि 'पूर्ण इच्छा होनेपर मिलाप होना स्क नहीं सकता' सो ठीक है । मिलना भले ही देरसे हो, प्रेम अधिक घड़ाना चाहिये, प्रेम ही प्रधान है ।

अपना सभी समय निरन्तर प्रेमपूर्वक भगवान्‌के नामजप और ध्यानमें धीते, सारा पुरुषार्थ लगाकर वही चेष्टा करनी चाहिये । एक क्षणकी भी जोरिम नहीं रखनी चाहिये । कालका जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिये ।



[ ३५ ]

आपने लिखा कि 'डाकगाड़ीमें जानेसे जैसे जल्दी पहुँचा जा सकता है, इसी प्रकारका कोई उपाय होना चाहिये ।' सो, जो मनुष्य उपाय होना चाहेगा, वह तो उसीके अनुसार चेष्टा भी करेगा ही । मेरा लिखना भी ऐसा ही है कि यह उपाय जल्दी होना चाहिये, नहीं तो पीछे पछतानेसे कुछ भी नहीं बनेगा । चेष्टा करनेसे उपाय होनेमें क्या विलम्ब है ? सत्सङ्ग और भजन कम होता है, इसमें पुरुषार्थकी ही कमी समझनी चाहिये । चाहे जितने भी सांसारिक काम हों, भगवान्‌के नाममें प्रेम होनेपर भजनमें भूल अधिक नहीं हो सकती । काम करते हुए ही नामजपकी यादगारी अधिक रहे, वही चेष्टा करनी चाहिये ।

[ ३६ ]

दुकानके आदमियोंका तथा सांसारिक लोगोंका संग करनेसे भजन कम होता हो तो उनका संग कम करना चाहिये । जब भगवान्‌में पूर्ण प्रेम और विश्वास हो जायगा तब तो चाहे जितना विषयी मनुष्योंका संग हो, फिर भगवान्‌की स्मृति भूली नहीं जा सकती । भजन और सत्संग अधिक होनेपर ही विश्वास और प्रेम हो सकता है । इसलिये भजन-सत्संगकी ही विशेष चेष्टा करनी चाहिये ।

कृपा-दया तो भगवान्‌की सभीपर सदा ही पूर्ण रहती है । उसे जान लेनेपर मनुष्य भगवान्‌को कभी भूल नहीं सकता । जान लेनेपर उसका चिन्तन किस प्रकार छोड़ा जा सकता है ?

आपने लिखा—‘किसी समय तो मुकद्दमेका काम लीलामात्र दीर्घने लगता है ।’ तब तो बहुत ही आनन्दकी घात है, फिर तो उस मुकद्दमेकी चिन्ता भी नहीं रहनी चाहिये और एकमात्र नारायणका ही भजन होना चाहिये । मुकद्दमेका चिन्तन मुकद्दमेके दिन ही होना चाहिये । अथवा किसी समय याद भले ही था जाय, परन्तु विशेष चिन्तन न हो । जिनको मुकद्दमेका भय होता है, उनको वह निरन्तर जलाता रहता है । नारायणमें मन लगानेके लिये मुकद्दमेकी तरह मृत्युको याद रखना चाहिये । सबसे बड़ा मामला तो नारायणके घर है, उसका न्याय करनेवाले भगवान् आप हैं । उनका छोटा हाकिम यमराज है । यमराजकी अदालतमें नहीं जाना पड़े वही चेष्टा करनी चाहिये । शरीरको लेकर मुकद्दमा चल रहा है, आप कहते हैं यह मेरा है, पर असलमें यह आपका है नहीं । आपके पास क्या प्रमाण है ? कुछ भी है

## परमार्थ-पत्रावली

नहीं। सुकृदमा हो ही रहा है। आखिर इस शरीरस्ती मकानको अवश्य खाली कर देना पड़ेगा। प्रसन्नतासे छोड़ देंगे तो आपकी लायकी है, नहीं तो वेइजती होगी। शरीर आपका है नहीं। आपके पास इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है। जो जीवित रहते हुए ही शरीरका आश्रय त्याग देता है, शरीरको भुट्टेके समान समझ लेता है वही उत्तम है, वही जीवन्मुक्त है। इस शरीरको पहलेसे ही भुट्टेके समान समझकर इसमेंसे अपनेपनका भाव निकालकर जो पुरुष एकमात्र नारायणमें अपनेपनका भाव कर लेगा उसीकी पेश आवेगी। नहीं तो वेइजती होगी। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिये पहले ही इसमें अभिमान छोड़ देना चाहिये। एक दिन तो अवश्य ही इसे खाली करना पड़ेगा। जबतक आपका इसपर अधिकार है अच्छ तरह शीघ्रतासे इससे काम ले लेना चाहिये। इसमेंसे भजन, ध्यान, सत्सङ्गस्ती अमृत तो निकाल लेना चाहिये, जिससे बादमें पछताना न पड़े।

भगवान्‌के भजन, ध्यान तथा सत्सङ्गके बिना 'मैं और मेरा' यह भाव नाश होना कठिन है। भगवान्‌का भजन बहुत कीमती है, यही तुम्हारे काम आवेगा। समय बड़ा अमूल्य है इस प्रकारका अवसर मिलना बहुत ही कठिन है, जो ऐसा समझेगा वह तो अपने अमूल्य समयको अमूल्य काममें वितावेगा।


कोड़े लगानेवाला मैं कौन हूँ? इस प्रकार नहीं लिखना चाहिये। कोड़े तो गुरु लगा सकते हैं। यदि कोड़े लगवाने-

को आवश्यकता हो तो इसी सबे निष्कामप्रेमी गुरुकी शरणमें जाना चाहिये। शरण भी ऐसी हो कि कुछ भी हो सब गुरुके आशानुसार ही करे। प्राण भले ही चले जायें, अपने प्रणको नहीं छोड़ना चाहिये।

प्रेमपूर्वक भजनमें ऐसा मग्न हो जाय कि शरीरका ज्ञान ही न रहे। तब आनन्द-हो-आनन्द है। भजन-सत्सङ्ग कम होनेमें आलस्य ही विशेष कारण जान पड़ता है। काम करते हुए अधिक भजन होना तभीतक कठिन है जबतक प्रेम कम है। सत्सङ्ग तो मर्हनेभरके लिये भले ही न हो परन्तु सत्सङ्गमें प्रेम होना चाहिये। यदि पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और निष्कामभाव हो तो सत्सङ्ग तो एक पलका भी बहुत है।

आपके ससुरालका हाल जाना। इस विषयमें आपको ससुरका पक्ष नहीं करना चाहिये। माता-पिता जो कहें उसी प्रकार करना चाहिये। आपके पिताजीकी आत्मा दुखी हो तो आपको अपने ससुरके पास भी नहीं जाना चाहिये। यदि आपके ससुरालबालोंके हितके लिये वहाँ जाना आवश्यक हो और उसमें आपके पिताजी आदिका भी हित होना हो तो आप अपने पिताजीसे प्रार्थना करके उनसे आशा लेकर अपने ससुरके पास जा सकते हैं। वे आशा न दें तो कोई उपाय नहीं।

आपने लिया कि 'मैं निष्काम होकर चलूँ।' ऐसा विचार है; मामलेका सुख-दुःख कुछ मानूँ नहीं।' सो ऐसा हो तो फिर चिन्ता ही क्या है?



[ ३६ ]

तुम्हारा पत्र मिला, धारणाकी वात जानी । भजन, ध्यान-  
का तीव्र अभ्यास करनेसे हृदय शुद्ध होता है, तभी सच्ची  
धारणा होती है । पूर्ण प्रेम तो भगवान्‌में ही होनेका उपाय करना  
चाहिये । वह भजन, ध्यान, सत्सङ्गके तीव्र अभ्यास करनेसे  
अन्तःकरण शुद्ध होनेपर प्रभुके प्रभाव जाननेसे ही होता है ।

९० ]

प्रेमकी घात जानी। मैं तो तुम्हारे प्रेमके अनुसार पूरा पत्र-व्यवहार भी नहीं कर सकता। इस घार बहुत ही कम पत्र लिख सका। मिलनेकी घात भी जानी। प्रेम रहे तो मिलना भले ही कम हो कोई हर्जकी घात नहीं हे।

मेरे साथ प्रेम बढ़नेकी घात पूछी सो इसका उत्तर मैं कुछ नहीं लिख सकता। क्योंकि वर्तमानमें तुम्हारा जो प्रेम है उसे देखते मुझे कलरत्ते जानेमें उज्ज व्याप्ति होना चाहिये था।

भजन-सत्सङ्गका अभ्यास अधिक होनेसे भगवान्‌के ध्यानकी स्थिति बढ़ सकती है। तुमने अपना साधन कमज़ोर लिखा, इसका क्या कारण है? तुम्हारे साधनको कौन कम करवा रहा है? तुम फिसके द्वावसे या मूर्खतासे अथवा कुसङ्गसे किस हेतुसे साधन कम कर रहे हो? एक भगवान्‌के विना तुम्हारा और कोई भी नहीं है। तुमको ऐसी किस वस्तुकी आवश्यकता है, जिसके लिये तुम भगवान्-सरीये प्रिय मित्रके प्रेम-चिन्तनको छोड़कर मिट्या, क्षणभङ्गर ससारके चिन्तनमें अपने अमूल्य समयको यिता रहे हो? संसारका काम निष्काम-भावसे अनासक्त होकर करना चाहिये। एक पल भी तुम्हें व्यर्थकी घातोंमें तथा काममें नहीं यिताना चाहिये। भगवान्‌को छोड़कर अन्तमें कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है। ऐसा जानकर उस नारायणको एक पलके लिये भी नहीं छोड़ना चाहिये।



## परमार्थ-पत्रावली

जाती है। परन्तु संसारके सङ्गमें मनको भय भी किस बातका है? सर्वत्र एक श्रीसच्चिदानन्द ही तो पूर्णरूपसे विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार बहुत अधिक अभ्यास दृढ़ हो जानेपर सर्वत्र एक नारायण-ही-नारायण भासित होने लगते हैं।

पहले आपको ध्यानकी बातें लिखी थीं, उनमें ध्यान नं० २ वाली स्थिति यदि रहे तो काम करते हुए भी कोई अड़चन नहीं। स्फुरणा भी भले ही हो, कोई हानि नहीं है। संसारका अभाव और सच्चिदानन्दघनका भाव (होनापना) देखते रहना चाहिये, फिर कोई हर्ज नहीं। संसारका सङ्ग भले ही हो, संसारको अनित्य समझना चाहिये। सभी जगह एक नारायण ही पूर्ण-रूपसे विराजमान हो रहे हैं। उनके बिना जो कुछ भी भासित होता है सो है नहीं।

सारे संसारको एक सत्-चित्-आनन्दके द्वारा व्याप्त—परिपूर्ण समझना चाहिये; जैसे वर्षका ढेला जलसे व्याप्त है इसी प्रकार आनन्दघनसे सारा संसार व्याप्त है। इस प्रकार समझता रहे तो फिर संसारका चाहे जितना सङ्ग हो, कोई हानि नहीं।

भक्तिके भावसे संसारके काम करते हुए इस तरह समझना चाहिये कि जो कुछ भी है वह सब केवल भगवान्‌के सङ्कल्पमात्रसे बना हुआ है, सारा संसार लीलामात्र है, भगवान्‌की फुलबाड़ी है। इसमें भगवान् प्रसन्न हों, उसी प्रकार लीलाकी भाँति कार्य करना चाहिये। जो कुछ भी है सब एक नारायणका सङ्कल्पमात्र है; ऐसा समझकर जो नारायणकी राजीके अनुसार काम करता है वह इसमें लिपायमान नहीं होता।

जो सभी वस्तुओंको नारायणकी समझकर अहङ्कारसे रहित होकर सब कुछ नारायणके लिये ही करता है, उसीपर नारायण प्रसन्न होते हैं।

इस प्रकारका भाव हो जानेपर भले ही संसारका सङ्ग होता रहे, कोई हानि नहीं। यह शरीर भी नारायणका है। काम भी नारायणका है। नारायणकी आवानुसार नारायणके लिये, फल और आसक्तिको छोड़कर जो नारायणके इच्छानुसार करता है वह इस संसारके सङ्गमें रहकर भी इससे वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे जलमें रहकर कमल जलसे अलग ही रहता है।

आपने लिया कि ध्यान करते समय आनन्दकी भी इच्छा नहीं रहे, केवल निरन्तर ध्यान ही होता रहे ऐसी इच्छा रहती है, सो आनन्दकी इच्छा रहे, तो भी कोई हर्ज नहीं है। भगवान् के ध्यानकी तथा नामके जपकी लालसा घनी रहे तो भी उत्तम ही है, इसमें भगवान्से कुछ मौगना नहीं है।

नाम-जप भगवान्के ध्यानसहित ही वह बहुत उत्तम है, केवल ध्यान हो, या केवल नामका जप हो और व्यर्थ स्फुरणा न हो तो भी कुछ अद्वन नहीं। परन्तु ध्यानके साथ नामका जप होता रहे तो बहुत ही उत्तम है।

केवल सत्-चित् आनन्दका ध्यान ही और शरीरका भी ध्यान न रहे, पेसे समयमें नामका जप यदि अपने-आप ही छूट जाय तो कोई हानि नहीं। किन्तु निष्ठा, आलस्य नहीं आना चाहिये।



तुमने लिखा कि मुझे चिन्ता वास्तवमें ता नहीं होनी चाहिये, परन्तु मायाका प्रभाव इतना बलिष्ठ है कि चिन्ता, राग-द्वेषपादि एवं सुख-दुःख हुए विना नहीं रहते, बलात्कारसे हो जाते हैं, सो ठीक है। यह सब चिरगुणात्मक मायाका ही कार्य है। इसका उपाय पूछा सो निष्काम प्रेम और गुप्तभावसे ध्यान-सहित निरन्तर नामका जप ही प्रधान उपाय है। गीतामें भी कहा है—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

( ७ । १४ )

भाई, माया तो अति दुस्तर ही है, परन्तु भगवान्‌की शरण लेनेके बाद वह दुस्तर नहीं रह जाती। भगवत्‌का भजन-ध्यान ह उससे तरनेका एकमात्र उपाय है। भगवान्‌का आसरा लेकर भी हम यदि मायाको दुस्तर ही मानते हैं तो हमने भगवान्‌का प्रभाव ही कहाँ जाना ? इसलिये भगवान्‌की शरण भली प्रकार लेनी चाहिये। पीछे कोई चिन्ता नहीं।

याँ तो हरिके नामका प्रभाव सदा हो है, परन्तु कलियुगमें वशेष है, सो प्रकट ही है। इस समय हरिनामके विना मायासे तरना वास्तवमें कठिन है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है—

हरिमाया कृत दोप गुन विनु हरिभजन न जाहिं ।

भजिअ राम सब काम तजि अस विचारि मन माहिं ॥



[ ३९ ]

और तुमने लिया कि जबतक शरीरमें अहभाव और संसारमें सत्ताकी प्रतीति रहती है तबतक मनुष्य बिना उप ही अपने ऊपर भार मान लेता है, सो ठीक ही है। तुमने लिया कि अन्त करण शुद्ध हुए बिना इन सबको मिथ्या मानना असम्भव है, सो भी ठीक है। अन्त करणकी शुद्धिके लिये हरिके नामका जप, परमेश्वरके स्वरूपका यान और सत्सग एवं निराकाम कर्म आदि उपाय शास्त्रमें लिखे हैं।

नाम-जपके साथ, शरीरसे पृथक् होकर, यह शरीर में नहीं, यह शरीर में नहीं, इस प्रकार वारम्बार मनन करनेसे भी शरीरमें अहभावका अभाव हो जाता है।

एक सच्चिदानन्द सर्वव्यापक परमात्माके होनेपनेका भाव और उसके बिना और सबका अभाव देखनेसे तथा संसारको मिथ्या, स्वप्नवत् कलिपत देखनेका अभ्यास करनेमें भी संसारकी मत्ता और शरीरमें अहंभावका अभाव हो सकता है।

५४३३३३

[ ०७

[ ४० ]

आपने हर समय भगवन्नाम याद रहनेका उपाय पूछा, सो भगवान्‌में प्रेम और संसारके प्रति तीव्र वैराग्य होनेसे भगवान्‌की स्मृति हर समय हो सकती है। इसके लिये भी भगवान्‌के नामका जप प्रसन्नतापूर्वक करनेका अभ्यास करनेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये। चेष्टा करना ही वास्तविक उपाय है। समयको अमूल्य समझना चाहिये और बहुत उत्साहके साथ भगवान्‌की ओर लगना चाहिये। संसारका चिन्तन भगवान्‌की प्राप्तिमें बहुत बड़ा बाधक एवं अपने लिये धातक है, ऐसा जाने। संसारका चिन्तन करते हुए जो मरेगा उसको संसारकी ही प्राप्ति होगी और जो भगवान्‌का चिन्तन होते हुए मरेगा उसे भगवान्‌ ही प्राप्त होंगे ऐसा जान लेनेपर कौन मूर्ख भगवान्‌को भूलेगा। जो भगवान्‌को छोड़ संसारका चिन्तन करता है उसको मूर्ख समझना चाहिये।

—४०—

आपने लिया कि भगवान्‌का भजन निरन्तर हो ऐसा अभ्यास जल्दी होना चाहिये, सो यही ठीक है। आपके अन्दर इस प्रकारकी इच्छाका होना बहुत ही उत्तम एवं प्रशंसनाके योग्य है। इस प्रकारकी तीव्र इच्छा रहनेसे निरन्तर अभ्यास रहना कोई बड़ी चात नहीं। आपने लिया कि भूल बहुत पड़ती है, सो ठीक ही है। संसारका अभ्यास बहुत दिनोंसे रहते आये हैं, इसीसे भूल पड़ती है। यह भूल यदि आपको सहन न होगी तो अपने-आप कम हो सकती है। जपतक भगवान्‌में पूर्ण प्रेम नहीं होगा तबतक भूलका सर्वथा मिटना सम्भव नहीं। आपने लिया कि भगवान्‌के चरणोंमें प्रेम होना चाहिये, सो मेरा भी लियना है कि यह अवश्य होना चाहिये। आपके अन्दर इस प्रकारकी इच्छा रहेगी तो फिर अधिक ढील होनेमें कोई कारण नहीं दिखायी देता। भगवान्‌के गुणोंकी चातें पढ़ने-सुननेसे तथा भजन-ध्यानका विशेष चेष्टापूर्वक तीव्र अभ्यास करनेसे भगवान्‌में प्रेम होकर चिन्तन हर समय हो सकता है। आपने लिया कि भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान रखते हुए नामका जप होना चाहिये, सो सत्संगके अभ्याससे उसका प्रमात्र जान लेनेसे ऐसा हो सकता है। भजन-ध्यानको सबसे उत्तम माना जाय तभी भजन ध्यान हो सकता है। भजनको सच्चे मनमें सर्वोत्तम मान लेनेके बाद दूसरा चिन्तन अपने-आप कम होने लगेगा, सो भी थोड़े ही दिन होगा। संसारका चिन्तन जब आपके मनको अच्छा नहीं लगेगा तब भगवान्‌का ही

पतिकी और देखती हुई पतिके इच्छानुसार सब काम करती है, उसी भाँति उस भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र मोरमुकुटधारी, चंशीवटविहारीकी माधुरी मूर्तिको अपने नेत्रोंके सामने देखता हुआ काम करता रहे। जहाँ-जहाँ नेत्र जाय वहाँ-वहाँ ही श्रीवासुदेव श्यामसुन्दरकी मूर्तिकी भावना करे। और जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ भी आनन्दमय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्तिका चिन्तन करते हुए, मनको भगवान्में रखते हुए सांसारिक काम करता रहे। ज्यों पतिव्रता स्त्री अपने पतिमें मन रखते हुए संसारका काम करती है उस प्रकार करनेसे साधन परिपक्ष हो जाता है।

उसे एक श्रीकृष्ण भगवान्के सिवा और कुछ नहीं भासता और वह आनन्दमें ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे आगे जाकर अपने शरीरका भी भान नहीं रहता। वह गोपियों-की भाँति मुग्ध हो जाता है। भगवान् बड़े प्रेमी हैं। जो ऐसे भगवान्की दोस्ती छोड़कर सांसारिक तुच्छ स्त्री और अपने शरीरका दास होकर उनमें प्रेम करता है, वही पशु है। समय बीता जा रहा है। जो भी कुछ सांसारिक वस्तुएँ देखनेमें आती हैं, सब नाशवान् हैं, ऐसा जानकर इनसे प्रेम छोड़कर सत्यस्वरूप भगवान्से ही प्रेम करना चाहिये। क्योंकि भगवान् तो केवल प्रेम ही चाहते हैं।

[ ४३ ]

आपका पत्र मिला । सासारिक व्यसन चाहे जितना प्रबल हो, कोई टरकी चात नहीं, यदि प्रेमपूर्वक निरन्तर नारायणके नामका जप होता रहे । रास्ता सुधरनेका इससे घट्कर और क्या उपाय है ?

भगवान्के गुणानुवाद ओर उनके प्रभावकी बातें सत्संगद्वारा सुननेकी चेष्टा करनी चाहिये । फिर पूर्वसस्कार चाहे जितने बलवान् हों, श्रीनारायण-नामके निरन्तर जपके प्रभावसे पूर्वके समस्त धुरे सस्कार नष्ट हो सकते हैं । परन्तु भजन हुए तिना कुछ भी उपाय नहीं है । भजन न होनेमें सत्संग, प्रेम और पुरुपार्थका अभाव ही प्रधान कारण समझा जाना हे । पुरुपार्थहीनका भगवान् भी उद्धार नहीं कर सकते । अद्यता नाशवान्, क्षणभगुर संसारकी सगति अधिक होनी

[ १०३ ]

होगी। इसके सिवा दूसरा कारण तो मेरी समझमें कुछ नहीं आता।

सत्संग तो सभी जगह प्राप्त हो सकता है, परन्तु होता है खोज करनेपर। प्रवल इच्छा हो और तदनुसार पुरुषार्थ किया जाय तो सत्संग अवश्य प्राप्त हो सकता है। अपने आप घर बैठे ही सत्संगका मिलना तो उत्तम प्रारब्ध होनेपर ही सम्भव है।

भगवान्में प्रेम हो जानेपर तो सांसारिक प्रेम अपने आप ही कम हो जाता है। सांसारिक प्रेमको हटानेके लिये कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। अन्तःकरण भगवान्के भजन, ध्यान और सत्संगसे शुद्ध हो सकता है। यदि भगवान्के नामका जप और स्वरूपका ध्यान निरन्तर प्रेमपूर्वक निष्काम भावसे और गुतरूपसे होता रहे तो, उसके अपने अन्तःकरणकी तो बात ही क्या, उस पुरुषके दर्शनमात्रसे दर्शन करनेवालोंके पाप नाश हो जाते हैं। अधिक क्या लिखा जाय !


कलियुगमें भजनके समान उत्तम साधन मेरी समझमें तो कुछ भी नहीं है। यदि आपको विश्वास हो तो यही चेष्टा करनी चाहिये कि जिससे निरन्तर केवल भजन ही हो। भजनके प्रतापसे ध्यान और प्रेम सब कुछ निष्कामभावसे आप ही हो सकते हैं। पूर्वमें जितने भक्त हो चुके हैं सब भजनके ही प्रतापसे हुए हैं।

तुमने लिखा कि कीर्तनम् विशेष प्रेम किस प्रकार हो—  
सो कीर्तन करनेसे ही कीर्तनमें प्रेम होता है और कीर्तन  
अधिक सत्संगसे होता है ।

व्यर्थके काममें भले ही चित्त चलायमान रहे, बुद्धि भी  
चाहे यराम रहे, परन्तु प्रेम और ध्यानसहित यदि नारायणके  
नामका जप निरन्तर होता रहे तो सारे दोषोंका नाश होकर  
सबं नारायण दर्शन दे सकते हैं । श्रीनारायण नों प्रेमके ही  
भ्रमीन हैं ।

तुमने लिखा कि मुझे कोई एक 'मन्त्र' घताइये । सो  
गायत्री-मन्त्रका तो स्नान आड़ि करके शुद्धतापूर्वक एक  
आसनसे ही जप करना चाहिये । मेरी समझमें जिनकी प्रभुके  
निराकाररूपमें भक्ति है उनके लिये 'ॐ' मन्त्रका जप उत्तम है ।

मन्त्र-जप करनेवाले विष्णुभक्तके लिये एकान्तमें 'ॐ' नमो  
भगवते वासुदेवाय' और सब समय 'राम' नामका जप उत्तम  
है । जिनकी भक्ति शिवजीमें हे उन पुरुषोंके लिये एकान्तमें  
'ॐ नम शिवाय' और सर्वकालम 'शिव' नामका जप उत्तम  
है । सब अवतारोंमें जिन पुरुषोंकी भक्ति हे उनके लिये 'हरे  
राम हरे राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण  
कृष्ण हरे हरे ॥' मठा-सर्वदा इस मन्त्रका जप उत्तमोत्तम  
समझा जाता है ।



[ ४५ ]

आपने भगवान्में मन लगानेका उपाय पूछा, सो जाना ।  
सत्संग एवं भजनका बहुत चेष्टाके साथ अभ्यास होनेपर  
भगवान्में मन लग सकता है । इसमें अभ्यास ही प्रधान उपाय  
है । वास्तवमें अभ्यास होनेसे जब अन्तःकरणका मल नाश हो  
106 ]

जाता है तब भगवान्‌में प्रेम होता है। जब भजनकी कीमत मालूम हो जाती है और भजनकी सवकी अपेक्षा बहुमूल्यता जान ली जाती है तब भजनको छोड़कर दूसरा काम होता नहीं, भगवान्‌से अतिरिक्त दूसरी जगह मन लगता नहीं। यदि संसारके काम होते हैं तो भजनके साथ ही होते हैं। भजन एक अमोलक वस्तु है, भजनके समान कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकारका विश्वास होनेपर भजन अधिक होने लगता है। इस प्रकारका विश्वास भी भगवान्‌की रूपा, सत्संग और भजन होनेसे ही होता है।

आपने लिखा कि आपकी और हमारी धात अलग-अलग नहीं है सो ऐसा प्रेम हो तो भी संसारका व्यवहार तो मर्यादा-के अनुसार ही होना चाहिये। प्रेम दूसरी चीज है, जहाँ लेन-देनके व्यवहारका प्रेम है वहाँ संसारका प्रेम है और जहाँ विशुद्ध भावसे भगवान्प्रियको लेकर प्रेम है वही असर्ली प्रेम है। आपने लिखा कि संसारका काम अच्छा लगता है सो भले ही लगता रहे, भजनको कीमती समझकर हर समय करते रहना चाहिये। विश्वासपूर्वक हर समय भगवान्‌को सरण रखनेको बहुत चेष्टा रखनी चाहिये। भगवान्‌का मर्म जान लेनेके बाद भगवान्‌के भजनके बराबर और कुछ नहीं मालूम होता, फिर तो विना चेष्टाके ही भजन हुआ करता है।

[ ४८ ]

समय वीता जा रहा है। जो समयको अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काममें नहीं वितायेगा। भगवत्-चिन्तनके विना जो किसी दूसरे काममें समय विताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान्‌के नाम और ध्यानमें आनन्दरूपी असृतका रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनन्दमयके ध्यानमें कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो वही प्रसन्नताके साथ अनायास ही होता रहता है। भगवान्‌की प्राप्तिके साधनमें कुछ कष्ट नहीं है, भूलसे कष्ट मालूम होता है, भगवान्‌की प्राप्तिका साधन तो बहुत ही सुलभ है।



[ ४९ ]

अब तुम्हारा भजन-ध्यान कैसा बनता है ? तुम्हें सावधान होकर एक पलक भी जहाँतक बन सके भजन-ध्यानके बिना नहीं जाने देना चाहिये । जबतक संसारमें आकर निरन्तर ध्यानका साधन नहीं किया, तथतक कुछ नहीं किया । जिसे संसारका चिन्तन करते समय मृत्यु मारेगी वह संसारमें चक्र लगाता फिरेगा और भगवान्‌के भजन-ध्यानमें जिसके प्राण जायेगे उसको भगवत्प्राप्ति होगी । इससे सब समय भगवान्‌के नामका जप और भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । कुछ भरोसा नहीं कि मृत्यु किस समय आ जाय ।

जो जीते ही श्रीभगवान्में युक्त है उनकी तो वात ही क्या है । वे तो जीवन्मुक्त हैं, उनके तो दर्शन ही लाभदायक है । ऐसे पुरुषोंना मिलना तो भगवान्‌की कृपासे ही होता है । उनसे मिलनेके बाद कुछ वाकी नहीं रह जाता । जिस दिन ऐसे पुरुष मिल जायेंगे उसी दिन उनके समान होनेमें कोई शङ्खा नहीं है । जबतक वैसा नहीं होता, तबतक उनका मिलना हुआ ही नहीं, साधारण मनुष्योंके साथ ही मुलाकात हुई ।



[ ५० ]


आपका पत्र मिला । पिछले पाप चाहे जिन्हें हैं, कोई  
चिन्ता नहीं । निरन्तर निष्कामभावसे भजन होना चाहिये ।  
फिर पिछले सब पाप भजनके प्रतापसे नाश हो सकते हैं—

जब ही नाम हृदय धरयो, भयो पापको नास ।

मानौ चिनगी अग्निकी, परि पुराने व्रास ॥

कलिजुग केवल नाम अवारा । सुमिरि सुमिरि भव उत्तरहु पारा ॥

कृपा-द्याकी वात नहीं लिखनी चाहिये । कृपा-द्या तो  
कृपासिन्धुकी सबके ऊपर वनी ही है । समय बीता जा रहा है,  
असली कमाईको नहीं छोड़ना चाहिये । शरीर, भोग तथा  
संसारको मिथ्या जानकर उनका आसरा छोड़कर श्रीनारायण-  
का आश्रय लेना चाहिये । संसारके काममें थोड़ा समय विताना  
चाहिये । पेट तो अपना पञ्च भी भरते ही हैं, उत्तम उसीको  
समझना चाहिये कि जो दूसरेके हितके लिये अपने प्राण भी  
देनेके लिये तैयार है । सभी लोग स्वार्थमें झूँवे पड़े हैं । चेतना  
चाहिये । मनुष्यके शरीरका असली फल प्राप्त करना चाहिये ।



३१२ ]

[ ५१ ] .

आपने लिया कि आयं, पीछे नामजपकी चेष्टा ज्यादा हो रही है सो नामजपकी चेष्टा ज्यादा रहनी ही चाहिये । आपने लिखा कि ध्यानके घास्ते जप बेठता हैं तब अनेकों प्रकार की फुरनाएँ होने लगती हैं सो थम्भा, भक्तिसहित नामका जप और मनसे संगुण भगवानका व्यान हो, इसकी चेष्टा करनी चाहिये, फिर कोई हर्ज नहीं । आपने लिया कि वैराग्यके लिये विवेक पूर्वक विचारका अभ्यास ज्यादा करनेकी चेष्टा करता हैं सो टीक है । यिचारसे भी वैराग्य होता है परन्तु भजन, ध्यान, मत्संग-

[ ११३ ]

का तीव्र अभ्यास करनेसे शीघ्र ही तीव्र वैराग्य हो सकता है। आपने लिखा कि फुरना ज्यादा रहनेके कारण मन स्थिर नहीं होता, जिससे ठीक-ठीक ध्यान नहीं हो पाता। एकमात्र नामजपके आधारसे ही रहता हूँ सो ठीक है। निरन्तर प्रेम-सहित एकमात्र नामके जपका आधार रहनेपर तो सब चाँते आप ही हो सकती हैं। केवल प्रेमसहित नामजपका अभ्यास होनेके लिये ही शास्त्र और सत्संगके अभ्यासकी चेष्टा करनी चाहिये। फिर कोई चिन्ता नहीं। ध्यान और वैराग्य उसके अधीन हैं।

जो कुछ हो उसीमें आनन्द मानना चाहिये। सब प्रभुकी दृष्टिके सामने होता है, उसमें अपने मनको मैला करना मालिक-का तिरस्कार करना है और मालिककी शरणमें कलंक लगाना है। सब कुछ मालिकका है, ऐसा समझना चाहिये। स्वामी अपनी वस्तुको चाहे जिस प्रकार बरते, सब उसीका है। मैं भी उल्लीका हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा मानकर हर समय आनन्दमें मग्न रहते हुए प्रेमसहित निरन्तर श्वासद्वारा नामका जप होता रहे ऐसी चेष्टा करनी चाहिये।

नामके जपके साथ-साथ भगवान्की मोहिनी मूर्ति याद आनेके लिये विशेष चेष्टा रखनी चाहिये। उसको अपने मनसे और नेत्रोंसे कभी न भूले, हर समय अपने सामने देखता हुआ प्रसन्नचित्तसे आनन्दमें ही मग्न होता रहे।



[ ५२ ]

चिट्ठी भेजी सो पहुँच गयी है। तुम भी तो मेरे मित्र ही हो, पर भाई ! वनसे तुम्हारी दृष्टि नहीं होती, तब क्या उपाय हो ? तुम्हारी भूखका कुछ पता नहीं लगता। तुम्हारे पास इतने स्पष्ट है कि तुम उनका व्याज भी नहीं खर्च कर सकते, फिर भी काम बढ़ाते जाते हो, यह दुखका मूल है। अधिक धन लेकर क्या करेंगे ? सब लोग वनको यहीं छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं जायगा। इसलिये जल्दी ही सचेत हो जानेकी आवश्यकता है। यदि तुम इस समय भी चार-छ' घटका समय भजनके लिये नहीं निकाल सकते तो पीछे ऐसा मौका कब मिलेगा ?

तुम्हारा यह लिपना कि 'आपकी नजर रहनेसे सब कुछ ठीक हो सकता है' केवल लिपनामात्र है। मैंने तो बहुत चार लिपा और कहा, पर तुम उसे ध्यानमें नहीं लाते तो मेरा म्यावश है ? मनुष्यकी 'नजर' किस काम आवेगी ? नजर तो केवल भगवान्‌की चाहिये और वह सबपर बहुत अच्छी है ही, परन्तु कोई इसपर ठीक ठीक विश्वास करे तब तो !

[ ११५

तुम सुन्ने अपना मालिक बनाते हो और अपनी देख-रेखका भार सुझपर सौंपते हो सो भाई ! इस प्रकार लिखने और कहने-मात्रसे कुछ भी काम नहीं बनेगा । यदि तुम मेरे भरोसे रहकर भजन नहीं करोगे तो सुन्ने तो इसका परिणाम पीछे पछताना ही नजर आता है । भजन ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है । सुन्नमें कोई सामर्थ्य नहीं है । यदि तुम संसारके दुःखरूपी जाल-से निकलकर सज्जे और पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति करके सदाके लिये सुखी होना चाहते हो तो मनसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान्‌के नाम-जप, ध्यान और सत्सङ्घमें सदाके लिये अपनेको लगा दो । यदि मनुष्य धरि-धरि संसारके सब विषयोंसे प्रेम करना छोड़कर एकमात्र आनन्दस्वरूप भगवान्‌की भक्तिमें लग जाय तो वेडा पार हो सकता है । यह बहुत बड़ी चिन्ताकी बात है कि तुम्हारे-सरीखा मित्र भी इन बातोंको सुनी-अनुसुनी कर दे ।

भगवान्में ऐसी लौ लगानी चाहिये कि शरीरकी सुधि भी न रहे । यदि सब समय एक-सी लगन लगी रहे तो उद्धार होना कौन बड़ी बात है ? भगवान् कहते हैं कि जो हर समय उनमें लौ लगाये रहता है, वह अन्तमें उन्हींमें समा जाता है—

जैसी लौ प्रथमहिं लगी तैसी ही रहि जाय ।  
जाके हिरदै लौ वसै सो मोहि माहिं समाय ॥

अतः आनन्दस्वरूपको छोड़कर तुम क्यों दुःखरूप संसारमें हर समय लौ लगाते हो ? यदि तुम्हें विश्वास है तो किस लिये मिथ्या रूपयोंमें मश्य हो रहे हो ? मश्य तो केवल भगवान्‌में होना

चाहिये और ऐसा होना चाहिये कि मन उन्हींके आनन्दमें रम जाय, उनके सिवा और कुछ भासे ही नहीं—

और सुरनि ब्रिसारि सब लो लगि रहै असग ।  
आप जाप कासे कहूँ मन रातो हरि रग ॥

तात्पर्य यह कि मनके आनन्दरूपमें रम जानिपर वह स्थ भी आनन्दरूप हो जाता है। फिर दुख तो स्वप्नमें भी नहीं भासता। जिस पुरुषका मन इस प्रकार भगवान्में रम जाता है, उसको अपना सारा कुदुम्ब और वन ब्रंडाट मालूम होने लगता है, फिर पीछे ब्रंडाट घढानेवाले कामकाज भी आप-से-आप कम होने लगते हैं।

रूपयोंमें प्रेम होनेसे रात-दिन रूपये पैदा हों, इस प्रकारकी चेष्टा तथा उसी विषयकी स्फुरणाएँ हुआ करती हैं, जो मनुष्य को चेन नहीं लेने देतीं। इसी प्रकार भगवान्में प्रेम होनेसे ओर वे किस प्रकार मिलें, इसी विषयका चिन्तन होनेसे भगवान्की ही स्फुरणा होने लगती है। सो इसका विशेष व्यान रखना चाहिये।

भजनका अभ्यास दूर समय करते रहना चाहिये, चाहे इससे कोई नाराज ही र्यों न हो। नहीं तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कोई दूसरा काम नहीं आवेगा। यह सारा भमार पक दिन भम्म हो जानेवाला है—

हाड जे ज्यो लाकड़ी कम जरूर ज्यो धाम ।  
मन नग नग्ना देखि को भगो कर्त्तार उठाम ॥

## परमार्थ-पत्राचली

एक दिन सदका यहीं हाल होगा । काल, अपने आगमन-की किसीको सूचना नहीं देते, वे तो प्रतिक्षण मुँह धाये खड़े हैं । भगवान्‌ने आठ पहर चाँसठ बड़ी हमें रूपये कमाने और पेट भरनेके लिये नहीं भेजा है, चाँसासी लाल योनियोंके भोगोंको भोगनेके उपरान्त बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्य-शरीर हमें मिला है । अतः मनुष्यजन्मका वास्तविक उद्देश्य समझकर जगत्‌के मिथ्या प्रपञ्चोंको छोड़ देना चाहिये और उस उद्देश्यकी सिद्धिमें श्राणपणसे लग जाना चाहिये—

जीवन मरन विचारि कै कोरे काम निवार ।  
जिन पंथा तोहि चालना सोई पंथ सँभार ॥

इसलिये भाई ! यदि तुमसे भगवान्‌के भजनका पुरुषार्थ नहीं हो सका तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा । अन्तसमयमें भगवान्‌के सिवा कोई दूसरा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा । संसारके दुःखरूपी समुद्रमें झूब रहे हो, यदि इससे उद्धार पाना है तो भगवान्‌को भजो । फुरसत न मिलनेका वहाना न करो । यहाँ किसीको फुरसत नहीं मिलती, परन्तु मरनेके समय सदको फुरसत मिल जाती है । समय बहुत तेजीसे बीतता चला जा रहा है, सृत्यु नजदीक है, उसे कोई एक पलके लिये भी नहीं ठाल सकता । केवल भजन ही सहारा है । इसलिये तन-मनसे भजन करनेमें लग जाओ ।

[ ५३ ]

आपने मन को स्थिर करनेका उपाय पूँजा सो टीक है । भगवान्‌के नामका जप, ध्यान और सत्सङ्ग आदि करनेसे तथा संसारके पेशा-आराम, स्वाद और शोकीनीसे वैराग्यका अभ्यास करनेसे मन स्थिर हो सकता है । कुछ उपाय नीचे लिखे जाते हैं—

१-मन जहौँ-जहौँ जाय, वहौँ-वहौँ भगवान्‌के स्वरूप-चिन्नका अभ्यास करना चाहिये ।

२-अथवा मन जहौँ-जहौँ जाय, वहौँ-वहौँमे गाँचकर भगवान्‌के स्वरूपमें लगाना चाहिये ।

[ ११९ ]

## परमार्थ-पत्रावली

३-सत्सङ्गकी बातोंको बहुत उत्तम और अनमोल समझकर मनको उन्हींमें लगाना चाहिये ।


४-भगवान्‌के नामका जप मुँहसे या श्वासछारा लगातार करनेका अभ्यास करना चाहिये ।

५-संसारमें जितनी भी वस्तुएँ दीखती हैं, सब नाशवान् हैं। इस प्रकारकी धारणा करनेसे भी वैराग्य होकर मन स्थिर हो सकता है ।

६-संसार और शरीर सब क्षणभंगुर है; भोग सभी रोगरूप हैं तथा अन्तमें ग्लानि तथा दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं। इस प्रकार समझनेसे भी जगत्‌से वैराग्य होकर मन स्थिर हो सकता है ।

७-अथवा अपनी जो सबसे प्यारी वस्तु हो; उसमें भगवान्‌की भावना करके मनको स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये ।

और भी कई प्रकारके उपाय हो सकते हैं। इनमेंसे एक उपाय भी अच्छी प्रकार कर लिया जाय तो मन स्थिर हो सकता है और भगवान्‌के भी दर्शन हो सकते हैं। इसलिये किसी-न-किसी उपायका अवलम्बन अवश्य करना चाहिये। जो मनुष्य-शरीर पाकर अपना एक पल भी व्यर्थके काममें विताता है। वह अपने बहुमूल्य रत्नको धूलमें मिला देता है।



[ ५४ ]

मनुष्यको प्रतिक्षण भगवान्‌का भजन-ध्यान करना चाहिये ।  
प्रत्येक समय ध्यानपूर्वक नाम-जप करना ही सार है ।

ग ग ग बोले रामजी रोम रोम रकार ।  
महजे ही धुनि होत ह मोई सुमिरन मार ॥

इस प्रकारका सरण हृदयमें हर समय होता है । यदि उसमें मन लगा रहे तो फिर आनन्द-ही-आनन्द है । तथा हृदयमें विना ही जपे जाप हो रहा है, उसमें मन लग जाय तो फिर ऊँचा फहना है । भीतर जप तो हो ही रहा है उसकी ओर ध्यान रखना चाहिये ।

अजपा सुमिरन घट विष ढीना सिरजनहार ।  
ताही मों मन लगि रहा कहे कीर विचार ॥

निष्कामभावसे जितना ही अधिक ध्यान और जप हो,  
उनना ही अधिक करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । यही असली राम है ।



[ ५५ ]

[ ७५ ]

आपने पूछा कि हर समय प्रेमका आविर्भाव किस प्रकार हुआ रहे सो ठीक है। भगवान्‌के गुण, प्रभाव, नाम एवं स्वरूपके सरणसे ऐसा हो सकता है। यहीं नहीं, बहुत अधिक अभ्यास होनेसे तो निरन्तर प्रेम रह सकता है। किसी वस्तुका आविर्भाव तो उसके पूर्वकालमें तिरोभाव होनेपर ही होता है सो प्रेमका तिरोभाव होने ही क्यों दिया जाय? जो प्रेम निरन्तर बना रहता है, उसीकी महिमा है। अतः प्रेमको अक्षुण्ण बनाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये।

आपने लिखा कि जिस प्रेमसे स्वयं श्रीभगवान् ही सेतरूपमें दर्शन दें, वह प्रेम किस प्रकार हो सो ऐसा प्रेम ध्यान- १२२.]

सहित भगवन्नाम-जप तथा सत्सगके तीव्र अभ्याससे हो सकता है। पिश्चासपूर्वक चेष्टा करनेसे ही अभ्यास बढ़ता है। अपनेमें पुरुषार्थकी न्यूनताका अनुमान करके निराश नहीं होना चाहिये। यद्युक्त उसके परायण होकर उसके लिये पूरी चेष्टा करनी चाहिये। सच्चिदानन्दघन भगवान्‌का ध्यान निरन्तर यना रहे, इस प्रकारकी कामना भले ही रहे, कोई हर्ज नहीं। इस तरहको इच्छा तो साधन बढ़ानेमें हेतु है। जबतक निरन्तर साधन नहीं होने लगता, तबतक इस प्रकारकी उत्कण्ठा अवश्य रहनी चाहिये। प्रेमसहित भगवान्‌के ध्यानकी तीव्र लालसाका नाम ही उत्कण्ठा है। भगवान्में प्रेम और संसारसे तीव्र घेराय होनेके बाद तो विना चेष्टा किये ही भगवान्‌के ध्यानमें निरन्तर स्थिति रहती है। परन्तु प्रेम और घेरायके लिये सत्संग और भजनकी तीव्र चेष्टा ही उपाय है।

जितना समय ऊपर लिये हुए साधनोंके करनेमें घीतता है, वही सर्वोत्तम है। संसारके कामोंमें मन लगाकर विताये हुए समयको तो धृलमें गया समझना चाहिये। और ऐसा समझनेसे ही साधनमें उत्तेजना हो सकती है। माधनके लिये उत्तेजना होना ही साधनमें चृद्धिका हेतु है। भगवान् सच्चिदानन्दरूपसे सर्वत्र पूर्ण हो रहे हैं, परन्तु ऐसा पिश्चास न होनेके कारण ही वे प्राप्त होकर भी अप्राप्त-से दीयते हैं। पिश्चास न होनेका कारण अनादिकालीन अविद्या ही है।

किसी समय सत्सग, भजन और ध्यानके प्रतापसे श्रीभगवान्‌के सच्चिदानन्दरूपकी अणिक प्रतीति हो जानेपर

## परमार्थ-पत्रावली

भी फिर भूल जानेका कारण पूछा सो इसका कारण पहलेका असत् अभ्यास और विश्वासकि ही है। उसको सुधारनेके लिये भजन, ध्यान और सत्संगका तीव्र अभ्यास करना चाहिये। तभी संसारकी आसक्ति और रमणीयताकी अनुभूति क्षीण हो सकती है।

भगवान्‌में मन लगानेका उपाय पूछा सो प्रेम होनेसे ही मन लग सकता है। प्रेम उत्पन्न होनेके लिये सबसे प्रथम अद्वा-विश्वासपूर्वक भजन और सत्संगकी चेष्टा करनी चाहिये। चेष्टाकी वृद्धि होनेपर मन अपने आप ही रम सकता है।

भगवान्‌का भजन-ध्यान करते हुए संसारका काम करनेमें भूल हो जानेकी बात आपने लिखी सोठीक है। वहुत सावधानी-से भजन-ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। काम भले ही थोड़ा हो। जबतक परिपक्व साधन निरन्तर नहीं होने लगता तबतक भूलें होती ही हैं। साधन तेज करनेका उपाय भजन-सत्संगकी तीव्र उत्कण्ठा ही है।

जिस प्रेमके आगे प्राणोंका मूल्य कुछ भी नहीं है, उसके मर्मको जाननेका आपने उपाय पूछा सो वैसा प्रेम उत्पन्न होनेसे ही उसका मर्म जाना जा सकता है। प्रेमकी उत्कण्ठा रखनेसे ही प्रेमकी वृद्धि होती है। पहले तो विश्वासके आधारपर ही प्रेम करना पड़ता है, पीछे जैसे-जैसे मर्म जाना जाता है, वैसे-वैसे प्रेम बढ़ता जाता है।

[ ५६ ]

श्रीनारायणदेव और उनके भक्तोंके वही चोज काममें आ सकती है, जिसमें किसीका ममत्य न हो । जबतक किसी चोजपर किसीका ममत्य घना रहता है, तबतक वह भगवान्‌के अर्पण नहीं हो सकती । जब संसारका एक साधारण सत्पुरुष भी किसी दूसरेको वस्तुको काममें नहीं लाता, तब भगवान् किस तरह काममें ला सकते हैं ? यद्यपि सब कुछ भगवान्‌ही है,

[ १२७ ]

परन्तु जवतक मनुष्य किसी वस्तुपरसे अपना अधिकार हटा नहीं लेता तबतक श्रीनारायणदेव उसे स्वीकार नहीं करते।

जैसे कभी किसी भले आदर्माके घरमें कोई पक्षी अंडा दे देता है तो जवतक अंडा छोड़कर उसके बच्चे उड़ नहीं जाते एवं जवतक वह पक्षी उस घोंसलेसे अपना सम्बन्ध रखता है, तबतक वह भला आदर्मा उस जगहपर अपना अधिकार नहीं जमाता। यद्यपि वह लोकदृष्टिमें सब प्रकारसे अपने उस मकानका मालिक है, उसका मकानपर पूरा अधिकार है, फिर भी वह उस स्थानको अपने अधिकारमें नहीं लेता।

इस प्रकार जब एक साधारण दयालु पुरुष भी दूसरेके अधिकारमें गयी हुई अपनी वस्तुको अपने अधिकारमें नहीं लेता, तब श्रीनारायणदेव और उनके मर्मको जानेवाले उनके प्रेमी भक्त कवि ऐसी किसी वस्तुको अपने उपयोग एवं अधिकारमें ले सकते हैं ? अर्थात् कभी नहीं ले सकते। जब उस पक्षीके बच्चे उड़ जाते हैं तथा वह पक्षी भी उस घोंसलेको छोड़कर चला जाता है, तब मकानमालिक उस जगहको काममें लेता है। पक्षीके उड़ जानेपर मकानमालिक चाहे तो उसके घोंसलेकी लकड़ियोंको भी काममें ला सकता है, क्योंकि अब उस पक्षीका उस घर और घोंसलेमें ममत्वभाव नहीं रह गया। चाहे घरका मालिक अब उस घोंसलेमें आग ही क्यों न लगा दे, उस पक्षीको उसके ऐसा करनेसे कोई सुख-दुःख नहीं होगा। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य ममता छोड़कर भगवान्की किसी वस्तुको

भगवान्‌के अर्पण कर देता है, तब श्रीनारायणदेव वहुत हर्षके साथ उस वस्तुको अपने काममें ले लेते हैं।

भगवान्‌के भक्तोंमी भी ऐसी ही जात है, ज्योंकि भक्त तो अपने मालिकके अनुसार ही चलते हैं। जो स्वामीकी आवाज़ और रुचिके अनुसार चले, वही तो भक्त है। ऐसे ही भक्तोंके लिये श्रीनारायणदेव अपना सर्वस्य अर्पण कर देते हैं जैसा कि श्रीगीतार्जीके अव्याय ४, श्लोक ११ में लिखा है। जो भक्त अपना सर्वस्य भगवान्‌के अर्पण कर देता है, श्रीनारायणदेव भी अपना सर्वस्य उसके अर्पण कर देते हैं। फिर भी भक्तको यह भाव कदापि नहीं रखना चाहिये कि अपना सब कुछ दे देनेपर श्रीनारायणदेवका सब कुछ मुझे मिल जायगा। ऐसा भाव रखनेवाला श्रीनारायणदेवका निष्कामी अतिप्रिय भक्त नहीं समझा जाता। उसे तो यही भाव रखना चाहिये कि श्रीनारायणदेवका सर्वस्य में नहीं चाहता। मेरी तो यही प्रार्थना है कि श्रीनारायणदेव मुझको तथा अपनी सब वस्तुओंको अपनालैं, इसके अतिरिक्त मैं उनसे मुक्ति भी नहीं माँगता। इसपर यदि कोई कहे कि किसलिये तुम ऐसी प्रार्थना करते हो, तो उसका उत्तर यही है कि केवल प्रेमके लिये। इसपर भी कोई पूछे कि प्रेम किसलिये चाहते हो तो उसका उत्तर भी यही होना चाहिये कि प्रेमके लिये ही प्रेम चाहता है, और किसी वस्तुके लिये नहीं।



[ ५७ ]

आपने भजन-सत्सङ्गके पुरुषार्थकी न्यूनता लिखी, सो उसका कारण समझना चाहिये। भगवान् और शास्त्रोंमें विश्वास होनेसे तथा भजन-सत्सङ्गको सर्वोच्चम समझनेसे ही भगवत्-प्राप्तिके पुरुषार्थकी वृद्धि होती है। आपने लिखा कि भीतरके सङ्कल्प बहुत उठते हैं—इतने उठते हैं कि उनका कुछ ठिकाना १२८ ]

नहीं, सो ठीक है। सङ्कल्पके त्यागसे ही सङ्कल्पका नाश हो सकता है। जो कुछ सङ्कल्प उठे उसको मिथ्या जानकर उसका तिरस्कार कर देना चाहिये अर्थात् व्यर्थ समझकर उसे छोड़ देना चाहिये। संसारको ओरसे हर समय वेपरवा रहना चाहिये। संसारके सङ्कल्प अर्थात् चिन्तनको प्रतिक्षण भुलानेकी चेष्टा करनी चाहिये और आनन्दमूर्ति भगवान्‌के द्विव्य स्वरूपको चिच्चमें जमाये रहना चाहिये। इससे सङ्कल्पोंका नाश तो होगा ही, भगवान्‌की स्मृति भी सदा बनी रहेगी, जो भगवत्प्रातिका प्रधान साथन है।

आपने पहले लिखा था कि 'आपकी चिढ़ी पढ़कर आनन्द तो बहुत हुआ, किन्तु आपकी लिग्यो वातें मुझे लगी' नहीं।' सो ठीक है। परन्तु आपको मेरी वातोंसे आनन्द हुआ, यह भी केसे समझा जाय? सब्बा आनन्द तो उसीको समझना चाहिये जो किसी वातको धारण करनेसे होता है। आपने आनन्दको वात लियी, सो आपकी कृपा है। धारण भी उन्हींभी वात होगी, जिनकी आशाओंको कोई दाल नहीं सकता। मैं तो आपकी कृपा और प्रेमके कारण जो मनमे आता है, लिय डेता हूँ और इसीलिये आपको मेरी वातोंसे आनन्द भी आता है। यदि आपकी प्रीति न होती तो आपको मेरा पत्र पढ़नेसे आनन्द ही नहीं आता।

आप जिस कामके लिये आये हैं, उसे जल्दी पूरा करना चाहिये। समय चीता जा रहा है। जो समय भगवान्‌के ज्यानमें,

नाम-जपमें तथा सत्सङ्गमें वीतता है, वही रहता है। जो समय संसारके कामोंमें जाता है, वह व्यर्थ वीत जाता है। आपको एक पल भी संसारके मिथ्या कामोंमें नहीं लगाना चाहिये। यदि संसारका काम शरीरसे करना ही पड़े तो भगवान्‌के नामका जप और स्वरूपका ध्यान करते हुए ही करना चाहिये। प्रतिदिन ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिये और चेष्टा भी बहुत जोरकी होनी चाहिये। आजतक जितनी चेष्टा की, उससे बहुत अधिक चेष्टा करनी चाहिये। ऐसी आदत डाल लेनी चाहिये कि भगवान्‌के ध्यानके विना एक पल भी न रहा जाय तथा उसके अतिरिक्त और कोई बात अच्छी न लगे। आँख और कान भगवान्‌की ही बात देखें-सुनें, मन भगवान्‌के भजन, ध्यान और सत्सङ्गमें ही रमा रहे-तथा संसारके अन्य सब कायाँसे विरक्ति हो जाय—ऐसी चेष्टा बराबर करते रहना चाहिये। भय, सङ्कोच, मान और बड़ाई, सब कुछ छोड़कर एकमात्र ध्यानसहित नारायणके नामकी ही शरण लेनी चाहिये। वही आपका है। वाकी सब तो मिथ्या है, कलिपत है, स्वप्नवत् है। ध्यान ऐसा होना चाहिये कि शरीरका भी ज्ञान न रहे। आपको एकान्तमें निरन्तर साधन करनेके लिये पर्याप्त समय मिलता है या नहीं? मेरे एक मित्र तो कहते थे कि उन्हें कलकत्तेमें भी करीब १४ घण्टे एकान्तमें साधनके लिये मिल जाते हैं।



भगवान्‌की स्मृतिमें भूलें अधिक होती हैं, इसका उपाय तो तीव्र अभ्यास की चेष्टा ही है। और भगवान्‌में प्रेम बढ़ाने का उपाय पूछा, सो भगवान्‌के गुणानुग्राद को चौचने, सुनने, कहने और उसके लक्षण, आशय, प्रभावकी ओर लक्ष्य करनेसे भगवान्‌में प्रेम-भाव बढ़ सकता है। भजन-ध्यान और सत्सङ्ग-का तीव्र अभ्यास करनेसे भी भगवान्‌में प्रेम बढ़ सकता है।

भजन-सत्सङ्ग अधिक हो, इसके लिये तीव्र इच्छाकी ही आवश्यकता है। किसी वस्तुको पानेकी तीव्र इच्छा होती है, तो उसके लिये प्रयत्न और चेष्टा न्यामाविक ही अधिक होती है।

जिसको रूपयोंकी आवश्यकता होती है, वह रूपयोंका ही चिन्तन और रूपयोंके लिये ही तन मनसे चेष्टा एवं प्रयत्न करता है। उसके मनमें हर समय प्राय इसी वातकी चिन्ता रहती है कि रूपये किस प्रकार पैदा हों। वह रूपया पैदा करने-के विचारमें अपने तन-मनको अर्पण कर देता है। इसी प्रकार जिनको भगवान्‌से मिलनेकी इच्छा होती है उनके मन-बुद्धि ऊपर लिये अनुसार भगवान्‌को अर्पित हो जाते हैं।

कोई आदमी अधिक धीमार होता है ओर वैद्य कहता है कि अमुक वस्तुके प्रयोगसे रोगी बच सकता है, तथ उस वस्तुके लिये जैसी चेष्टा होती है, वैसी ही चेष्टा भजन और सत्सङ्गके लिये होनी चाहिये। तीव्र इच्छा

होनेसे ही तीव्र चेष्टा होती है और तीव्र चेष्टा होनेसे ही वस्तु का शास्ति होती है। संसारकी मिथ्या वस्तुएँ तो चेष्टा करनेपर भी शायद न मिले और मिल जानेपर भी उनसे रोगीको लाभ हो या न हो; परन्तु भजन और सत्सङ्गके लिये जो चेष्टा की जाती है, वह अवश्य सफल होती है। भजन-सत्सङ्गरूपी औपधक्ता लगातार बहुत दिनोंतक सेवन करनेसे जन्म-मरण-रूपी वीमारीका अवश्य नाश होता है। सत्की चेष्टा कभी व्यर्थ नहीं जाती।

जपमें भूल होनेकी बात लिखी, सो जपका अधिक अभ्यास करनेसे ही जपकी भूल मिटती है। प्रेमके विना भी प्रसन्न मनसे जपका अभ्यास करते रहनेसे आगे चलकर प्रेम-सहित जप भी हो सकता है। जप जिस समय निरन्तर होने लगता है, उस समय प्रेमसहित ही होता है। वैराग्य होनेसे भी विना चेष्टा किये ही जप और ध्यान निरन्तर होने लगते हैं और भजन, ध्यान, सत्सङ्गसे वैराग्य भी होता है। भगवत्की स्मृति हर समय बनी रहे, ऐसी इच्छा भी भगवान्के निरन्तर चिन्तनमें हेतु है। जप करते समय ध्यानको चलाकारसे बढ़ानेका अभ्यास करना चाहिये। वैसा अभ्यास करनेसे जपके साथ ध्यानकी वृद्धि और संसारकी वासनाका क्षय हो सकता है।

सत्ता और आसक्तिसे रहित स्फुरणा हो तो कोई हर्जकी बात नहीं है। संसारकी सत्ता और उसके प्रति आसक्तिके नाशके उपाय जप, ध्यान और सत्सङ्ग हैं, अतः उसके लिये तीव्र अभ्यासकी आवश्यकता है। भगवान्के नामकी याद हर १३२ ]

समय बनी रहनी चाहिये। ऐसा अभ्यास होनेपर आगे चल-  
कर संसारसे वैराग्य तथा भगवान्‌के स्वरूपमें स्थिति भी हो  
सकती है।

श्रीपरमात्मदेवकी कृपा तो सदा सघपर है ही, जो ऐसा  
निश्चय कर लेता है, वही भगवान्‌की कृपाका पात्र है। उसको  
भगवान् शीघ्र ही मिल जाते हैं। न्यौंकि भगवान्‌के चिना मिले  
उसको चैन ही नहीं पढ़ती। संसार और शरीरको मिथ्या  
तथा नाशवान् देखनेसे और सर्वव्यापी परमात्माको आनन्द-  
स्वरूप देखनेसे भी वैराग्य हो सकता है। संसारसे यदि  
वैराग्य हो जाय तो ससारका चिन्तन कम हो सकता है और  
संसारको मिथ्या, कल्पित तथा दुखरूप देखनेसे संसारके  
प्रति वैराग्य हो सकता है।

प्रेमका उपाय लिखा ही जा चुका है। भगवान्‌के स्वरूप-  
का चिन्तन, भगवन्नामका जप तथा सत्सङ्घ ही प्रेम उत्पन्न  
करनेके उपाय हैं। जपके लिये जितनी ही अधिक चेष्टा होगी,  
उतना ही अधिक वह हमसे धन पढ़ेगा।

जो आदमी भगवान्‌को सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, दयासिन्धु  
तथा चिना ही कारण हित करनेवाला जानता है, वह कभी  
उनसे किसी वातके लिये प्रार्थना नहीं करेगा। यदि प्रार्थना  
करेगा भी तो केवल प्रेमभावसहित उनके निरन्तर चिन्तनके  
लिये ही करेगा।

दूर समय नाम-स्मरणका अभ्यास हो जानेपर पीछे चहुत  
समयतक ध्यानकी स्थिति भी रह सकती है। भगवान्‌को याद

## परमार्थ-पत्रावली

रखते हुए ही संसारका काम हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। संसारके कामोंसे भजन-ध्यान बहुत ही उत्तम और अनमोल है इसलिये संसारके कामोंमें चाहे जितना हर्ज हो जाय, किन्तु संसारके कामोंके लिये भजन-ध्यानमें हर्ज नहीं करना चाहिये। ऐसी पक्की धारणा हो जानेपर संसारका काम करते हुए भी भजन-ध्यान हो सकता है। संसारके काम नदीके प्रवाहके समान हैं। इसमें पड़कर जो पुरुष भगवान्के चरणरूपी नौकाको ध्यानद्वारा पकड़ लेता है अथवा भगवान्के नामरूपी नौकाके रस्सेको पकड़ लेता है, वही इसमें झुकनेसे बच सकता है; पर जो नदीके प्रवाहमें वह जाता है, उसकी बहुत दुर्दशा होती है।

दिन चीते जा रहे हैं, आपको मनमें विचारना चाहिये—  
‘मैंने इस संसारमें आकर क्या किया? इसी प्रकार यदि और समय भी चीत गया तो जल्दी कैसे काम बनेगा? समयको अनमोल समझकर अनमोल काममें ही लगाना चाहिये। मरनेके बाद संसारके रूपये और भोग किस काम आवेगे? असली वस्तु तो वही है, जो भगवान्से अधिकाधिक प्रेम करावे। सोनेके और पत्थरके पहाड़ोंमें क्या अन्तर है? शरीर भी मिट्टीमें मिल जानेवाला है। ऐसा जानकर इस शरीरसे पूर्ण लाभ उठाना चाहिये। भगवान्के भजन-ध्यानके बिना एक पल भी क्यों जाय? अतः एक-एक पलका हिसाब रखते हुए उसे भजन-ध्यानमें लगाना चाहिये।



[ ५९ ]

आपका पत्र यथासमय मिल गया था किन्तु समय न मिलनेके कारण उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ तदर्थ क्षमा करें।

गीता अध्याय ८ श्लोक २३ से २५ का उत्तर विस्तारपूर्वक तो कभी आपसे भेट होनेपर ही दिया जा सकता है किन्तु संश्लेषणमें लिखता हूँ।

(१) निष्काम कर्मयोगी चाहे जिस देश-कालमें मृत्युको प्राप्त हो, उसका पुनरागमन नहीं होता । यहाँ रात्रि, ठृष्णपक्ष, दक्षिणायन आदि शब्द कालके वाचक नहीं हैं, यल्कि उस मार्गके अभिमानीदेवताओंके वाचक हैं, क्योंकि गीता ८ । २७ में इसी प्रकरणमें 'सृति' शब्द मार्गका वाचक आया है । यदि रात्रि आदिको काल-वाचक शब्द ले लें तो २४ वें श्लोकमें अग्नि, ज्योति और २५ वें श्लोकमें धूम शब्द कालके वाचक नहीं हो सकते । घट अग्नि', ज्योति., अह आदि देवताओंके द्वारा परमधारको पहुँचाया जाकर मुक्त हो जाता है ।

[ २३५

## परमार्थ-पत्रावलो

(२) क-आवागमनसे छुटनेवाले योगीके लक्षण—योगसार्गके दो भेद हैं, एक भक्तिप्रधान कर्मयोग, दूसरा कर्मप्रधान कर्मयोग । भगवत्-प्राप्त कर्मप्रधान कर्मयोगीके लक्षण गीता २ । ५५ से ७२ तक और भक्तिप्रधान कर्मयोगीके लक्षण गीता १२ । १३ से १८ तक देखना चाहिये ।

ख-आवागमनसे छुड़ानेवाले साधनस्त्रप योगके लक्षण—कर्मप्रधान कर्मयोगके लक्षण गीता २ । ४५ से ५८ तक और भक्तिप्रधान कर्मयोगके लक्षण गीता ८ । ७ से १० तक, १२ । ६ से १० तक और १८ । ५६ से ६६ तक विस्तार पूर्वक देख सकते हैं । जब यह अवस्था परिपक्ष हो जाती है, तब गीता १६ । १ से ३ में जो दैवी सम्पदके लक्षण लिखे हैं वे उसमें आकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

ग-संसारमें पुनरागमन प्राप्त होनेवाले योग और योगीके लक्षण—

ऐसे योग और योगीके लक्षण गीता २ । ४२ से ४४ तक, ७ । २० से २३ तक, ८ । २५ और ९ । २०-२१ में देखना चाहिये ।

(३) दोनों मार्गोंके जाननेवाले योगीके लक्षण और गति—दोनों मार्गोंको जाननेवाला योगी वही है जो दोनोंमेंसे श्रेष्ठ एक अपुनरागमनके मार्गमें चलता है । उसके लक्षण ८ । २० से २२ तक और गतिका प्रकरण गीता ८ । २३ से २८ तकमें देखना चाहिये ।

(४) योग और योगीका स्वरूप--

फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार भगवत्-प्राप्तिके लिये यज्ञ, दान, तप और सेवादि कर्म एवं जप, ध्यान, पूजादि उपासनारूप कर्मोंका करना कर्मयोगका स्वरूप है और ये कर्म जिसमें हीं वह कर्मयोगी है ।


(५) योग, भक्ति, ज्ञान आदि किसी भी मार्गसे भगवत्प्राप्त पुरुषका, भगवत्प्राप्ति (कल्याण) होनेके उत्तर कालमें अर्थात् जीवन्मुक्त होनेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता, चाहे वह किसी भी देश और कालमें मरे, स्थांकि देश और कालादिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता ।

(६) सकाम कर्म और सकाम उपासना करनेवाला पुनरागमनको प्राप्त होता है । निष्काम कर्म और उपासना करनेवाला पुनरागमनको प्राप्त नहीं होता । गीता ५ । १२ । यदि अन्त समयमें उसका चित्त योग, ज्ञान या भक्तिके साधनसे विचलित हो जाता है तो वह योगभ्रष्ट होनेके कारण पुनरागमनको प्राप्त होता है, किन्तु पुन जन्मान्तरमें उसी साधनमें तत्पर होकर परम पदको प्राप्त हो जाता है । यही भगवान्का आशय प्रतीत होता है । गीता ६ । ४० से ४१ तकका अर्थ देखना चाहिये ।



[ ६० ]

तुमने लिखा 'मेरा चित्त वहुत व्याकुल है। दशा वहुत खराब है। ऐसी दशा कभी नहीं हुई। आगे क्या दशा होगी कुछ समझमें नहीं आता।' सो भैया! जो हुआ सो तो हो चुका। अब तो चेतना चाहिये। अब तो तुम इस बातको भलीभाँति जान ही गये कि सत्संगके बिना भजन-ध्यान होना कठिन है और भजन-ध्यान हुए बिना दशा बिगड़ जाती है। अतएव अब तुम्हें भजन-ध्यान-सत्संगके लिये ही चेष्टा करनी चाहिये। सत्शास्त्रोंका स्वाध्याय भी एक तरहसे सत्संग ही है। अतएव जबतक सत्संगकी व्यवस्था न हो तबतक सद्ग्रन्थोंका अभ्यास करना चाहिये।



[ ६१ ]

भाई ! तुमको जिस कामके लिये मनुष्यशरीर मिला है उसको इस तरह भुलाना नहीं चाहिये । प्रथम तो मनुष्यका जन्म ही वहुत कठिन है, फिर द्विजवर्ण तथा माता, पिता, भाई, स्त्री, बच्चे और व्यापार आदि सबका मनके अनुकूल होना तो बड़े ही भाग्यकी बात है । आवश्यकतानुसार घरन्मकान तथा रूपये भी हैं । इस समय भी तुम आत्माके उद्धारका उपाय नहीं करोगे तो फिर क्य करोगे ? इस प्रकारकी अनुकूल व्यवस्था सदा नहीं रहेगी । इसलिये जघतक मृत्यु दूर है, शरीर आरोग्य है और सब व्यवस्थाएँ भी ठीक हैं, तभीतक जो कुछ उत्तम कर्म करना हो, वहुत शीघ्रतासे कर लेना चाहिये जिससे पीछे पछताना न पड़े । उपर्युक्त व्यवस्थामें दो-चार बातें कमज्यादा हो जायें, अनुकूल न रहें, तो कोई हर्ज नहीं, परन्तु अब गाफिल नहीं रहना चाहिये । अब तुम सासारिक विषयोंमें किस बातकी और अनुकूलता चाहते हो ? तुम्हें ऐसी किस चीजकी कमी है, जिसकी पूर्ति करके तुम अपने कल्याणके लिये चेष्टा करोगे ? संसारमें एक थार्थगवान्‌को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं है । माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, मकान, धन सभी नाशगवान् हैं । इनका सङ्ग वहुत ही थोड़े दिनोंका है । इनमेंसे कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जायगा । और तो क्या, तुम्हारा यह शरीर भी यहीं रह जायगा ।

[ १३९ ]

[ ६३ ]

समय बीता जा रहा है । गया हुआ समय फिर हाथ  
नहीं आता । इसलिये जबतक स्वास्थ्य ठोक है, मृत्यु दूर है,  
तभीतक जो कुछ करना है सो कर लेना चाहिये । जिससे पीछे  
पश्चात्ताप न करना पड़े । संसारकी दृष्टिसे इस समय तुम्हारे  
१४४ ]

सब कुछ ठीक है। इससे अधिक ठीक और प्या होनेवाला है? इस समय भी तुम न चेतोगे तो फिर क्या चेतोगे? एक भगवान्‌को छोड़फर तुम्हारा और कोई भी नहीं है। अतएव उस परमप्रेमी भगवान्‌को एक क्षणके लिये भी नहीं भूलना चाहिये। तब, धन आदि कोई भी वस्तु साथ नहीं जायगी। इन सबको देकर बदलेमें साथ जानेवाली वस्तुको उरीद लेना चाहिये। यानी शरीरको भगवान्‌के भजन, ध्यान, सेवा, सत्संगमें लगाना चाहिये। रूपयोंको परोपकारमें लगाना चाहिये। रूपयोंसे जब अधिकार छिन जायगा तब पछतानेसे कुछ भी काम नहीं होगा। मनुष्यजन्मको सफल धनाना ही मनुष्यत्व है। मनुष्यजन्ममें ही आत्माका सुधार और उद्धार हो सकता है। अन्य किसी भी योनिमें नहीं हो सकता। इस प्रकार समझकर अपना उद्धार शीघ्र हो जाय इसके लिये कटियद्व द्वारा प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। समयको अमूल्य समझकर अमूल्य काममें ही उसे लगानेकी चेष्टा रखनी चाहिये। और कुछ न बन सके तो हर समय ध्यानसहित श्रीभगवान्‌के नामका निष्काम प्रेम-भावसे निरन्तर जप करनेके लिये तो अवश्य ही विशेष चेष्टा करनी चाहिये। नामजपके प्रतापसे, भगवत्कृपासे यहुत जल्दी आत्माका सुधार और उद्धार हो सकता है।

प्रौढ़वृक्ष

[ १४५

चिन्ता, शोक, भय कभी नहीं करना चाहिये । यदि मनुष्य करता है तो वह मूर्ख है । सांसारिक भोग-विलास, धन, लौ, पुत्रकी वृद्धि देखकर जो प्रसन्न होता है वह भी मूर्ख है और सांसारिक वस्तुकी हानि देखकर जो चिन्ता करता है वह भी मूर्ख है । सर्वत्र भगवान्‌की दया समझकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिये । सांसारिक वस्तुओंके हानि-लाभमें भगवान्‌की लीला देखे, चहुत खुशी हो और पद-पदपर भगवान्‌की दया देखे । शरीरमें किसी प्रकारकी वीमारी होनेसे उसे तपस्या समझकर 'मैं तप कर रहा हूँ' ऐसा समझे और खूब प्रसन्नचित्त रहे । भगवान्‌ने दया करके भजन, ध्यान, भगवत्प्राप्ति-के लिये मनुष्यशरीर दिया है । सांसारिक भोग-विलासमें इसे नहीं खोना चाहिये । पापीसे पापी हो तब भी भगवान्‌के भजन, ध्यानसे वह पापसे छूटकर भगवान्‌को प्राप्त हो जाता है । हमसे जो कुछ भी अच्छा काम होता है वह भगवान्‌की दयासे होता है—और जो बुरा कर्म होता है वह हमारे स्वभाव-दोषसे होता है, ऐसा समझकर बुरा कर्म कभी नहीं करना चाहिये । हर समय भजन, ध्यान, सत्संग और सेवाके लिये कटिवद्ध होकर चेष्टा करना ही मनुष्यका कर्तव्य है ।



[ ६५ ]

पत्र आपका मिला, अब आपकी क्या इच्छा है ? आपको किस वातकी जरूरत है ? आपको तो अब केवल अपने कल्याणके लिये ही चेष्टा करनी चाहिये । मान-अपमानके घोड़ा-भारको अलग छोड़कर, जिस कामके लिये आपका संसारमें आना

[ १४७ ]

## परमार्थ-पत्रावली

हुआ है, उस कामको ही करनेके लिये तत्पर हो जाना चाहिये और विचारना चाहिये कि क्या करनेसे कल्याण हो सकता है ? मैं जो कुछ करता हूँ इससे कितने समयमें कल्याण हो सकता है ? जो इस तरहका विचार करता है वही बुद्धिमान् है, परन्तु जो ऐसी बात अपने मनमें नहीं लाते उन्हें पीछे पछताना पड़ेगा । जब आप यहाँसे कृच कर जायेंगे तब इस संसारमें आपका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जायगा और न कोई वस्तु आपके काम ही आवेगी । यह शरीर भी आपके काममें नहीं आवेगा । यदोंकि यह आपका नहीं है । उस समय तो एक श्रीनारायणदेवका भजन-ध्यान ही यदि साधन किया गया होगा तो काममें आवेगा । या उत्तम काममें यदि आपने कुछ रूपवे भगवदर्थ लगाये हाँगे अथवा इस शरीरसे किसीका उपकार किया गया होगा तो वह काममें आवेगा । इसलिये आपसे प्रार्थना है अब तो आप अपने जीवनके शेष समयको उत्तमसे-उत्तम काममें विता सकें, ऐसी आपको चेष्टा करनी चाहिये, जिससे पीछे पश्चात्ताप नहीं करना पड़े । आप इस समय संसारके जालमें फँसे हुए हैं, इसलिये साधनकी विशेष चेष्टा करके इस संसार-के मायाजालसे जल्दी निकलनेका उपाय करना चाहिये ।



[ ६६ ]

पत्र आपका मिला, सत्सङ्गका प्रभाव जान लेना चाहिये, फिर कोई चिन्ताकी घात नहीं है। इस संसारमें पलभरके सत्सङ्गके समान छिलोकीका राज्य भी कोई चोज नहीं है। किन्तु खेद तो यह है कि आप लोग जिस प्रकार रूपयोंका प्रभाव जानते हैं वैसा सत्सङ्गका नहीं जानते, क्योंकि जैसा आप लोगोंका रूपयोंमें प्रेम है, वैसा भगवान्‌में नहीं है। फिर श्रीपरमात्मादेवमें प्रेम हुए विना सत्सङ्ग-भजनमें कैसे प्रेम हो? आप लोग समझते हैं, रूपयोंसे सब कुछ हो सकता है, यह विलकुल भूल है। रूपयोंसे भगवान् कभी नहीं मिल सकते। भगवान्‌की घात तो दूर रही भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंसे भी रूपयोंके द्वारा मुलाकात नहीं हो सकती। यदि मुलाकात होती है तो प्रेमसे ही होती है। प्रेमके अधीन तो श्रीनारायणदेव म्य रहते हैं, फिर दूसरेकी तो घात ही क्या है? संसारमें

[ १४९ ]

## परमार्थ-पत्रावली

प्रेमके समान कुछ भी नहीं है। किन्तु प्रेमके प्रभाव और मर्मको कोई प्रेमी ही जानता है। भगवत्-विषयक प्रेममें बहुत आकर्षण-शक्ति है, किन्तु एक बार लगनेकी जरूरत है। जबतक मनुष्य भगवान्‌के प्रभावको, श्रीनारायणदेवके प्रेमके मर्मको नहीं जानता है, तबतक वह कैसे जान सकता है कि भगवान् क्या वस्तु हैं? श्रीनारायणदेवके प्रेममें जो मग्न हो जाता है, उसके लिये तो नारायणदेव स्वयं तैयार रहते हैं, फिर उसके लिये त्रिलोकीका राज्य भी क्या चीज़ है? क्योंकि त्रिलोकीके स्वामी ही प्रेमवश उसके सामने हाजिर हैं। अपने भक्तके अधीन हैं। फिर उसके लिये क्या पानेसे वाकी रह गया? भाई, इस प्रकारकी वाताँको जानकर यदि विश्वास कर लिया जाय तो फिर इस काममें अपनेको लगा देनेमें कोई बड़ी वात नहीं मालूम पड़ेगी और संसारके रुपयोंका रोजगार तुच्छ मालूम होने लग जायगा। भले ही कोई नीतिके अनुसार संसारका रोजगार करता भी रहे किन्तु प्रेम तो उसका एकमात्र भगवान्‌में ही होना चाहिये। भगवत्प्रेमीका भले ही सब कुछ नाश हो जाय परन्तु उसको इस वातकी चिन्ता नहीं होती क्योंकि उसका प्रेम तो संसारके इन नाशवान् तुच्छ क्षणभङ्गर पदार्थोंमें होता नहीं, उसको तो ये सब प्रत्यक्ष ही नाश हुए दीखते हैं। तब उसका इनमें प्रेम कैसे हो? जो संसारके भोगोंमें आनन्द मानकर उनके लिये मर रहे हैं, वे महामूर्ख हैं, ऐसा भगवान्‌के भक्त और विरक्त लोग कहते हैं। क्योंकि उन्हें तो संसारके सब भोग फीके ही लगते हैं।

[ ६७ ]

पत्र आपका मिला, भगवान्‌के भजन-व्यान करते समय अपने चित्तमें रिक्षेपका होना लिखा सो टीक है । वह रिक्षेप नामके जपका तीव्र अभ्यास ओर रिपयोंमें दोषदृष्टि करके वैराग्य करनेमें मिट सकता है क्योंकि शरीर और रूपयोंकी आसकि ही रिक्षेप होनेमें प्राप्ति कारण है । शरीर ओर रूपये नाशवान् पदार्थ है, ऐसा चार-चार विचार करनेपर चित्त परमात्मामें लग सकता है । संसारके सम्पूर्ण पदार्थोंको और

[ १५१ ]

शरीरको नाशवान् और क्षणभङ्गुर समझना चाहिये । भजन-ध्यानके लिये आपने फिर जोरसे चेष्टा करनेकी बात लिखी सो बहुत आनन्दकी बात है । आप-जैसे समझदार व्यक्तिको खीं, पुत्र, शरीर और रूपयोंके प्रेममें फँसकर अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी बृथा नहीं गँवाना चाहिये । क्योंकि ये सब अनित्य होनेके कारण वास्तवमें तो हैं ही नहीं, यदि हैं भी तो विवेकदृष्टिसे दुःखरूप ही हैं । परमात्माकी प्राप्तिमें ये सब साधक नहीं हैं बल्कि बाधक ही हैं । किन्तु ये सब ईश्वरमें लगा देनेपर साधक भी हो सकते हैं । पर सबसे ऐसा होना सहज नहीं । खीं, पुत्र, धनकी तो बात ही क्या है शरीर भी अपने साथ जानेवाली वस्तु नहीं है, इस प्रकारका विचार करके जो मनुष्य इनसे प्रेम नहीं करता वही सुखी होता है । मनुष्य जब उस सच्चिदानन्दघन परमात्माके ध्यानमें सुगंध हो जाता है तब उस समय उसे त्रिलोकीका राज्य भी तुच्छ प्रतीत होता है । किन्तु इसे जानकर भी मनुष्य इन तुच्छ भोगोंमें फँस जाते हैं, यह बड़े आश्वर्यकी बात है ।

अच्छे पुरुषोंका सत्संग मिलनेपर साधन तेज हो सकनेकी बात आपने लिखी सो ठीक है । यद्यपि अच्छे पुरुषोंका सत्संग बड़े भाग्यसे मिलता है किन्तु कोशिश करनेसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है । आराम और रूपयोंकी कोई परवा न हो तब तो अच्छे पुरुषोंसे बहुत दफा मिलना हो सकता है । इसके लिये आप विशेष चेष्टा क्यों नहीं करते हैं? आपको इस विषयमें विचार करना चाहिये । आप तुच्छ धनके लिये समय और १५२ ]

धनका व्यय करके तो दूर-दूरकी यात्रा करते हैं तथा शारीरिक परिश्रम उठाते हैं किन्तु आप विज्ञानानन्दधन परमात्माके ध्यानरूपी धनके लिये क्यों नहीं यथोचित परिश्रम करते ? यह बात समझमें नहीं आती । यदि इसका हेतु मान-वडाई-प्रतिष्ठा है तो आपको विचार करना चाहिये कि वह मान-वडाई-प्रतिष्ठा हमारे किस काम आवेगी ? यदि शरीरके परिश्रमकी कोई बात हो तो फिर शरीर है ही किसलिये ? यदि अज्ञान हेतु है तो उसको विवेकविचारके द्वारा नाश करना चाहिये, नहीं तो बहुत भारी पश्चात्तापका सामना करना पड़ेगा । यदि रूपयोंकी हानि या व्यय इसमें कारण हो तो विचार करना चाहिये फिर वे इकट्ठे किये हुए रूपये आपके किस काम आवेंगे । यदि कुदुम्ब या व्यापार आदिकी सुव्यवस्था करनेके कारण सत्संगमें जाना नहीं होता, तब तो आपको विचार करना चाहिये कि इन सबसे घटकर जो आपका प्रधान कार्य है, उसकी सुव्यवस्था क्या आपको नहीं करनी है ? जगह, जमीन, मुकदमा, मकान, कुदुम्ब आदिकी सुव्यवस्था तो आपके परलोक सिधारनेके बाद भी आपके उत्तराधिकारी कर सकते हैं, किन्तु आपके कल्याणकी व्यवस्था आपके परलोक सिधारनेके बाद आपको छोड़कर और किसीसे होनेकी नहीं है । अतएव जबतक शरीर आरोग्य हे और मृत्यु दूर हे इसी समय आपको जो करना है उसे अति शीघ्रतासे अपनी आत्माके कल्याणके लिये जोरेंके साथ चेष्टा कर लेनी चाहिये ।

---

आपके प्रेमके अनुसार मैं पत्र नहीं लिख पाता हूँ, फिर भी आप पत्र देते ही रहते हैं, यह आपकी वर्दी कृपा है। समयपर मेरे पत्र न देनेके दोषको आप दोष नहीं समझते यह आपके प्रेम और भावकी वात है। श्रीभगवान्‌के विषयको लेकर जो प्रेम है वह भगवान्‌के साथ ही प्रेम है। आपके पिताजी चीमार हैं उनकी आद्वा चिना उन्हें छोड़कर आपका आना टीक नहीं है। इधर मैं भी कई कारणोंसे नहीं आ सकता। इस प्रकार हमलोगोंके न मिलनेमें कुछ प्रारब्ध भी कारण समझा जा सकता है। परन्तु श्रीनारायणदेवके साथ यदि प्रेम किया जावे तो उनके मिलनेमें प्रारब्ध कुछ भी वाधा नहीं पहुँचा सकता। आपको पहले भी लिखा गया था और फिर लिखा जाता है कि श्रीनारायणदेवके साथ पूर्ण प्रेम हो, इसी वातकी चेष्टा करनी चाहिये। संसारमें श्रीसगवान्‌के प्रेमके समान कुछ भी नहीं है। श्रीपरमात्मादेव ही प्रेमके मर्मको अच्छी तरह जानते हैं। उनके साथ प्रेम हो जानेपर उन्हें आना ही पड़ता है। कोई भी उन्हें रोकनेवाला नहीं है। श्रीनारायणदेव प्रेमके आधीन हैं। प्रेमके मर्मको जो कोई जानता है, वही प्रेममें चिक जाता है। श्रीनारायणके जो प्रेमी भक्त हैं उनसे नारायणका वियोग नहीं सहा जाता और इस कारण नारायणदेवको उनके पास आना ही पड़ता है। आप लोग जबतक श्रीभगवान्‌का वियोग सह रहे हैं तभीतक भगवान्‌का वियोग हो रहा है। जिस दिन आप लोग श्रीभगवान्‌के वियोगसे गोपियोंकी भाँति विद्वल हो जावेंगे उसी दिन

भगवान्‌को आप लोगोंके पास तुरन्त ही आना पड़ेगा । यदि प्रेमके द्वारा श्रीनारायणदेवको जीतना चाहें तो और भी अधिक प्रेमकी जरूरत है । जो धड़ा प्रेमी होता है वह तो कहणासे विद्वल होकर भगवान्‌से आनेके लिये भी प्रार्थना नहीं करता । उन भक्तोंके मनमें ऐसा भाव होता है जो प्रेमके अधीन है तथा प्रेमके मर्मको भलीभांति जाननेवाला है वह प्रेमीके हाथ प्रेममें विक जानेके लिये सदा तैयार रहता है । वह अपने प्रेमीके पास गये विना एक पलक भी नहीं रह सकता । यही समझकर प्रेमी कभी भगवान्‌को युलानेकी प्रार्थना नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि भगवान् अन्तर्यामी है और प्रेमके मर्मको समझनेवाले हैं तथा प्रेमके अधीन हैं । फिर वह किसलिये खुशामद करे ? दूसरी बात वह यह सोचता है कि इतना प्रेमी होकर भी वह तुम्हारा वियोग सह रहा है फिर तुम्हारे लिये इतना वियोग सहना कुछ भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिये । क्योंकि तुम तो प्रेमके मर्मको उतना जानते ही नहीं । इसलिये इस विषयमें तुमको शूरचीरता रखनी चाहिये । श्रीभगवान्‌की शूरचीरताको देखकर भी तुमको शूरचीरता करनी चाहिये । तुम प्रेम करते रहोगे और प्रार्थना नहीं करोगे तो अन्नमें हारकर उनसों दर्शन देना ही पड़ेगा । इस विषयमें भगवान् इतने शूरचीर नहीं है । यदि तुम खुशामद करोगे तो वे और ज्यादा खुशामद करावेगे । इसलिये विशेष खुशामद करनेकी जरूरत नहीं । बल्कि उनसे उलटी खुशामद करवानी चाहिये । यदि तुम्हारा निष्कामभावसे तीव्र प्रेम होगा तो तुम उलटी खुशामद कराओगे और घड़े भी मारोगे तो भी वे आँदेंगे ही ।

[ ६९ ]

आपने लिखा कि जल्दीसे काम बन जाना चाहिये, सो ठीक है। निरन्तर भजन-ध्यान होनेपर जल्दीसे काम बन सकता है। यदि काम देरसे भी बने तो कोई हर्ज नहीं किन्तु निष्काम प्रेमभावसे निरन्तर भजन-ध्यानका साधन तो होते ही रहता।

चाहिये। संसारमें श्रीभगवान्‌के निष्काम भजन-ध्यानके समान और कुछ है ही नहीं। ऐसा भजन-ध्यान सत्संगसे हो सकता है। उस सत्संगका रहस्य जानना चाहिये। यह जानना चाहिये कि सत्संग कहते किसे हैं? सत्संगका मर्म जान लेनेके बाद मनुष्य उसको कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि सत्संगके सामने संसारमें और कोई चीज उसे अच्छी लगती ही नहीं। सत्संगी पुरुषोंके दर्शनसे भी बहुत कुछ लाभ होता है। फिर सत्संगकी तो बात ही क्या है? सत्सगद्वारा जो किसी-किसीको विशेष लाभ नहीं दिखायी देता इसका कारण यही है कि वे सत्संगको जैसा चाहिये वैसा उत्तम नहीं समझते हैं। यदि सत्संगको सबसे उत्तम ओर उसका तत्त्व समझकर अद्वा और प्रेमके साथ सत्संग किया जाय तो सत्संग छोड़कर जाना नहीं चलता। शरीर भले ही नाश हो जाय पर जपतक शरीरमें प्राण है, तबतक सत्संगके अतिरिक्त दूसरा काम उससे किस तरह हो सकता है? क्योंकि जिन पुरुषोंको श्रीनारायणदेवके दर्शन हो चुके हैं, उन्हींके सङ्गका नाम सत्संग है। अब विचार करनेकी बात है कि ऐसे पुरुषोंका यदि किसीको संग प्राप्त हो जाय तो फिर वह उनका संग जान-बूझकर कैसे छोड़ सकता है? भगवान्‌के साधारण भक्तोंका मिलना भी साधारण सत्संग है और उसके अनुसार ही लाभ होता है।



आपने जो हरदम ध्यान वने रहनेका उपाय पूछा सो श्रीभगवान्‌में पूर्ण प्रेम होनेसे ही हरदम उनका ध्यान वना रह सकता है। क्योंकि जिस वस्तुमें प्रेम होता है उसका अपने-आप ही बारंबार चिन्तन होता है। श्रीनारायणदेवका भजन करनेसे पापोंका नाश हो जाता है, भगवान्‌में प्रीति उत्पन्न होती है और जहाँ श्रीभगवान्‌में सच्चा प्रेम हुआ कि अपने-आप ही निरन्तर उनका ध्यान वना रहने लग जाता है। पूर्वजन्म तथा इस जन्मका किया हुआ पाप ही कप्रसाध्य वीमारी है। उसके नाशके लिये श्रीभगवान्‌के नामका जप ही असली ओपधि यानी वृद्धि है। और श्रीभगवान्‌का भक्त ही सच्चा वैद्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संसारके विपयभोगोंका त्याग इत्यादि और भी जो बहुतसे उत्तम आचरण हैं, वे पथ्य हैं। उपर्युक्त ओपधिका सेवन करनेसे जो रुचि पैदा होती है वह श्रद्धा है। और जो प्राणोंका बाधार श्रीभगवान्‌का ध्यान है, वही जीवनकी रक्षा करनेवाला अन्न है, आरोग्यतारूपी सुख है, वही अमृत है, वही अनामयपदकी प्राप्ति है। उपर्युक्त ओपधि बहुत ही तेज है, यदि पथ्य-परहेज न भी हो तो भी कोई हर्ज-की वात नहीं, इस ओपधिका सेवनं घरावर होते रहना चाहिये। यदि किसी समय कोई कुपथ्य हो जाय तो समयपर वैद्यसे सलाह भी लेते रहना चाहिये। फिर तो कोई भी चिन्ता नहीं है।




आपने लिया कि 'मैं संसारके जालमें बहुत फँस रहा हूँ' सो ठीक है। संसारके मोहको जाल समझ लेनेके घाद फिर जान-बूद्धकर कोई भी उसमें फँसना नहीं चाहता है। मनुष्य संसारके नाशवान् भोगोंमें अशानके कारण आनन्द तथा सच्चा खुख समझता है किन्तु जब उसे संसारके मोहजालका ज्ञान हो जाता है तब उसे संसारके सभी पदार्थ प्रत्यक्ष ध्यणभंगुर दीखने लग जाते हैं तथा उस समय भूलसे संसारके पदार्थोंमें जो आनन्द भासता था, वह सब दुर्घट भासने लग जाता है। इसकी पहचान यह है कि जब एकमात्र सच्चे प्रेमी नारायणदेवके भजन-ध्यान तथा सत्संगके समान कुछ भी अच्छा न लगे तब समझना चाहिये कि संसारका मोह अब जालरूपसे प्रत्यक्ष दीखने लग गया है। विचार करनेकी बात है कि मोहजालको जानकर फिर कौन उसकी फाँसीमें फँसेगा ? किन्तु मनुष्यमें अशान भरा हुआ है इसलिये उसको मोहजाल भी खुखरूप भासता है।

अब भजन-ध्यान एवं सत्संगका साधन यूद जोरके साथ निकामभावसे करना चाहिये। ऐसा होगा तो मोहजाल-से छूटना कोई भी बड़ी बात नहीं है।

[ ७२ ]

आपका पत्र मिला, मानापमानको समान समझकर तथा सबको भगवान्‌का स्वरूप जानकर निष्कामभावसे सबकी सेवा करनी चाहिये। फिर भगवत्कृपासे अपने-आप ही भगवान्‌में प्रेम हो सकता है। भगवद्गाव द्वेनेपर किसीपर क्रोध भी नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान्‌पर किसीको क्रोध नहीं आना चाहिये। यदि क्रोध आवे तो ऐसा समझना चाहिये कि वहाँ भगवद्गाव नहीं है। अपने चित्तमें कभी किसीपर उद्देश नहीं होना चाहिये। कोई भी परिस्थिति हो, उसीमें आनन्द मानना चाहिये, क्योंकि जो कुछ भी होता है मालिककी आज्ञासे ही और मालिकके अनुकूल ही होता है। फिर यदि सब कुछ मालिकके अनुकूल ही होता है तो अपनेको भी मालिकके अनुकूल ही बनना चाहिये। यह निश्चय रखना चाहिये कि भगवान्‌की विना इच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी आज्ञाके विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो ऐसा समझता है वह मालिककी राजीमें राजी रहनेवाला सब समय आनन्दमें भग रहता है।



१६० ]

[ ७३ ]

आपने लिखा कि 'मेरा चित्त खराब रहता है, कुछ उपदेशकी धात लिखिये' सो उपदेशकी धात लिखनेवाला मैं कौन हूँ ? कुछ शाखोंकी वार्ते लिखी जाती हैं यदि आपको इनसे लाभ मालूम हो तो इन्हें काममें लाना चाहिये ।

आप अपने मनको प्रसन्न रखनेके लिये कोई उचित उपाय तो करते ही नहीं हैं फिर आपका मन खराब नहीं रहेगा तो

[ १६१ ]

कैसा रहेगा ? संसारके अन्य पदार्थ या रूपवे प्रथम तो प्रारब्धसे मिलते हैं और यदि मिल भी जायँ तो वे सर्वथा क्षणभंगुर एवं नाशवान् हैं। और जब संसारके सारे पदार्थ नाशवान् हैं तब उनसे आनन्द कैसे मिल सकता है ? यदि एक क्षणके लिये आप उनके मिथ्या आनन्दको ‘सच्चा आनन्द’ मान भी लें तो भी आपको यह विचार तो करना ही चाहिये कि जिन पदार्थोंके संयोगमें जितना आनन्द है, उनके वियोगमें उससे भी बहुत अधिक दुःख होगा। संसारके पदार्थोंके साथ तो अवश्य वियोग होता ही है। उनमें आनन्द तो विल्कुल है ही नहीं, चलिक विचार करनेसे उनमें दुःख-ही-दुःख है। लोगोंने भूलसे मूर्खतावश उनमें आनन्द मान रखा है। यही कारण है कि लोग इन पदार्थोंके मोहर्में पड़कर अपना अनमोल समय विता रहे हैं। सच्चा और एकमात्र आनन्द तो आदिपुरुष श्रीनारायण-देवके दर्शनसे ही प्राप्त होता है। श्रीपरमात्मदेवसे मिले विना मनुष्यको सच्ची शान्ति नहीं मिल सकती। प्रेमके विना श्रीभगवान् नहीं मिलते और भजन-ध्यानके साधन तथा सत्संगके विना भगवान्में प्रेम नहीं होता है इसलिये यदि आपको सच्चे आनन्दकी इच्छा है तो श्रीभगवान्के भक्तोंका सत्संग और भजन-ध्यानरूप भगवान्के दर्शन करानेवाले उपायमें लगना चाहिये ।

— बौद्धिक —

[ ७४ ]

- आपने मनको वशमें करनेके उपाय पूछे सो ठीक है। मनको वशमें करनेके घट्टतसे उपाय हैं, उनमें कुछ लिखे जाते हैं।
- (क) जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ श्रीपरमात्माके स्वरूपको देखना चाहिये।
- (ख) जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँसे उसे खीचकर श्रीभगवान्के ध्यानमें लगाना चाहिये।

[ १६३ ]

- (ग) एकतार श्वासद्वारा लम्बे स्वरसे नामका जप करना चाहिये। तार नहीं दूटने देना चाहिये।
- (घ) संसारको नाशवान् और क्षणभङ्गर समझकर एक नित्य सत्य चेतन आनन्दधनका ही चिन्तन करना चाहिये। और सबको भूल जाना चाहिये।
- (ङ) सत्-चित्-आनन्द-धनमें एकीभावसे स्थित हुआ, सम्पूर्ण संसारका द्रष्टा होकर फिर इस दृश्यको भूल जाना चाहिये। तब शेषमें एक परमात्मा ही रह जाते हैं। गीता अध्याय १४ श्लोक १९ के अनुसार या गीता अध्याय ६ श्लोक २४, २५ तथा २९ के अनुसार साधन करनेसे मन बहुत जल्दी वशमें हो सकता है। और भी बहुत-से उपाय हैं। भगवान्‌के प्रेममें मर्श हो जानेसे भी मनका नाश हो सकता है, अथवा वह अपने अधीन हो सकता है। उस समय भी मनमें संसारकी भी स्फुरणा नहीं होती।

आपने पूछा कि भगवान्‌में बहुत जल्दी प्रेम होनेके कौन-कौन-से उपाय हैं? सो ये हैं—

- (१) निष्कामभावसे भगवान्‌के नामका निरन्तर जप और स्वरूपका ध्यान करनेकी चेष्टा करना।
- (२) भगवान्‌के गुण, प्रभाव और मर्म (तत्त्व) की कथा भगवान्‌के भक्तोद्वारा सुनना, पढ़ना और कथन करना।
- (३) भगवान्‌के आज्ञानुसार निष्कामभावसे सब कर्म भगवान्‌के लिये ही करना।

(४) मनमें भगवान्‌के मिलनेकी तीव्र इच्छा रखना और उनके नाम-गुणोंको सुनकर आनन्दमग्न होना। इन उपायोंका अवलम्बन करनेसे भगवान्‌में बहुत जल्दी प्रेम हो सकता है। और भी बहुत-से उपाय हैं। प्रेम होनेसे भगवान्‌ मिल सकते हैं। और अनन्य प्रेमसे तो बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं।

आपने लिया कि साधनके लिये बहुत अच्छा मौका मिला है सो तो ठीक ही है। परन्तु ऐसा मानते हुए भी आप तेज साधन करनेके लिये विशेष परिश्रम क्यों नहीं करते हैं?

आपने लिया कि यदि चौचमें मृत्यु आ जायगी तो मनकी मनमें ही रह जायेगी, सो बहुत ठीक है। यदि इस तरह सद्या विश्वास हो तो फिर एक पल भी भूल नहीं होनी चाहिये। ऊँचे-से-ऊँचे साधनके लिये निरन्तर भजनसहित श्रीपरमात्म-देवका ध्यान करना चाहिये। ऐसा करते करते शोषणमें एक सत्-चित्-आनन्द घन ही रह जाता है। उस समय और किसीका चिन्तन नहीं रह जाता। इससे बड़ा और ऊँचा कोई दूसरा साधन मुझे मालूम नहीं है। ऐसे ध्यानके लिये पहले सब वार्त लिखी जा चुकी हैं। उनका पालन फरनेसे भगवान् बहुत जल्दी मिल सकते हैं। भगवान्‌की प्राप्तिके बाद भला शान्तिमें किस प्रकार ब्रुटि रह सकती है?

श्रीसगुण भगवान्‌की प्राप्तिके लिये भी समयका कुछ नियम नहीं है। यदि अनन्य प्रेमसे भगवान्‌के ध्यानमें मग्न हो जाय तो एक ही दिनमें भगवान् मिल सकते हैं। भगवान्‌को

ओरसे उनके मिलनेमें तो ढील है ही नहीं, साधककी ढीलसे ही भगवान्‌के मिलनेमें ढील हो रहा है। आपने लिखा कि भगवान्‌के न मिलनेसे मनमें धैर्य नहीं है, सो यह लिखना ठीक चनता नहीं है क्योंकि जिस दिन मनमें धैर्य नहीं होगा, जिस दिन श्रीभगवान्‌के विना नहीं रहा जायगा उस दिन तो भगवान्‌को आना ही होगा। जबतक आप भगवान्‌का वियोग सहन कर रहे हैं, तभीतक उनका वियोग हो रहा है। जिस समय आप भगवान्‌के मिले विना एक क्षण भी नहीं ठहर सकेंगे तथा विछोहके कारण आपका मन मछलीकी तरह तड़फड़ाने लगेगा फिर भगवान्‌की ओरसे देर हो ही नहीं सकती। भगवान्‌को प्रकट होना ही होगा। भगवान् सब जगह विराजमान हैं। कहीं दूरसे उनको आना नहीं पड़ता। उत्कण्ठा होनेपर वे सब जगह दीखने लग जाते हैं, किन्तु यह तभी होता है जब उपर्युक्त साधनोंको करनेके लिये मनुष्य कठियज्ज्ञ हो जाता है। इन साधनोंसे ऊँचा कोई साधन है ही नहीं। आपने अपनेमें सामर्थ्यका अभाव चतलाया सो ठीक है, किन्तु भगवान्‌के शरणागत होनेसे उनकी कृपासे आप ही ऊँचे-से-ऊँचे साधन करनेकी शक्ति आ जाती है। इस बातपर विश्वास होना चाहिये। आपने लिखा कि भगवान्‌की कृपाकी स्फुरणा मुझे विशेष होती है, सो यह बड़े आनन्दकी बात है। आप भगवान्‌को पतित-पावन समझते हैं, सो ठीक है, परन्तु जो पतित होता है वह तो किसीसे भी घृणा नहीं करता, चाहे कोई चमार हो, चाहे कुत्ता हो, वह अवसर मिलनेपर उनकी भी सेवा बहुत प्रेमसे करने लग जाता है। सभी जीवोंको भगवान्‌का स्वरूप समझकर

संयक्ती निष्कामभावसे सेवा करने लगता है। उसका शरीरमें अहंभाव नहीं रह जाता। यदि कुछ भी अहंभाव रहा तो वह अपनेको सद्वसे नीचा कैसे समझे? और उसका पनितपावन भगवान् किस प्रकार उद्धार करें? आपने जो लिया कि कोई ऐसा साधन होना चाहिये, जिससे भगवान् घटुत जल्दी मिलें, यदि जल्दी न मिलें तो अन्तकालमें जरूर मिलें और यदि अन्तकालमें भी नहीं मिलें तो दूसरे जन्ममें तो जरूर ही मिलें, सो ठीक है। परन्तु आपको इतनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिये। अन्तकालके करारपर भी नहीं रहना चाहिये, फिर दूसरे जन्मकी तो वात ही कौन है? आपको तो इसी जन्ममें घटुत जल्दी मिलनेकी कोशिश करनी चाहिये। यदि आप दूसरे जन्मके भरोसे रहेंगे तो फिर इस जन्ममें भगवान् कैसे मिल सकेंगे और भगवान्के मिले बिना धेर्य नहीं होता तथा मनको चैन नहीं पढ़ती, इस प्रकारका आपका लिखना कैसे बन सकता है? आपके मनमें भगवान्के मिलनेकी उत्कण्ठा होगी तो आपको एक युगके समान लगेगा। भगवान्के लिये काम छोड़नेकी कोई जरूरत नहीं बल्कि भगवान्में मन लगाकर काम करना चाहिये। काममें भले ही हर्ज हो जाय परन्तु श्रीभगवान्के भजन-ध्यानमें हर्ज नहीं होना चाहिये। संसारका काम छोड़नेसे भगवान् उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना मुख्यवृत्तिसे भगवान्के नामका जपसहित ध्यान करते हुए गौणवृत्तिसे संसारका काम करनेसे प्रसन्न होते हैं। इसलिये आपको चाहिये कि श्रीपरमेश्वरका व्यान करते हुए संसारका काम करनेका अभ्यास करें। इस प्रकार यदि काममें कुछ हर्ज भी होता हो तो

ध्यान नहीं छोड़ना चाहिये। भगवान्‌का ध्यान रखते हुए ही जितना बन सके उतना काम करना चाहिये। यदि भगवान्‌के ध्यानको निरन्तर बनाये रखते हुए काममें भी कोई हर्ज नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। पहले आपको मना किया गया था कि आप मेरी बढ़ाई न लिखा करें, मेरी बढ़ाई करनेसे क्या लाभ होगा? फिर भी आप मेरी झट्टी बढ़ाई लिखते हैं, मैं ऐसा हालतमें प्रेमबद्ध ही आपको पत्रका उत्तर लिख रहा हूँ। अब आगेसे फिर कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिये।

आपने लिखा कि आपके आशानुसार काम करनेका विचार है, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिये। श्रीभगवान्‌के साक्षात्कार होनेका साधन लिखा गया है। उनके अनुसार यदि आप साधन करेंगे तो बहुत जल्दी भगवत्प्राप्ति हो सकती है। श्रीभगवान्‌के मिलनेके बाद तो आप-से-आप आनन्दमें निरन्तर मग्न रहनेकी स्थिति प्राप्त हो जाती है। आपने लिखा कि पहले ही इस योग्य बन जावें तब दूसरा काम करें, सो ठीक है। ऐसा समझकर ही भगवत्प्राप्तिवाले काममें आपको कठिनद्वंद्व होकर लगना चाहिये। क्योंकि जिस कामके लिये संसारमें आना हुआ है उस कामको जरूर ही बनाना चाहिये। इस कामको सुख्यरूपसे बनाते हुए ही शरीरनिर्वाहके लिये संसारके कामोंकी चेष्टा करनी चाहिये। संसारके काममें हर्ज हो तो भले ही हो, परन्तु श्रीपरमात्माकी प्राप्तिवाले काममें कदापि हर्ज नहीं होना चाहिये।

[ ७५ ]

आपने वैराग्य, भक्ति और प्रेमको चातौंके लिये लिखा सो घड़े आनन्दकी बात है। आपके भजन-सत्सङ्गका साधन कैसा होता है? शास्त्रोंका अभ्यास कैसा होता है? लिखिये—

( १ ) संसारके सारे भोगोंको मिथ्या जानकर, केवल शरीरनिर्वाहके लिये अन्नचतुर्ष जो कुछ भी मिल जाय उसीमें

[ १६९ ]

## परमार्थ-पत्रावली

निर्बाह करना चाहिये । ऐश-आराम, स्वाद-शौकीनी आदि इन्द्रियोंके सारे भोगोंको विपवत् त्याग देना चाहिये । संसारके सारे भोग मिथ्या हैं । यदि मिथ्या न दीखें तो शृणभङ्गुर और अन्तमें दुःख देनेवाले तो हैं ही । ऐसा समझकर भोगोंसे उपराम होना चाहिये । ये विषय-भोग कल्याण-मार्गमें बहुत ही हानि पहुँचनेवाले हैं, ऐसा मानकर इन्हें मनसे छोड़ देना चाहिये ।

( २ ) श्रीपरमेश्वरमें ऐसा प्रेम करना चाहिये, जिससे चित्तसे कभी भी उनके स्वरूपका ध्यान न छूटे । जिस प्रकार कामीको खीमें, लोभीको रूपयोंमें प्रेम होता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वरमें प्रेम होना चाहिये । एकमात्र परमेश्वर ही प्रेम करने लायक हैं । भगवान् भजन करनेवालेके पाप, अवगुण और जाति नहीं देखते, केवल प्रेम ही देखते हैं । वे सबके साथ स्वमानभावसे वर्ताव करते हैं ऐसा जानकर उन भगवान्को कभी नहीं भूलना चाहिये । जो भगवान्के मर्मको जान लेता है, उसका भजन-ध्यान कभी नहीं छूट सकता । उसको भगवान्के नामका जप और उनके स्वरूपके ध्यानके समान और कुछ भी दिखायी नहीं देता है ।

भगवान्के नामका जप, स्वरूपका चिन्तन, उनके गुणानुवादका कीर्तन तथा भगवान्की मानसिक पूजा, नमस्कार और उनके चरणोंकी सेवा, एवं भगवान्को भालिक, प्रेमी, परम सखा समझकर प्रेमसहित सब कुछ समर्पण कर देना ही उनकी उत्तम भक्ति है ।



[ ७६ ]

भाई ! आप कर्दू चार वीमार पड़े, यहुत तकलीफ पा चुके किर भी आपको चेत नहीं होता । तब क्या लिखा जाय, यदि शरीरपात हो जाय तो किर भगवान्के विना और कौन है ? यदि भगवान्‌में प्रेम अद्वा-भक्ति नहीं हुई तो यहुत ही मुश्किल है । ऐसा विचारकर श्रीनारायणदेवमें शीघ्र प्रेम करना चाहिये । ससारमें तथा शरीर और संसारके भोगोंमें आपना इतना प्रेम कर्या है ? यह कुछ भी समझमें नहीं आता ।

इस अमार संसारके नाशवान् तथा क्षणभद्धुर भोगोंमें आप किसलिये फँस रहे हैं ? शरीर भी आपके साथ नहीं जायगा, तब भोग कैसे जा सकते हैं ? श्री-पुत्र तो कभी साथमें जा ही नहीं सकते । आजतक वे किसीके साथ गये भी नहीं । जिन पुरुषोंका इन विषय-भोगोंमें प्रेम होता है, उनकी अन्तमें इनमें वासना रह जाती है, इस कारण संसारमें उनका जन्म होता है । परन्तु जो श्रीपरमात्मदेवका चिन्तन करते हुए मरते हैं वे उन्होंको प्राप्त होते हैं । ऐसा शाश्वतका नियम है ओर श्रीभगवान्की आक्षा है । इस बातपर जिनका पूरा विश्वास हो जाता है वे किर एक पल भी भगवान्को कैसे भूल सकते हैं ? ऐसा जिनका विश्वास है उनको धन्यवाद है । आपका सङ्ग होते कितने दिन हो गये आपको विचार करना चाहिये । यदि आरम्भसे ही आप लगातार साधन करते तो आपका अवतक यहुत ऊँचा दर्जा हो गया होता । आजतक आपने क्या साधन किया ? इसी तरह आगे भी करते रहेंगे तो आपके

[ १७१ ]

लिये ठीक नहीं है, इसलिये अब तो आपको चेतना ही चाहिये। यद्यपि आपको सत्सङ्गका भरोसा है तथापि सत्सङ्गका यह सिद्धान्त नहीं मानता चाहिये कि भजन, ध्यान भले ही न हों परन्तु उद्धार अपने-आप हो ही जायगा। सत्सङ्गसे तो साधन और भी तेज होना चाहिये। सत्सङ्गके भरोसे यदि साधन ढीला हो जाय तो समझना चाहिये कि सत्सङ्गका उद्देश्य ही समझमें नहीं आया। जिस सत्सङ्गके प्रतापसे संसारसे उद्धार पानेका विश्वास हो, उसके लिये कितनी चेष्टा होनी चाहिये, उसकी बातका कितना आदर करना चाहिये? सत्सङ्गसे केवल उद्धारमात्र मान लें, परन्तु उसकी थोड़ी बातोंकी भी इज्जत नहीं की जाय तो समझना चाहिये कि कथनमात्रसे ही सत्सङ्गको उत्तम माना है। असलमें यह मनका धोखा है। आपको इस बातपर विचार करना चाहिये कि यदि आप सत्सङ्गका प्रभाव अच्छी तरह जान जाते तो फिर एक पलके लिये भी आपसे सत्सङ्ग छोड़ा नहीं जा सकता।

सत्सङ्गके कारण यदि संत-महात्माओंके लक्षण आपमें आ गये होते, तो फिर वाहे कैसा भी फौजदारीका मामला क्यों न हो आपको घवराहट विलकुल नहीं होती। इस तुच्छ मामलेकी तो बात ही कौन है। यमराजवाले मामलेकी भी विलकुल चिन्ता नहीं होती। इन सब बातोंपर विचार करके, आलस्य और आसक्तिको त्यागकर आपको श्रीनारायणके प्रेममें लगना चाहिये। शरीरकी और नाशवान् भोगोंकी परवा छोड़कर एक भगवान्से मिलनेकी ही उत्कण्ठा होनी चाहिये।

[ ७७ ]

ईश्वरविषयक आपके तीनों प्रश्न वडे ही महत्त्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर लिखनेमें मैं अपनेको अयोग्य और असमर्थ ही पाता हूँ। फिर भी आपके प्रेमके लिये अपनी साधारण घुद्धिके अनुसार यत्कञ्चित् लिखनेका साहस कर रहा हूँ।

आपका प्रश्न है कि माता, पिता, खारी, पुत्रकी भाँति साकार ईश्वरके प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं?

इस प्रश्नका साधारण विवेचन गीताग्रेससे प्रकाशित तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ में किया गया है। आप उस पुस्तकमें देख सकते हैं। इसके सिवा अपनी घुद्धिके अनुसार कुछ लिख भी रहा हूँ।

विशुद्ध प्रेम ही ईश्वरके प्रत्यक्ष दर्शनका प्रधान उपाय है। यह प्रेम किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करना चाहिये।

[ १७३ ]

सबसे प्रथम यह विश्वास होता आवश्यक है कि ईश्वर है और वह सुहृद्, सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, परमदयालु, प्रेममय, सर्वज्ञ, आनन्ददाता है एवं साक्षात् सर्वत्र विराजमान है । जबतक इस प्रकारका विश्वास नहीं होता तबतक मनुष्य परमात्मासे मिलनेका अधिकारी ही नहीं है । पवित्र अन्तःकरण होनेसे ही मनुष्य अधिकारी हो सकता है । निष्कामभावसे किये हुए भजन-ध्यान, सेवा-सत्सङ्ग मनुष्यके हृदयको पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय होनेपर ही मनुष्य अधिकारी भी बनता है । ईश्वरका ज्ञान भी उसके अधिकारी बननेके साथ-ही-साथ बढ़ता रहता है । इस प्रकार जब मनुष्यको ईश्वरका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है यानी ईश्वरको वह भलीभाँति तत्त्वसे जान लेता है तब ईश्वरसे वह जिस रूपमें मिलता चाहता है भगवान् उसी रूपमें उसे दर्शन देते हैं । वे सर्वव्यापी परमात्मा सच्चिदानन्दरूपसे तो सर्वदा वर्तमान हैं ही पर भगवान्के रहस्यका ज्ञाता भगवद्भक्त जिस सगुण साकार चिन्मय मूर्तिसे मिलनेकी इच्छा करता है उसी मोहिनी मूर्तिमें वह नटवर अपने प्रेमी भक्तसे मिलता एवं बातें करता है । इसमें प्रधान कारण प्रेम और पूर्ण विश्वास है जिसको विशुद्ध अद्वा भी कहा जाता है । इसकी भगवान्ने गीतामें स्थान-स्थानपर प्रशंसा की है ।

योगिनामपि सर्वेषां मद्भतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्तमो मतः ॥

( गीता ६ । ४७ )

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मेरेमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।

मथ्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तनमा मता ॥

( गीता १२।२ )

हे अर्जुन ! मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-व्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रद्धासे युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं वे मुझको योगियोंमें भी अति उच्चम योगी मान्य हैं, अर्थात् उनमें मैं अतिश्रेष्ठ मानता हूँ। वे सर्वव्यापी सच्चिदानन्दधन प्रभु सगुण साकारस्पसे किस प्रकार प्रकट होते हैं ? इस रहस्यको यथार्थतासे भगवान्-का परम श्रद्धालु अनन्य प्रेमी पूर्ण भक्त ही ज्ञानता है। क्योंकि यह इतना गम्भीर और रहस्यपूर्ण विषय है कि अन्त-करणकी पवित्रताके बिना साधारण मनुष्योंकी घुड़िमें आना सम्भव नहीं। पर जो परमेश्वरका नित्य-निरन्तर स्मरण करते हैं उनके लिये भगवान्-का यह रहस्य समझना पूर्णतया सहज है।

यद्यपि साधु-महात्मा और शास्त्रने इस तत्त्वको समझानेके लिये बहुत प्रयत्न किये हैं पर करोड़ोंमें कोई एक विरला ही पुरुष इस तत्त्वको समझ पाता है। भगवान्-ने गीतामें कहा है—

आश्वर्यगत्पश्यनि कश्चिदेन-

माश्वर्यगद्वदति तथैव चान्य ।

आश्वर्यगच्छेनमन्य शृणोनि

श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥

( २।२९ )

आपका दूसरा प्रश्न है कि ईश्वरमें तर्करहित श्रद्धा किस अभ्याससे हो सकती है ?

उस परम प्यारेकी मनमोहिनी मूर्तिका साक्षात् दर्शन करनेवाले एवं उसके तत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले पुरुषोंद्वारा ईश्वरके गुण, प्रेम और प्रभावकी वातोंको प्रेमसे सुनने एवं समझनेसे ईश्वरमें तर्करहित विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है।

यदि ऐसे महात्माओंसे मिलना न हो तो प्रेम और श्रद्धासे परमेश्वरकी प्राप्तिका प्रयत्न करनेवाले साधक पुरुषोंका सत्संग करना चाहिये एवं उनसे ईश्वरविषयक गुण, प्रेम और प्रभावकी चर्चा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे भी भगवान्‌में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। यदि इस प्रकारके उच्च श्रेणीके साधकका संग भी न मिले तो मनुष्यको जिनमें ईश्वरके प्रेम, प्रभाव, गुण और तत्त्वकी वातें लिखी हाँ एवं जो ईश्वर या महापुरुषोंद्वारा रचे हुए हाँ ऐसे शास्त्रोंका विचारपूर्वक प्रेमसे अध्ययन करना चाहिये। सम्पूर्ण शास्त्रोंमें ईश्वरतत्त्वके ज्ञानके लिये श्रीमद्भगवद्गीताके समान दूसरी पुस्तक नहीं है। महाभारतमें लिखा है—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःसृता ॥

गीता सुगीता करने योग्य है अर्थात् श्रीगीताजीको भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें धारण कर लेना सुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्रीपद्मनाभ विष्णु भगवान्‌के [ १७८ ]

मुख्यारपिन्दसे निकली हुई है, फिर अन्य शाखोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ?

गीताके अध्ययनसे भी ईश्वरमें पूर्ण श्रद्धा हो सकती है। यदि इन ग्रन्थोंके समझनेकी बुद्धि भी न हो तो उन परम पिता परमात्मासे नित्यप्रति एकान्तमें सच्चे हृदयसे विनयभावपूर्वक शब्दद्वारा होकर प्रेमसद्वित विशुद्ध श्रद्धा होनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। उस दयासागरके सामने को हुई सच्चे हृदयकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। इस अभ्याससे परमात्मामें तर्करहित पूर्ण श्रद्धा हो सकती है।

विना श्रद्धाके ईश्वरतत्त्वका ज्ञान हो ही नहीं सकता वरं उत्तरोत्तर उसका पतन हो सम्भव है। जेसे गीतामें लिया है—

अश्रद्धगना पुरुषा धर्मस्यास्य परतप ।

अप्राप्य मा निर्वन्ते मृत्युमसारत्वर्मनि ॥

( १ । ३ )

हे परतप ! इस तत्त्वज्ञानस्त्रृप्य धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युस्त्रृप्य संसारत्वक्तमें भ्रमण करते हैं।

थत्. ईश्वरतत्त्वके जाननेके लिये श्रद्धाकी परम आवश्यकता है। क्योंकि श्रद्धासे ईश्वरके तत्त्वका ज्ञान होकर परम शान्तिको प्राप्ति होती है। गीतामें लिया है—

श्रद्धार्थुभते ज्ञान तत्पर सयनेन्द्रिय ।

ज्ञान लग्ना परा आन्तिमचिरेणापिगच्छति ॥

( ७ । ३९ )

[ १७९ ]

## परमार्थ-पत्रावली

हे अर्जुन ! जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।

इसलिये ईश्वरमें अनन्य श्रद्धा होनेके लिये कठिनद्वचित्तसे प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये ।

उपर्युक्त चार साधनोंमेंसे किसी एकका या अधिकका जो जितना अभ्यास करेगा उसकी उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी एवं उस परमपिता परमेश्वरमें उतना ही अधिक प्रेम होगा । सभी साधनोंका पालन करनेसे शीघ्र ही ईश्वरमें तर्करहित श्रद्धा हो सकती है एवं आदर और प्रेमसे किया हुआ अभ्यास अन्तःकरणको पवित्र करके बहुत श्रद्धा बढ़ा देता है ।

आपका तीसरा प्रश्न है—

सीयराममय सब जग जानी । करौं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

ऐसी सच्ची भावना कैसे हो ?

उपर्युक्त साधनोंका प्रेम और आदरसे जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही शीघ्र मनुष्यका हृदय पवित्र हो जाता है । हृदय पवित्र होनेके साथ-ही-साथ परमेश्वरमें श्रद्धा बढ़ती है । श्रद्धाकी वृद्धिसे परमेश्वरमें सर्वदा दृढ़ भावना बढ़ती है । भावनाके दृढ़ होनेसे सर्वत्र ईश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है । उस समय वह सर्वव्यापी परमेश्वर सीयराम-मय देखनेवालोंको सीयराममय एवं केवल राममय देखनेवालेको राममय दिखलायी पड़ने लगता है ।



[ ७८ ]

श्रीभगवान्‌की भक्ति करनेसे ज्ञान आप ही हो सकता है। चैराग्य चित्त शुद्ध होनेपर होता है। वह भी भगवान्‌की भक्ति करनेसे चित्त शुद्ध होकर हो जाता है। यौं भक्तिसे ज्ञान-चैराग्य आप ही हो सकते हैं। भागवतमें लिया है भक्ति माता है और ज्ञान-चैराग्य दोनों भक्तिके पुत्र हैं। भक्ति सदा जीवान रहती है और ज्ञान चैराग्य वृद्ध हो गये। अतएव श्रीभगवान्‌की भक्तिके लिये विशेष कोशिश करनी चाहिये। श्रीभगवान्‌की भक्ति और शारण एक ही वस्तु है। शरणका साधारण स्वरूप यह है—

( १ ) श्रीभगवान्‌के अनुकूल होना और उनकी इच्छाके अनुसार चलना ।

( २ ) श्रीभगवान्‌के नाम, रूप और गुणोंको हर समय याद रखना ।

( ३ ) जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त हो उसमें थानन्द मानना। उसमें भगवान्‌की दया समझना और उनका किया हुआ विधान समन्वयकर प्रसन्न रहना। मन मलिन न करना ।

[ १८१ ]

## परमार्थ-पत्रावली

(४) अपने कल्याणके लिये श्रीभगवान्‌पर ही निर्भर रहना। कुछ भी चिन्ता नहीं करना। श्रीभगवान्‌पर पूरा विश्वास रखना और अपनेको उनके चरणोंकी शरणमें समझना।

निर्भयता, धीरता, गम्भीरता, सन्तोष, शान्ति और प्रसन्नता आदि गुण शरणापन्न पुरुषमें स्वाभाविक था जाते हैं।

वन सके तो दोनों समय ठीक समयसे सन्ध्या, दो या तीन माला रोज गायत्रीजाप, कम-से-कम एक अध्याय गीताका अर्थसहित पाठ, सात या चौदह माला सोलह नामबाले 'हरे राम' मन्त्रका जाप और 'प्रेमभक्ति' के अनुसार नित्यप्रति भगवान्‌की पूजा, ध्यान, स्तुति ये सब आपको नित्य-नियमपूर्वक करने चाहिये।

भोजन-वस्त्रका संयम, व्यापारमें सत्य भाषण, लोभ-कपट-का त्याग, सबके साथ स्वार्थ छोड़कर विनयपूर्वक प्रेमभरा सद्-वर्ताव करनेकी चेष्टा रखनी चाहिये।

सदाचार, संयम, सेवा और साधन—ये चार सकार धारण करनेसे मुक्तिमें कुछ भी शङ्का नहीं है। बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है।

इन्द्रियों और मनको विपर्योगसे रोकनेको संयम, दुखी जीवोंको हर प्रकारसे मदद करनेको सेवा, सत्पुरुषोंद्वारा आचरित और कहे हुए मार्गको सदाचार और भजन, ध्यान, सत्संग, शास्त्रके अभ्यास आदिको साधन समझना चाहिये। इन्हींका विस्तार चाहे जितना कर सकते हैं। सूत्ररूपसे वाँचें लिखी गयी हैं। ये असृत हैं, इनको काममें लानेसे मुक्ति सहजमें

ही हो जाती है। ये बातें लोगोंको भलीभाँति समझाने और स्वयं अच्छी तरह काममें लानेकी हैं। इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनसे अपार सन्तोष, शान्ति और आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है।

भगवान्‌की यादमें भूल ज्यादा पढ़े तो उसका उपाय तीव्र अभ्यासकी चेष्टा करना ही है। और भगवान्‌में प्रेम बढ़नेका उपाय पूछा सो आपको पढ़ले लिया ही था। भगवान्‌के गुण-नुवाद पढ़ने, सुनने और कहनेसे पर्यं उसके गुण, आशय और प्रभावकी तरफ खयाल करनेसे भगवान्‌में प्रेम बढ़ सकता है। तथा भगवान्‌का भजन, ध्यान और सत्पुरुषोंका सग करनेसे भगवान्‌में प्रेम बढ़ सकता है।

भजन और सत्संग ज्यादा होनेमें तीव्र इच्छाकी जरूरत है। जिस वस्तुकी तीव्र इच्छा होती है उसके लिये प्रयत्न और चेष्टा भी बहुत अधिक होती है। जिसे रूपयोंकी जरूरत होती है वह रूपये पैदा करनेके बक्त उन्हींका चिन्तन और उन्हींके लिये तन-मनसे चेष्टा करता है। उसके मनमें प्राय दूर समय यहीं चिन्ता रहती है कि रूपया किस प्रकारमें पैदा हो। रूपया कमानेके विचारमें बहु अपने मन-बुद्धिको अर्पण कर देता है। इसी प्रकार जिनको भगवान्‌से मिलनेकी इच्छा होती है उन्हें अपने मन बुद्धिको भगवान्‌में अर्पण करना पड़ता है तथा भजन, ध्यान और सत्संग जो भगवान्‌के मिलनेके उपाय हैं उनके लिये तीव्र इच्छा हो जाती है। तीव्र इच्छा होनेपर उनके लिये उपाय तथा चेष्टा भी तीव्र होती है। कोई बाढ़मी ज्यादा चीमार होता

## परमार्थ-पत्रावली

है और वैद्य कहता है कि असुक वस्तुके आनेसे वच सकता है, उस समय उस वस्तुके लिये जिन्हीं अधिक चेष्टा होती है वैसी ही चेष्टा भजन, ध्यान और सत्संगके लिये होनी चाहिये। तीव्र इच्छा होनेसे ही तीव्र चेष्टा होती है और तीव्र चेष्टा होनेसे वस्तुकी प्राप्ति होती है। मिथ्या सांसारिक वस्तु तो चेष्टा करनेपर भी शायद न मिले और मिलनेपर रोगीको उससे आराम भी हो या न हो परन्तु भजन-सत्सङ्गके लिये चेष्टा करनेसे चेष्टा जरूर सफल होती है। और भजन-सत्सङ्गरूपी ओपधिके श्रद्धापूर्वक दीर्घकालतक सेवन करनेसे भगवान्‌में प्रेम होकर जन्म-मरणरूपी चीमारीका जरूर नाश हो जाता है। सत्यकी चेष्टा कभी व्यर्थ नहीं जाती।

जपमें भूल होनेकी बात लिखी सो जपके अधिक अभ्यास करनेसे जपकी भूल दूर हो सकती है। चिना प्रेमके भी प्रसन्न मनसे जप करनेका अभ्यास डालनेसे आगे चलकर प्रेमसहित जप हो सकता है और जिस समय जप निरन्तर होता है उस समय प्रेमसहित ही होता है। वैराग्य होनेसे तो जप-ध्यान चिना ही चेष्टाके निरन्तर होता है और भजन, ध्यान, सत्सङ्गसे ही वैराग्य होता है। 'भगवान्‌की स्मृति हर समय वनी रहनी चाहिये' ऐसी तीव्र इच्छा ही निरन्तर भगवच्छिन्तन होनेमें हेतु है। जप करते समय संसारकी स्फुरणा हो तो उसकी जगह जवरदस्ती भगवत्-विषयकी स्फुरणा करनेका अभ्यास करना चाहिये। ऐसा अभ्यास करनेसे जपके साथ ध्यानकी वृद्धि और संसारकी वासनाका भी क्षय हो सकता है। यदि सत्ता और आसक्तिरहित स्फुरणा हो तो कुछ हर्ज नहीं। सांसारिक

सत्ता और आसक्तिके नाश होनेके लिये जप और सत्सङ्घके तीव्र अभ्यासकी ज़रूरत है। भगवान्‌के नामकी याद हर वक्त बनी रहनी चाहिये, फिर अधिक अभ्यास होनेसे संसारमें वैराग्य तथा भगवान्‌के भ्वरूपमें स्थिति भी हो सकती है।

श्रीपरमात्मदेवकी तो सदा-सर्वदा सभीके ऊपर कृपा है, जिसे ऐसा निश्चय हो जाता है वही भगवान्‌की कृपाका पात्र है। उसे फिर भगवान् शीघ्र ही मिल जाते हैं क्योंकि विना मिले उनको चैन नहीं पड़नी है। संसार और शरीरको मिथ्या नाशवान् देखनेसे ओर सर्वव्यापी परमात्माको नित्य आनन्दखल्प देखनेसे भी वैराग्य हो सकता है। परमात्माके स्वरूपका चिन्तन, नामका जप और सत्सङ्घ ही प्रेम होनेका मुख्य उपाय है। जो आदमी भगवान्‌को सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, दयामिन्धु तथा विना ही कारण हित करनेवाला जानेगा वह तो कभी किसी भी यातके लिये भगवान्‌से प्रार्थना नहीं करेगा। यदि प्रार्थना करेगा तो 'प्रेमभावसहित निरन्तर चिन्तन होता रहे' इसी यातके लिये करेगा। हर समय नामके स्मरणका अभ्यास हो जानेसे फिर बहुत समयतक ध्यानकी स्थिति भी रह सकती है। भगवान्‌को याद रखते हुए ही सासारिक काम हो ऐसी चेष्टा रखनो चाहिये। संसारके कामोंसे भजन ध्यानको बहुत ही उत्तम और अमूल्य समझना चाहिये। संसारके काममें चाहे जितना हर्ज दो पर कामकी नुकसानीके लिये भजन ध्यान-को नहीं छोड़ना चाहिये। इस प्रकार पक्षी धारणा होनेसे संसारके कामोंको करतं हुए भी भजन-ध्यान हो सकते हैं। संसारके काम मानो नदीका प्रवाह है। जो पुरुष ज्यानके द्वारा

## परमार्थ-पत्रावलो

भगवच्चरणस्पी नौकाका आथ्रद ग्रहण कर लेता है तथा भगवन्नामस्पी नौकाके रस्सेको पकड़ लेता है वह बन्न जाता है और जो नदीके प्रवाहमें वह जाता है उसकी बहुत बुरी दशा होती है।

X

X

X

X

भजन-सत्सङ्ग ज्यादा होनेसे अन्तःकरण शुद्ध होगा, फिर धारणा होनेमें देर नहीं दोगा। फिर संसारकी कामना नहीं रह सकती, सो आपका चेष्टा है ही फिर भी इसके लिये और अधिक चेष्टा करनी चाहिये। इस काममें अभ्यास ही प्रथान है। दिन बीते जा रहे हैं। अपने मनमें विचारना चाहिये कि मैंने इस संसारमें आकर क्या किया 'और क्या करना चाहिये।' इसी तरह यदि और भी समय बीतेगा तो फिर कैसे जल्दी कामयादी होगी। समयको अमूल्य काममें विताना चाहिये। फिर संसार, रूपये तथा ये भोग किस काम आवेंगे। वस्तु तो बही है जो भगवान्‌में अधिक प्रेम करावे। उसके सिवा वाकी सब मिथ्या है। सोने और पत्यरके पहाड़ोंमें क्या फर्क है। कोई भी साध जानेवाला नहीं है। शरीर भी मिट्ठीमें मिलनेवाला है ऐसा जानकर इस शरीरसे पूर्ण लोभ उठाना चाहिये। भगवान्‌के भजन-च्यान विना एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये। क्योंकि भगवान्‌के सिवा सभी कुछ अनित्य और असत् है, अनित्य और असत् के लिये अपना अमूल्य जीवन हाथसे कभी नहीं गँवाना चाहिये।



[ ७९ ]

### सविनय प्रणाम ।

आपका पत्र मिला । आप जो कभी-कभी प्रश्न लिख भेजते हैं, यह मेरे लिये बड़े सौभाग्यकी वात है । इसमें कष्ट मानने या नाराज होनेकी क्या वात है । वल्कि यह तो आपकी कृपा है जो आप मुझसे पूछते हैं, क्योंकि इसी घहाने मुझे भी भगवत्-चर्चाका लाभ प्राप्त हो जाता है ।

वेतन कम होनेके कारण आपके घरका खर्च संकोचके साथ चलता है और ऋण चुकानेमें पेसा विल्कुल ही नहीं दिया जाता, अपद्य ही यह विचारणीय प्रश्न है । मेरी समझमें ऋण-मुक्तिके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करनेमें कोई दोष नहीं है । वल्कि किसी मनुष्य और देवतासे प्रार्थना करनेकी अपेक्षा भगवान्‌से प्रार्थना करना उत्तम है । किन्तु इस ऋणसे भी बढ़कर एक

निष्कामभावसे अपना धर्म पालन करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव जो मनुष्य निष्कामभावसे अपने धर्मका पालन करता है वह अवश्य ही निःश्रेयसको प्राप्त करता है।

गीताके १८ वें अध्यायके ४२ वें श्लोकमें शम, दम, तप इत्यादि ब्राह्मणके कर्म वतलाये गये हैं। ये गुण तो ब्राह्मणोंमें स्वभावसिद्ध होने ही चाहिये। इनके अलावा आजीविका आदिक सम्बन्धमें, जिसका गीतामें जिक्र नहीं है, मनु आदि महर्षियोंने जो कुछ वतलाया है उसे करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। ब्राह्मणोंके लिये मनुमहाराजने छः कर्म वतलाये हैं—

अथ्यापनमव्ययनं यजनं याजनं तथा ।  
दानं प्रतिप्रहं चैव ब्राह्मणानामकन्पयत् ॥

‘विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना—ये छः कर्म ब्राह्मणोंके हैं।’ इनमें विद्या पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये आत्माके उद्धारके लिये सामान्य धर्म हैं। शेष तीन—विद्या पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना—ये कर्म जीविकासे सम्बन्ध रखते हैं। इन तीनोंमें विद्या पढ़ाकर और यज्ञ कराकर धन लेनेकी अपेक्षा याचना करना निन्द्य समझा गया है। किन्तु जो दान अपने-आप विना माँगे प्राप्त हो और लेनेवाला केवल अपनी आवश्यकताके अनुसार ले तो वह दान अमृतके समान है। शिलोञ्च्छवृत्ति इन सबसे भी उत्तम है। किन्तु आजकल उसकी परिपाठी नष्ट हो गयी है। उन वृत्तियोंमें रहना असम्भव-सा है। अतएव यज्ञ कराकर, विद्या पढ़ाकर और विना याचना

किये यजमानकी दी हुई दक्षिणाके रूपमें धन लेकर जीविका चलाना ब्राह्मणके लिये सबसे उत्तम है। यदि पेसा न हो सके तो चिना माँगे आवश्यकतानुसार दान ग्रहण करना भी आपके लिये उत्तम है।

आजकल घोर कलिकाल पृथ्वीपर विराज रहा है। पेसे सद्कटकालमें सम्भव है, इन ब्राह्मणोचित कार्योंकि ढारा निर्वाह न हो सके। अतएव मनु आदि ऋषि-महर्षियोंने आपत्तिकालका भी धर्म बताया है। उसको ग्रहण करनेमें भी कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रोंमें बतलाया गया है कि यदि ब्राह्मणका कार्य ब्राह्मणवृत्तिसे न चले तो वह क्षात्रवृत्ति या वैश्यवृत्तिका अवलम्बन कर सकता है। देशकी जो वर्तमान स्थिति है, उसमें क्षात्रवृत्तिका भी पालन करना कठिन है। अतएव सब तरहसे विचार करनेपर इस आपत्तिकालमें आपके लिये वैश्यवृत्ति ग्रहण करना उत्तम मालूम होता है। किन्तु व्यापार करनेके लिये आपके पास धन नहीं है। इसलिये इसके लिये अच्छा होगा कि नौकरी न करके किसीकी दूकानमें अपना हिस्सा रख लें, हिस्सा कामका ही हो और उसका परिमाण दूकानके मालिकके साथ यथोचित निश्चित कर लिया जाय।

आपने लिया कि मैं दान लेनेकी अपेक्षा नौकरी करके निर्वाह करना उत्तम समन्वय है। यह बात आपने अपने स्वभाव और युक्तिके अनुसार ही लिखी है और एक दृष्टिमें उमे ठोक भी कहा जा सकता है। किन्तु सच पूछिये तो धर्मशास्त्रके अनुसार और मनु आदि ऋषि-महर्षियोंके

## परमार्थ-पत्रावली

विचारानुसार नौकरी भिक्षावृत्तिसे भी नीची है। ब्राह्मणके लिये नौकरीकी अपेक्षा भिक्षावृत्ति ही उत्तम है। वर्तमान समयमें भिक्षावृत्तिका प्रचलन उठ गया है, लोग इसका महत्व भूल गये हैं। और इस वृत्तिका आश्रय लेनेवाले लोग दूषित परामर्श खानेके कारण गिरी हुई अवस्थामें दिखलायी देते हैं। इसीसे युक्ति बतलाती है कि इसकी अपेक्षा तो नौकरी करके ही पेट पालना उत्तम है। पुराणे समयमें ब्राह्मणलोग जो दान लेते थे, जो भिक्षा ग्रहण करते थे, उसका लक्ष्य दाता या यजमानका कल्याण करना होता था। उनका ध्यान इसी बातपर रहता था कि दाता और यजमानका कल्याण हो, वे इसके द्वारा अपने निर्वाहकी बात नहीं सोचते थे। इसीसे उस समयमें वह वृत्ति युक्तिसे भी नौकरीकी अपेक्षा श्रेष्ठ मालूम होती थी। परन्तु आज भाव बदल गया है और इसलिये उसकी उपयोगिता भी नष्ट हो गयी है। अगर भाव ठीक हो जाय तो वह वृत्ति आज भी श्रेष्ठ ही है।

आपको शम, दम, तप इत्यादि स्वाभाविक धर्मोंको करते हुए माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदिका पालन तथा अपने निर्वाहके लिये न्यायसङ्गत उपायोंसे धन पैदा करनेकी कोशिश नित्य निरन्तर भगवान्‌को ध्यानमें रखकर करते रहना चाहिये। यहाँ तो भगवान्‌ने गीतामें अर्जुनसे कहा था—

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युव्य च ।

मर्यपितमनोबुद्धिर्ममैवेष्यसंशयम् ॥

—:—

[ ८० ]

आपका पत्र यथासमय मिल गया था। मैं कई दिनोंतक बाहर दौरेपर था, इधर ज्वाम्य भी कम ठीक हे, ऐसे ही कारणोंसे उत्तर देनेमें विलम्ब हो गया है, आशा है कि आप इप्या अमा करेंगे। आपके प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है—

(१) ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये आप जो प्रयत्न कर रहे हैं सो ठीक ही है। स्वप्रद्वारा हानि होनी है सो आहार और पिचारादिकी अशुद्धि ही इसमें मुख्य कारण समझा जाता है। आपको अपने आहार-विचारादिके विषयमें

[ १९३ ]

फिर विचार करना चाहिये । क्योंकि शास्त्रोंमें कामकी उत्पत्तिका मूल संकल्प ही बताया गया है—

काम जानामि ते मूर्खं सङ्कल्पात् किल जायसे ।  
सङ्कल्पे तु मया त्यक्ते कथं त्वं जायसे पुनः ॥

श्रीशङ्कराचार्यजीका कथन है—

कामस्य विजयोपायं सूदूरम् वक्ष्याम्यहं सताम् ।  
संकल्पस्य परित्याग उपायः सुलभो मतः ॥  
सङ्कल्पानुदये हेतुर्यथा भूतार्थदर्शनम् ।  
अनर्थचिन्तनं चाभ्यां नावकाशोऽस्य विद्यते ॥

( सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह ६२, ६७ )

इसलिये शुद्ध संकल्पसे ही इसका नाश होता है । रात्रिमें शयन करते समय श्रीगीताजीके श्लोकोंका पाठ करते हुए और उनके अर्थका चिन्तन करते हुए सोना चाहिये । इससे रात्रिके संकल्प पवित्र रहते हैं । विषयोंमें वैराग्य, उपरामता और हर समय ईश्वर-चिन्तन करते रहनेसे दिनके संकल्प पवित्र रहते हैं ।

( २ ) आप छः घण्टे भजनमें बैठते हैं सो बहुत उत्तम है । मनकी उधेड़-बुन मिटानेके लिये गायत्रीका जप करते समय मन्त्रके अर्थका ध्यान बार-बार करना चाहिये । प्रत्येक मन्त्रके जपके समय अर्थकी आवृत्ति करते रहना चाहिये । अथवा गायत्रीके मन्त्रको कागज या दफ्तीपर लिखकर सामने टाँग दिया जाय और जपते समय बार-बार उसे पढ़ा जाय एवं मनमें अर्थका ध्यान किया जाय ।

अथवा अपने मानसिक इष्टदेवके मस्तकपर मनके ढारा मन्त्रको चन्दनसे लिप्तकर बार-बार पढ़ा जाय। इन साधनोंसे भी मनका एकाग्र होना सम्भव है।

( ३ ) भजन करते समय दो प्रधान विघ्न उपस्थित होते हैं

( १ ) निद्रा, ( २ ) स्फुरण ( विशेष ) अर्थात् मनमें नयी नयी उधेड़ बुनका बार-बार उठना। इन दोनोंको मिटानेके लिये दूसरे प्रश्नके उत्तरमें लिये उपायोंके अनुसार मन्त्र और उसके अर्थका ध्यान करना चाहिये। इससे ये विघ्न दूर होकर मन टिक सकता है।

( ४ ) भजन करनेसे कोई व्याधि नहीं होनी चाहिये, यह आपका विश्वास ठीक है। यदि काकतालीय न्यायवत् किसीके कुछ हो भी जाती हो तो उसे भजनका परिणाम न समझकर भजन करनेवालेको इसका कोई विचार नहीं करना चाहिये। क्योंकि सभीको कोई तरुलीफ देखनेमें नहीं आती है।

( ५ ) आत्मामें प्रसन्नता, उत्साह और एकाग्रताके साथन इस प्रकार हैं—पद-पदपर अपने ऊपर ईश्वरकी पूर्ण दयाका दर्शन करनेसे उत्साह और प्रसन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। प्रत्येक सुख और दुःखकी प्राप्तिमें उस सुख-दुःखको ईश्वरका विधान समझनेसे उत्साह और प्रसन्नता बढ़ती है। और ज्यों-ज्यों उत्साह एवं प्रसन्नता बढ़ती जाती है त्यों-हीं त्यों ईश्वरकी दयाका रहस्य भी अधिकाधिक समझमें आता है। चित्तको एकाग्रताके

(१३) सिद्धियाँ अनन्त हैं। उनमें आठ मुख्य हैं—अणिमा, सहिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इनका वर्णन योगदर्शनके तीसरे पादमें, भागवत एकादश स्कन्धमें और हठयोगप्रदीपिका आदिमें है। इस समय इनकी जानकारीवाले सिद्ध योगी देखनेमें नहीं आते। इनकी प्राप्तिका उपाय इनके जाननेवाले योगियोंद्वारा तत्पर होकर साधनके लिये कोशिश करनेसे ही प्राप्त होना सम्भव है। कल्याणमार्गमें चलनेवाले पुरुषोंके लिये सिद्धियाँ वाधक बतायी गयी हैं। इसलिये परमार्थके साधकको इस ब्रॅह्मटमें नहीं पड़ना चाहिये। मुझको इनका कुछ भी अनुभव नहीं है।

(१४) सुपुज्ञानाडीका विषय बड़ा गहन है। शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे इसका वर्णन मिलता है। इस विषयमें योगदर्शनके प्रथम पादमें ‘विशेषका वा ज्योतिष्मती’ सूत्रकी व्याख्या (व्यासभाष्य) देखनी चाहिये। प्रश्नोपनिषद् एवं और भी योगविषयक शास्त्रोंमें यह विषय आया है।

सुपुज्ञानाडी परम शान्ति और परमानन्दको देनेवाली है। इसके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। पत्रद्वारा इसका साधन समझाना कठिन है।

(१५) अच्छे योगियों और महात्माओंके दर्शन अधिकतासे कहाँ होते हैं इसका मुझे पता नहीं है। प्रथम तो योगी और महात्मा होते ही कम हैं। जो हैं, उनका भी मिलना

कठिन है और मिलनेपर पहचानना भी कठिन है। उत्तरायण्डमें एवं गंगाकिनारे ऐसे पुस्तप सुने जाते हैं। श्रद्धा होनेपर भगवान् और महापुरुषोंकी दयासे उनके दर्शन होते हैं।

(१६) त्रक्षश्वानकी प्राप्ति होनेका उपाय पूढ़ा सो श्रोत्रिय और व्रह्मनिष्ठ पुरुषोंकी सेवा और संगसे, एवं परमेश्वरकी नित्य निरन्तर प्रेमपूर्वक धन्यभक्ति करनेसे परमेश्वरकी दयासे व्रह्मश्वानकी प्राप्ति होती है। गीताके इन श्लोकोंको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।  
उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन ॥

( ४ । ३४ )

मच्छित्ता मद्दनप्राणा वोद्यन्त परस्परम् ।  
कथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च समन्ति च ॥  
तेषा सततयुक्ताना भजना ग्रीतिपूर्वकम् ।  
ददामि द्विद्योग त येन मामुपयान्ति ते ॥  
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम ।  
नाशयाम्यात्ममापस्थो ज्ञानदीपेन भास्ता ॥

( १० । ९—११ )

इस प्रकार आपके प्रश्नोंका उत्तर है। और कुछ पूछना हो तो निःसंकोच पूछनेकी रुपा करेंगे।





